

संस्कृत-
सुपात्रदान विषये, पंक्ति श्री जिनविजयमहाराज विरचित-

श्री

॥ धनान्नालिभद्रनो रास ॥

गुर्जर लीपिमां जापेजा रास करातां पण सपज्ञानुसार वधारे संशोधन करी

गुर्जर लीपिमां जापेजा रास करातां पण सपज्ञानुसार वधारे संशोधन करी
जपावी प्रसिद्ध करनार

शा. कचरान्नाई गोपालदास. आमदावाद, धनासूतारनी पढीपोल.
अमदावाद-दंकशाजमां 'मुनिवन' प्रिन्टिंग प्रेसमां शा. वेजान्नाई नरासंहदासे जाप्यो.
सन १९६४.

विक्रम संवत् १९५७
किममत् सवा रुपियो.

प्रसिद्धकर्ताए आ पुस्तकने छापवा छापावना संबंधी सर्व प्रकारना हक पोताने स्वार्थीन राहया के.



आ संसारमां परिश्रमण करता प्राणीत्वेन बुद्धकादि दश दृष्टान्ते दुर्लभ एवो मनु
 प्यनो जन्म, आर्थिकेन, जन्ममकुल अने निरोपीकाया; ए सर्वे पामवुं दुर्लभ वे कदापि
 कोइ सुकतना उदयथी ते पण पामी शकाय, परंतु श्री जिनधर्म पामवो, ते तो यथोज
 दुर्लभ वे! ते धर्म दान, दीवल, तप अने ज्ञाव; ए चार प्रकारे वे. तेमां दानना प्रज्ञाव
 थी ध्वनार्थावाहादिक अनेक जीवो सुख संपत्ति पामी सद्गतिना जाजन थया; शीवल
 ना प्रज्ञावथी सुदर्शनदेवने ठावी फीटीने सिंहासन थयुं; तपना प्रज्ञावथी दृढमहारी
 जेवां चार जीवनी हत्था करनारे पण मुक्ति मेवथी अने ज्ञावना प्रज्ञावथी जगत्तेश्वर म
 श्वराजने आरीसाजुवनमां केवलज्ञान उत्पन्न थयुं. आ प्रकारे दान, शीवल, तप अने
 ज्ञानवुं फल सिंहातमां प्रतिद वे. तथापि आदि दानधर्मनुं प्रधानपणुं होवार्थी किंचित्
 दानधर्मनुं महत्वपणुं देखाडीए तीए. सर्व धर्ममां सार पदार्थ ते दानधर्मज वे. राज,
 रुद्रि, रम्यदि, जोग, दावद, रूप, रस, गंध अने स्पर्शा तेमज पोताना तथा परना देशमां
 जसा, महिमा अने मनावांजित अर्थना देनार ते दानधर्मज वे.

रूपज्ञावव प्रभुप्राथम्य धनसमर्थावाहना जवमां मुनिजनेने घृतनुं दान दीयुं. ता तीर्थक
 र पूज पापया दंडि म ये पांचवो मुनियेने आहार पाणी दावी आपवाधी आगदया जन्म

मर्तिं ॥ १ ॥ एष कृपाजनं कर्तुः श्रेयांसकुमरे कृष्णत्रयं नगवानने इहुरसथी
 सां जुरत रक्षवाप ॥ २ ॥ नो भ्रंत करी; तेज नभुषां मुक्तिने मेतवी; चंदनवाजाये अडदना
 प्रतिताभ्या, तो हस नो भ्रंत करी वरत डुदशानो अंत थयो, दीव्य रूप थयुं
 वाकुतां महावीर प्रभुने वक्षिराव्या, तो तेज वरत (मेधरथ राजाना नवमां) परेवाने
 अने पंचदीव्य प्रगट थया; शांतिनाथ प्रभुए पूर्वनेवे (मेधरथ राजाना नवमां) परेवाने
 अन्नयदान दीधुं, जेथी तीर्थंकर अने चक्रवर्तिपलानुं पुण्य प्रगट थयुं; मेघकुमार हाथीना
 नवमां सरसदाने अन्नयदान दीधुं, तो महाशक्तिमान् श्रेणिकराजाने धेर बलपन्न थयो; शां
 खराजा अने यशोमति राणी मुनिने द्राह्मनुं पायी बहोरववाथी नेभिनाथ अने राजीमती
 थयां; मुनिने रत्नकंबल आपवाथी रत्नबाई शेवाणी मरुदेवीमाता थयां; सुदत मुनिने
 दान देवाथी मुवाडुकुमर अत्यंत रूपवान थया; वीर प्रभुने वीजोरपाक देवाथी रेवती
 श्राविकाए तीर्थंकराज बांधुं; तेजज मासखमणने पारणे मुनिने खीरनुं दान देवाथी
 धनकुमर अने शातिनरकुमर आ नवमां अगणित रुद्रिना जोगी अइ वैराज्य पामी दी
 हा लेइ वने जण सर्वार्थसिद्ध विमानमां गया. त्यांथी न्यवी महाविदेहकेने कोइ महोटा
 शेवने धेर जन्म पामशे, त्यांपय सजुर समीपे दीहा ग्रहण करी कर्म स्वपावी सिद्धि
 दने वरशे. धनकुमर अने शातिनरकुमर मात्र मुनिने दान देवाथी अत्यंत रुद्रिना अइ

सुखी थया, तथा पाठला नवमां मात्र दाननी अनुमोदना करवाथी सुन्नचादिक आतं ध
 त्रकुमरनी स्त्रीयो भद्र, तेमज धनदत्त, धनदेव अने धनचंड; ए त्राये नाईयोए पाठला नव
 मां दान देइने त्रावार पश्चात्ताप करयो, जेथी त्रा वलत महाडःख पान्था. एम जाणी
 सर्व प्राणीजए दान देवुं. आ प्रकारे दान देवाथी, देवराववाथी अने अनुमोदना करवाथी
 सुख संपदा तेमज मोक देवलोकनां सुख मदेवे अने दान देइने पश्चात्ताप करवाथी डःख
 नरुपव थाय वे. तेसर्वे आ रास वांचवाथी पूरेपूरी रीते समजाशे.

पंक्ति श्री जिनकीर्तिसूरि विरचित संस्कृत चरित्र ऊपरथी पंक्ति श्री जिनविजय
 महाराजे स्मृत शेहेरमां आ रास वनाव्यो वे. असल प्रतमां हाटांतिक श्लोकोना अर्थ नहि
 होवाथी तेना, तथा कठण शब्दोना अर्थ (टिप्पण तरीके) नवा कराव्या वे. पूर्वोक्त श्लोकोना
 तथा कठण शब्दोना अर्थ कराववामां सर्वथकी चतुर्थवतथारक थावक हीराचंद ककल
 नाईए घणोज अम दीधो वे, तेथी आंहि तेमनो घणोज उपकार मानवामां आवे वे.

आ रासनी अंदर कानो, माआ, मीडी विगेरे जे कांड जिनाझाविरुद लखाणुं होय, ते
 मज कोफो लखतां अथवा शुफ सुधारतां जे कोड नूल रहि गइ होय; तो तेने मांटे चतुर्विध
 श्री संघनी साखे ईश्वरामंडकद देज वुं.

॥ श्रीचैतान्यगणेशार्चनाधायनमः ॥

॥ दोहा ॥ ऐडश्रेणि नत क्रम कमल, स्वस्तिश्री गुण धाम ॥ वीर धीर जिनपति
प्रते, प्रेमे करं प्रणाम ॥१॥ वसुधासं विद्या विपुल, वर दाता नितमेव ॥ समरं चित चो
स्के करी, ते प्रतिदिन श्रुतदेवि ॥ २ ॥ गुरु चरणांबुज सेववा, मुज मन मधुकर दीन ॥
उपगारी अवननी तले, गुरु सम को न प्रवीन ॥३॥ सिद्धाचल वैभारगिरी, अष्टापद गिर
नार ॥ समेतादि ए पंच वर, तीर्थ नमुं नित सार ॥४॥ संघ चतुर्विधने सदा, त्रिकरणा शुक
त्रिकाय ॥ वंडु विधि वंदन थकी, सुकृत करण सुविशाल ॥५॥ धर्म चतुर्विध उपदिशो,
जगप्रति जन हित काज ॥ दान क्षिपय तप ज्ञावना, जलनिधि तरण जिहाज ॥६॥
यतः ॥ उपजातिवृत्तम् ॥ दानं सुपात्रे विशदं च शीलं, तपो विचित्रं शुभ्र ज्ञावना च ॥
नवाहोत्तारण यानपात्रं, धर्मं चतुर्धा मुनयो वदंति ॥१॥ ज्ञावार्थः—सुपात्रने विषे दान
आपवुं, निर्मल शील पादवुं, विचित्र प्रकारनो तप करवो अने शुभ्र ज्ञावना ज्ञावनी;
ए रीति नव रूप समुद्धी पार पमाडवाने काज समान एवो चार प्रकारनो धर्म, मुनि
यो उपदिसे वे. ॥१॥ प्रथम दाल पद धर्मेना, दाह्या पंच प्रकार ॥ अन्नय सुपात्र अनुक

प तिम, उचित कीर्तिं सुविचार ॥७॥ इहलोकं सुख संपजे, लहिये नित नवनीधि ॥ अ
 न्यदान देते थके, परन्तव रुद्धि समृद्धि ॥८॥ एक शशक जगारते, पान्यो रुद्धि उदार ॥
 गज नवथी नर नव लह्यो, मेघकुमर मनोहार ॥९॥ तिम शुपात्र दाने करी, शिव सुख
 पामे जीव ॥ चित्त चित्त शुभ पात्रथी, विकरण शुद्ध अतीव ॥१०॥ पायसाज दाने करी,
 पान्यो न्गोण रसात ॥ धन्नशाह धर्मप्रथी, पद पद मंगल मात ॥११॥ शाक्तिप्रद पिण
 दानथी, सुख पान्यो श्रीकार ॥ श्रेणिक किरियाणो कियो, नर नव सुर अवतार ॥१२॥
 दीजे दान दया धरी, करी चित्त सुप्रकास ॥ मनवंचित सुख पानीए, कल्पद्रुम परे खास ॥१३॥
 धन्नशाह गुण वर्णुं, वचन धकी लवदेश ॥ निदा विकथा वोडिने, श्रोता सुणो सुविशेष ॥१४॥
 ॥ बाव १ वी. ॥ जंबूद्वीपना नरतमां. ए देशी. ॥

जंबूद्वीप सोहायणो, दाख जोयण परिमाणो रे ॥ वृत्ताकरे विराजते, जगति कन
 कमय जाणो रे ॥ जंबूद्वीप सोहायणो ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ त्रिणय दाख सोल सहस
 थी, अधिक वस्ते सत्तावीशो रे ॥ कोय त्रिक ऊपर कला, धनु झत एक जगीशो रे ॥
 जंबू ॥१॥ अजवीने आगजा, अंगुल साडांतर रे ॥ परिधि कही जंबूद्वीपनी, एहमां फार
 न करे रे ॥ जंबू ३ ॥ नरतकेव दक्षिण दीशे, सोहे जंबूद्वीप रे ॥ पांचसं वधीस व

कला, जोषणथी अर्त्त दीपे रे ॥ जंबू ॥ ४ ॥ पट खंन वैताल्ये करी, गंगा सिंधुथी सो
 हे रे ॥ नरततणी शोन्ना धणी, देखी सुर नर मोहे रे ॥ जं ॥ ५ ॥ मध्यखंनमं शोन्ना
 तो, पत्तन पुरपईवाणो रे ॥ इंडपुरी सम नृपतो, अति उत्तम अहिवाणो रे ॥ जं ॥ ६ ॥
 चौराशी चहुटां नत्तां, गढ मढ मंदिर दीपे रे ॥ देजल श्री जिनराजनां अमर नृपतने
 जीपे रे ॥ जं ॥ ७ ॥ पौषधशाया पडवडी, तिम वली पवननी शावो रे ॥ दानशाया
 अति दीपती, इप्सित दान रसावो रे ॥ जं ॥ ८ ॥ गोदावरी तटिनी तिहां, अह निशि
 वहे असरावो रे ॥ मञ्ज मयूर क्रिडा करे, सुंदर सोहे मरावो रे ॥ जं ॥ ९ ॥ वन नृपवन
 वाडी धणी, वृहत्तला बहु वृंदो रे ॥ सयन जायाथी शोन्नाता, पंथी पासो आणंदो रे ॥ जं ॥
 १० ॥ जितशत्रु नृपति तिहां, राजे धनदने तोवे रे ॥ खाण त्याग गुणथी नत्तो, लोक
 सह जय बोले रे ॥ जं ॥ ११ ॥ यतः ॥ नृपजातिवृत्तम् ॥ इंडात् नृपत्वं ज्वलनात्प्रतापं,
 क्रोधंयमाहैश्रमणाच्च वित्तं ॥ सन्न्यस्थिति रामजनादनात्त्या, मादायराज्ञःक्रियतेशरीरीं ॥ ११ ॥
 द्वावार्थः—इंड्यकी राजापणुं, अभिथकी प्रताप, यमनी पासेथी कोष, कुवेरन्फारी पासे
 थी धन, तेमज राम अने जनादंननी पासेथी सन्न्यस्थिति; ए सर्वे देइने राजानुं शरीर
 कराय वे ॥ ११ ॥ सुंदर रूप सोहामणी, गुणसुंदरी पटराणी रे ॥ वचनामृतथी वरसती,

श्रीले सीता जाखी रे ॥ जं० ॥ १२ ॥ रूपे रति पति सारीखी, सकल कलाये पूसे रे ॥
 अरिदमनात्रिष गुण नीलो, कुमर अठे अति झूसे रे ॥ जं० ॥ १३ ॥ वरण अठार वसे
 सुखी, नृप आषा प्रतिपाले रे ॥ सहु को निज निज धर्मधी, कुल सारण अजुआले रे
 ॥ जं० ॥ १४ ॥ कोटीध्वज व्यवहारीया, जोग पुरंदर सारो रे ॥ दान गुणे करी आगला,
 निवसे अति सुखकारो रे ॥ जं० ॥ १५ ॥ दृढधरमी गुरु रागीया, जन्म कुल आचारो रे ॥
 समकितवंत सदा धरे, आवकनां व्रत वारो रे ॥ जं० ॥ १६ ॥ दान कल्पद्रुम, सुमन्नी, प्रथ
 मदाव एह जाखी रे ॥ जिन कहे श्रोता सांभलो, मन वच तनु धिर राखी रे ॥ जं० ॥ १७ ॥
 ॥ दोहा. ॥ बडवखती व्यवहारियो, तिहां वसे धनसार ॥ कृदि वृदि दिन दिन
 अधिक, जदधि परे विस्तार ॥ १ ॥ जलधितला जिम रत्नो, पार न पांसे कोय ॥ तिम
 धनसारना धन तणो, देखो कदिय न होय ॥ २ ॥ दानादिक गुणधी अधिक, जिनधरमी
 गुण गेह ॥ त्रिण्य तत्त्व सुधा धरे, व्रतधारी शुचि देह ॥ ३ ॥ श्रीलवती तस गेहिनी, नाम
 तिसो परिणाम ॥ दंपति जोडी अति डुरस, जिम सीता ने राम ॥ ४ ॥ पंच दान नितप्रति
 दिये, व्रत पञ्चखाण उदास ॥ दोमुंडक सुरनी परे, विलसे जोग विलास ॥ ५ ॥
 ॥ दाव २ जी. ॥ कोयलो परवत धूंखलो रे दोः ए देशी. ॥

व्यवहारी धनसारने रे लो, विलसंते सुख नोगे रे ॥ सोन्नागी लाव ॥ पुत्र थया
 अति रूयडां रे लो, पूरव पुण्य संयोगे रे ॥ सोन्नागी लाव, व्यवहारी धनसारने रे लो
 ॥१॥ ए आंकणी ॥ धनदत्त ने धनदेवजी रे लो, धनचंडान्निध बाव रे ॥ सोण ॥ अध्यापक
 पासने न्नाया रे लो, शास्त्रादिक सुविद्याव रे ॥ सोण ॥ व्यण ॥ १५ ॥ विनयादिक गुण अन्त्यसे
 रे लो, सकल कला ग्रहे तेह रे ॥ सोण ॥ अति सुंदर सोहामणा रे लो, देवकुमर सम
 देह रे ॥ सोण ॥ व्यण ॥ १६ ॥ योगेन वय आव्या यदा रे लो, ताते तव ततकाल रे ॥ सोण ॥
 प्रित थकी परणाविषा रे लो, कन्या अति सुकुमाव रे ॥ सोण ॥ व्यण ॥ १७ ॥ धनश्री
 धनदेवी न्नावी रे लो, धनचंडा सुखकार रे ॥ सोण ॥ अति रूयडी रलीयामणी रे लो,
 गुणमणि रयण नंभार रे ॥ सोण ॥ व्यण ॥ १८ ॥ प्रमदायी प्रेमे रमे रे लो, धनदत्तादिक
 पुत्र रे ॥ सोण ॥ धरम करम विधि साचवे रे लो, राखे धरनो सूत्र रे ॥ सोण ॥ व्यण ॥
 ॥ १९ ॥ निर्वाहिक गृह न्नारना रे लो, जाणी पुत्र सुजात रे ॥ सोण ॥ धनसारनेन्य करे तदा
 रे लो, स्त्रीयुत धर्म विख्यात रे ॥ सोण ॥ व्यण ॥ २० ॥ नवपद ध्यान धरे नलो रे लो, पं
 क्षिम रात्रि विन्नाग रे ॥ सोण ॥ आवश्यक वे टंकनां रे लो, साचवे मन धरी राग रे
 ॥ सोण ॥ व्यण ॥ २१ ॥ चैत्यवंदन साते सदा रे लो, देवार्चन त्रिण्य टंक रे ॥ सोण ॥ ति

धार्चन युगते करे रे लो, टालवा पापना पंक रे ॥ सो० ॥ व्य ० ॥ ए॥ रथयात्रा रतीया
 मणी रे लो, साधुने वसती इन रे ॥ सो० ॥ पडिलाजे ज्ञावे करी रे लो, निरवद्य अस
 न ने पान रे ॥ सो० ॥ व्य० ॥ १० ॥ यतः ॥ अनुष्टुप्बृजम. ॥ जयंति वंकचूलाद्या, को
 द्रया चाश्रय दानतः ॥ अवंतिसुकुमालश्च, तिर्णा संसारसागरं ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—साधु मुनि
 राजने रहेवा माटे स्थानक आपवाथी कोद्रया वेद्रया, अवंतिसुकुमाल अने वंकचूलादिक;
 ए सर्व जयवंता वर्तो. कारणके, तेज संसार सागरने तरी गया ॥१॥ देवाना नित्य प्रत्ये सांप्रले
 रे लो, इंपति दिव धरी जाम रे ॥ सो० ॥ सातकेवने साचवे रे लो, नियम धरे हित का
 म रे ॥ सो० ॥ व्य० ॥ ११ ॥ पुण्य संयोगे अन्यदा रे लो, शीलवती सुकुमाल रे ॥ सो० ॥
 गर्भ धरे संयोगयी रे लो, निरुपम ज्ञाग्य विद्याल रे ॥ सो० ॥ व्य० ॥ १२ ॥ देख्यो सुपनो
 दीपता रे लो, फल्यो फूड्यो * सुरवृक रे ॥ सो० ॥ देखी आनंद ऊपन्यो रे लो, कंतने कहे
 परतक रे ॥ सो० ॥ व्य० ॥ १३ ॥ कंत कहे काभिनी प्रते रे लो होशो पूत्र प्रथान रे ॥ सो० ॥
 कुल संरुण कुल दिनमणी रे लो, रूपे रूप समान रे ॥ सो० ॥ व्य० ॥ १४ ॥ मत्पुपे अति
 प्रमशु रे लो, तड्या काखना जाण रे ॥ सो० ॥ फल पठ्यां सुहृणांतणां रे लो, बौड्या तेह

* कल्पवृक. + सवर्ण

सुजाया रे ॥सो० ॥ व्य० ॥ १५ ॥ अंगज अन्नत रूपथी रे लो, होशे सुगुण निधान रे ॥सो०॥
 सांनदी शेट सुशी थया रे लो, दीधो प्रेमे दान रे ॥ सो० ॥ व्य० ॥ १६ ॥ अनुक्रमे ग
 र्ना वधे सुखे रे लो, मानस सर जिम हंस रे ॥ सो० ॥ जिन कहे वीजी ढालमां रे लो,
 पुण्ये कुल अवतंस रे ॥ सो० ॥ व्य० ॥ १७ ॥

॥ दोहा ॥ अथ त्रीजे मासे अवल, दोहद उपजे ताम ॥ जिनपूजा गुरु सेवना,
 करवा उत्तम काम ॥ १ ॥ साधुने वखादिक दिनं, पोखूं संघ नदार ॥ स्नात्र महोद्वव
 साचवुं, विरचूं जैन विहार ॥ २ ॥ पौषध सामायिक करूं, धरं नियम चितलाय ॥ नव
 पदने अह निशि जपुं, पाळूं प्रवचन माय ॥ ३ ॥ जीवदया राखण यतन, करंकरावुं सार
 ॥ आत्तरणादिक अति सुन्नग, पहेरूं वेश नदार ॥ ४ ॥ इत्यादिक दोहद सकल, प्रतिदिन
 जेह उपन्न ॥ ते ते शेटे पूरीया, करते कोडि यत्न ॥ ५ ॥

॥ ढाल ३ जी. ॥ दान उदट धरी दीजीए.ए देशी. ॥

मास नव दिन साते थये, उत्तम योग तिथि वार रे ॥ शीलवती सुत प्रसवीयो,
 हूज हर्ष अपार रे ॥ पुण्ये सयल सुख पासीये ॥ १ ॥ ए आंकषी ॥ वामिये डरित डःख
 हूर रे ॥ वंठित विपुल वेगे भिजे, फले सुरवृक्ष नरपूर रे ॥ पुण्ये ॥ २ ॥ बाल नाव स्था

पन नश्री, नूनि खनन करे जाम रे ॥ कनकनिधि परगट धयो, देखी प्रमुदित धया
ताम रे ॥ पुण्ये० ॥३॥ शोवने दीधी वधामणी, सुणी हरख्यो धनस्तार रे ॥ लाख पसाय
तहने कीयो, दीयो सुजस सुप्रकार रे ॥ पुण्ये० ॥४॥ उडव रंग वधामणां, धवल मंगल
नवरंग रे ॥ याचक दान देवराधीयां, बांध्यां तोरण चंग रे ॥ पुण्ये० ॥५॥ चंद्र सूर्यादि
दर्शन कीयां, तृतीय दिने ततखेव रे ॥ रात्रि जागरण ठेठे दीने, धर्मकार्य जिनसेव रे
॥ पुण्ये० ॥६॥ दश दिन स्थितिपतिका करी, अशुची टाले ततकाल रे ॥ अरन वसना
दिके स्वजनने, पोख्या नक्ति सुविशाल रे ॥ पुण्ये० ॥७॥ जन्म समय धन प्रगटीयो,
ते गुण हृदय संनार रे ॥ नाम धनकुमर ताते दीयो, हूज सुजस विस्तार रे ॥ पुण्ये० ॥
॥८॥ रूप दावाय गुणे करी, अधिक ठेठे शुचि देह रे ॥ पंच धावे करी पावते, सुखमें
वधे गुणगेह रे ॥ पुण्ये० ॥९॥ अनुक्रमे अष्टवार्षिक धयो, पाठव्यो पितृ निशाल रे ॥ यत
नथी पठन करे तदा, धनकुमर उजमाल रे ॥ पुण्ये० ॥१०॥ यतः ॥ अनुष्टुप्बृचम् ॥
माता वेंरी पिता शत्रु, बादायेन न पावितः ॥ न शोभते सनामधये, हंसमध्ये वको
यथा ॥१॥ इत्यर्थः—जमणं बाढकने नणाव्यो नथी; ते भ्राता पिता बाढकनां शत्रु जा
एवां. कारण के, ते शत्रुणां राखेवो पुत्र, हंसोभां कुंवाली पेंवे विद्वानोनी सनामां शो

जतो नथी ॥११॥ हवे विद्याना गुण कहे ते. ॥ शाद्वैदिकी दितवृत्तम् ॥ विद्यानाम नरस्य
 रूपमधिकं भूत्वन गुप्तं धनं, विद्या जोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः ॥ विद्या
 बंधुजनो विदेश गमने विद्या परं दैवतं, विद्या राजसु पूज्यतेन हि धनं विद्या विहिनः
 पशुः ॥११॥ ज्ञावार्थः—विद्याज पुरुषनुं अधिक रूप, दांकिंतुं गुप्त धन, जोग, यश, सुखने
 आपनारी, गुरुनी पण गुरु, प्रवासमां वाटे जतां बंधुजन समान अने परम दैवत रूपते;
 राज दरबारमां विद्याज पूजाय ते, पण धन पूजातुं नथी; माटे विद्या रहित पुरुषने ज
 नावर समान जाणवो. ॥११॥ वली पण विद्याना गुण कहे ते. ॥ उपजातिवृत्तम्. ॥ न चौर
 हार्यं न च राज हार्यं, न ज्ञातु ज्ञाप्यं न च ज्ञारकारि ॥ व्यये कते वर्द्धत एव नित्यं,
 विद्या धनं सर्व धन प्रधानं ॥१३॥ ज्ञावार्थः—विद्या रूप धन, चौर तथा राजाषी देह लेवातुं
 नथी, ज्ञादयोथी वहेची लेवातुं नथी, कांड ज्ञार करतुं नथी अने कोइने आपवाषी घट
 वाने बदले निरंतर वधे ते, माटे विद्या रूप धन सर्व धनमां मुख्य धन ते. ॥१३॥ अनुष्ठुवृत्तम्
 रूप यौवन संपन्ना, विशाल कुल संजवाः ॥ विद्या हीना न शोचन्ते, निर्गंधा इव किंशुकाः
 ॥१४॥ ज्ञावार्थः—रूपाया, युवान अने महोटा कुलमां उत्पन्न षण्णया, एवा पण जो विद्या
 हीन होय, तो सुगंध विनानां केशजूनां फूलनी पेटे शोचता नथी. ॥१४॥ विद्वत्वं च नृपत्वं

च, नैव तुल्यं कदाचन ॥ स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान् सर्वत्र पूज्यते ॥५॥ ज्ञावार्थः—विद्या
 नपणुं अने राजापणुं ए कदि पण वरोवर देज नहि. कारणके, राजा पोताना देशमां पूजाय
 ठे अने विद्वान सर्वे ठेकाणे पूजाय ठे. ॥५॥ दिखित गणितादि बहोतेर कदा, तिम वली
 शुक्रन विचार रे ॥ गीत नृत्यादि विधि ग्रही, शब्दशास्त्रादि व्यवहार रे ॥ पुण्ये० ॥ १॥ जो
 तिय निमित्त वैद्यक ज्ञतां, अल्प प्रयासथी तेह रे ॥ विस्मृत स्मरण जुं कीर्ण, तेम
 ज्ञण्यो धरि नेह रे ॥ पुण्ये० ॥ १२॥ बुद्धि चारतणो जदधि ते, तिम वली नीतिनो जाण रे ॥
 विणज व्यापारे कुशलपणो, परिक्रक मांहि सुप्रभाण रे ॥ पुण्ये० ॥ १३॥ नीपन्यो पूत्र ते
 निरखीने, दिव धरी अधिक आणंद रे ॥ अध्यापक धन आपने, संतोष्यो अतिहि अमंद
 रे ॥ पुण्ये० ॥ १४ ॥ बाल वय ठोडि वलवंत ते, अयो यौवन वेश रे ॥ अतुल्य अति रूप
 लावण्यथी, प्रगट्यो जाणे सुरेश रे ॥ पुण्ये० ॥ १५॥ पंच भिद्वी पृश्न पठे जीके, जत्तर दिये
 तम ठीक रे ॥ नीति रीते कसी दाखवे, साहसपणे निरन्नीक रे ॥ पुण्ये० ॥ १६॥ धन सु
 तथी धनसारनो, वध्यो सुजस जगसांह रे ॥ कृद्धि स्मृद्धि पाम्नी धणी, दिन दिन अतिहि
 जडाह रे ॥ पुण्ये० ॥ १७॥ धवल पके जिम चंझमा, प्रतिदिन अधिक दीपंत रे ॥ तेम कुम
 र चहनी कदा, कोय न कास जीपंत रे ॥ पुण्ये० ॥ १८॥ चतुरपणे मात तातनां, विनय

वचन प्रतिपाल रे ॥ दास क्लृप्तदुम रासनी, जिन कहे श्रीजी दाव रे ॥ पुण्ये ० ॥ १९ ॥
 ॥ देहा ॥ कला कोष देखी करी, रूपवंत शिरदार ॥ ज्ञान्याधिक जाणी करी,
 चित चिंते धनसार ॥१॥ पुण्योदयथी माहरे, श्री जिनधर्म पसाय ॥ अंगज अन्नत ऊष
 न्यो, सयण सयल सुखदाय ॥१॥ एहथी धन वाथ्यो अधिक, यश हुज जगत विख्याता ॥
 पंचमे पति वधती श्रद, वारू वनी ए वात ॥ ३ ॥ सद्गुण स्तवना कीजीए, तेहमां कोई
 न दाज ॥ सुत पिण चित राजी रहे, एक पंथ दोद काज ॥१॥ पंचमे बेसी शैवजी, धन
 सुततणां वखाण ॥ प्रतिदिन ज्ञांखे प्रेमशुं, विविध परे सुप्रमाण ॥१॥ जन्म काले ए वा
 लना, धन प्रणथो अति नूर ॥ दुःख दोहण दूरे टड्यां, अम कुल अंबर सूर ॥६॥ विनयवं
 त विद्या निलो, अवर नहीं को आज ॥ अप्रजात ए आगले, कोय न आवे काज ॥१॥

॥ दाव स थी. ॥ पुण्य न मूकीए. ए देही. ॥

वयण सुणी निज तातनां रे, अप्रज सुत अकुलाय ॥ त्रिण्ये मितीने तातना रे, आ
 वी प्रणमे पायो रे ॥ तातजी सांजलो ॥ ए आमची अरदासो रे, मूकी आमलो ॥ मन रा
 खी विस्वासो रे, तातजी सांजलो ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ धनकुमर अम अनुज ठे रे, रूप
 कला अनिराम ॥ तिणे करी अमे प्रमुदितपणे रे, रहीए सदा शुज कामो रे ॥ ता ० ॥१॥

ए अमने प्रति वायहो रे, प्राणधकी निरधार ॥ माडी जाया दोहीला रे, जाणे सयव सं
 सारो रे ॥ ता० ॥३॥ पिण सुतनी गुण वर्णना रे, न धटे तुमने रे तात ॥ नीति शाल्मसे
 पिण कही रे, ते ठूं वीसरी वातो रे ॥ ता० ॥४॥ यतः ॥ अनुदुव्वचम. ॥ प्रत्यके गु
 रवः स्तुत्या, परोके भिन्न वांधवा ॥ कर्माते दास नृत्याध, पुत्राधैव मुताखियः ॥ १ ॥
 नावाधः—प्रत्यक्षमां गुरुनां, परोक्षमां भिन्न अने वांधवोनां, आपणुं कार्यं धर रक्षा पढी
 दास अने अनुचरोनां; तेमज पुत्र अने स्त्रीनां मरण पढी वखाण करवां ॥१॥ ॥ आधावृत्त
 म्. ॥ वनिज्जह त्रिच्च गुणो, न परस्के न य सुअस्स पच्चस्के ॥ महिदाज नोन्नयावि हु, न
 नस्सए जेण माहणं ॥१॥ नावाधः—सेवकना गुण प्रत्यके कहाथी, पुत्रना गुण परोके
 कहाथी अने स्त्रीना गुण कदि पण नहि वोलवाथी पोतानुं महोटाइपणुं सचवाय वे. तेम
 जनां जो कदि बोले, तो माननो नाश थाय. ॥१॥ सुत गुण वर्णवते धके रे, लघुता लहीए
 रे थाप ॥ सुत पिण विनय न साचवे रे, मानतणो होय व्यापो रे ॥ ता० ॥ ५ ॥ कुज
 मयांवाथी टले रे, न गणे मातने ज्ञात ॥ तातने पिण नवि खेखवे रे, प्राइक होय जो जात रे
 ॥ ता० ॥ ६ ॥ ते माटे हवे आजथी रे, सुत गुण वर्णन वात ॥ मत करण्यो कोइ आगवे
 रे, ए अम वचन विख्यातो रे ॥ ता० ॥७॥ वचन सुणी तव दोवन्नी रे, सुतने कहे सुवि

चार ॥ गुण ग्राहक तुमै को नही रे, त्रिण्ये मूढ गमारी रे ॥ पुत्रजी सांझलो ॥ ए अश्वची
 एक वातो रे, मूकी आसलो ॥ जिम पामो सुखशातो रे, पुत्रजी सांझलो ॥ ७ ॥ ए आंक
 ली ॥ तुम जाया पढी घरतयो रे, धन हीणो अयो जोय ॥ व्यापारे हीणा पड्या रे,
 कार न माने कोयो रे ॥ ८ ॥ १० ॥ घणुं कहेतां हीणप हुवे रे, विणसे घरनां रे काज ॥
 निज साथल उघाडते रे, पामीजे अति लाजो रे ॥ १० ॥ ए अंगज आव्या अकी रे,
 लक्ष्मी लील करंत ॥ कार कडप वध्यो आपणो रे, सहु जण आण वहत रे ॥ १० ॥
 ? १ ॥ यतः ॥ अनुष्ठुवृत्तम् ॥ एकोपि गुणवान् पुत्रो, निर्गुणैः किं शतैरपि ॥ एकश्रद्धो ज
 गच्छतु-नक्षत्रैः किं प्रयोजनम् ॥ ३ ॥ भावार्थः-एक पण गुणवान पुत्र होय तो सारो, परंतु
 शैकडो निर्गुण पुत्रोवेडे शुं ? कारण के, एक चंड ते आखा जगतनी आंख ठे, पण घणा
 नक्षत्रोवेडे शुं आय ? कांइ नही ॥ ३ ॥ एकेन हि सुवृक्षेण, दुष्पितेन सुगंधिना ॥ वासितं
 तद्धनं सर्वं, सुपुत्रेण कुलं यथा ॥ ४ ॥ भावार्थः-एक पण सुगंधीदार फूलवाला सारा वृ
 क्षवेडे जेम आखुं वन सुगंधमय आय ठे, तेम सुपुत्रवेडे पण आखुं कुल साहं केहवाय ठे-
 ॥ ४ ॥ वरमेको गुणी पुत्रो, न च मूर्ख शतान्यपि ॥ एकश्रद्धस्तमोहंति, न च तारागणो
 पि च ॥ ५ ॥ भावार्थः-गुणवान एवो एक पुत्र होय ते सारो, पण शैकडो मूर्ख पुत्रो सा

रा नहि, कारण के, एक चंद्र आखा जगत्ना आधारने दूर करे ठे, पण तारादत्तो समूह
 करतो नथी. ॥१॥ तात वचन सुणी ततक्षणे रे, त्रटकी बोड्या रे तेह ॥ एक पखो इम
 ताणतां रे, जाण्यो तुमचो नेहो रे ॥ तातजी सांजलो ॥१३॥ व्यवसायांथें जलधिमें रे,
 अमे जाऊं अति दूर ॥ कष्ट खमू तोफाननां रे, जिहां नवि दीसे सूरु रे ॥ ताण॥१३॥
 तिहां जइ धन लावूं अमे रे, राखूं अमे व्यवहार ॥ वलि परदेशे अलवटे रे,
 जाउं करण व्यापारी रे ॥ ताण॥१४॥ तडका ताढ घली खमुं रे, वर्गकाले रे वृष्टि ॥ मूल
 तृणा सहवी सदा रे, पंथ अम जुजु दृष्टे रे ॥ ताण॥१५॥ वली सेवा राजातशी रे, अमे
 करूं अह निशि खास ॥ ते पिण धनने कारणे रे, जोचो हृदय विमासो रे ॥ ता० ॥१६॥
 यतः ॥ मंदाकांतावृत्तम् ॥ मौनान्मूकः प्रवचनपटुः वातुलोजल्पकोवा, काल्याप्तीरु यदि
 न सहते प्रायशोभ्राजिजातः ॥ दृष्ट्वा पार्थ्वं भवति च सदा दूरतश्चाप्रगल्भ, सेवार्थमः
 परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ॥ ६ ॥ ज्ञावार्थः—मौन धारण करवाथी मूगो, बोलवामां
 चतुर होवाथी वाचाल अथवा बहु बोलकणो, कमगुणश्री वीक्षण, सहन गुण न होवा
 श्रीतामसी, हम्मेशांपासे रहेनारो होय तो जोनारो, अने दूर रहंतो होय तो गरिव; एं प्रका
 रे सेवा (चाकरी) धर्म धंशोज आकरो ठे, अर्थात् तें योगी जनोने पण अगम्य ठे. ॥६॥

कृषिकर्मोदिक बहु करं रे, वलि नेस्ती व्यवसाय ॥ दोशीवट नाशावटी रे, कण व्यापार
 कहायो रे ॥ ताण ॥१७॥ इत्यादिक उपक्रम करी रे, अर्जन करं धन कोड ॥ अमे सामर्थ
 सदा अणु रे, किम धनो अस जोडो रे ॥ ताण ॥१७॥ ए अह निशि रमतो फरे रे, न करे
 घरनी रे सार ॥ चौथी ढाले जिन कहे रे, पुण्ये जय जयकार रे ॥ ताण ॥१७॥

॥ दोहा. ॥ धनाने अमथी अधिक, दाखो कवण प्रकार ॥ वचन अयुक्त कहा
 तणो, उत्तम नही आचार ॥१॥ तातने तनुज सेवे सदश, लेखवा हित लाय ॥ नयन
 सदश गणवा सदा, लोक कहे ए न्याय ॥१॥ सुतमें अंतर राखते, वधे विरोध विख्याता ॥
 लज्जा लागे लोकमें, हीणप पामे जात ॥३॥ तात सफुज्ज सदा करे, सुत वांछित सुप्रका
 र ॥ जो सुतने पोखे नही, तो शो सगपण सार ॥४॥ ते माटे तुमे तातजी, सरिखा
 गणज्यो सर्व ॥ विधि व्यवहारे चालतां, कहने न चढे गर्व ॥५॥

॥ ढाल ५ मी. ॥ (रहो रहो रहो वालहा. ए देशी.)

शैठ कहे सुत सांजलो, इं गुणानो आसक्त लाल रे ॥ जात सदश सवि माहरे,
 पिण तुमे ठो अव्यक्त लाल रे ॥ शैठ कहे सुत सांजलो ॥ ए आंकणी ॥१॥ यतः ॥ अनु
 षुब्धत्तम्. ॥ गुणाः सर्वत्र पूज्यंते, पितृवंशो निरर्थकः ॥ वासुदेवं नमस्यंति, वसुदेवं नते

नराः ॥१॥ ज्ञाचार्यः—सर्वे ठकारे गुणो पूजाय वे, पण पित्तानो वंग पूजातो नश्री. अ
 यात् ते नकामो वे. केमके, सर्वे लोको वासुदेवने नमस्कार करे वे, पण तेमना पिता
 वसुदेवजीनि नश्री करता. ॥१॥ नहि जन्मनि जेष्ठत्वं, जेष्ठत्वं गुण उच्यते ॥ गुणाजुह्व
 मायाति, इधि दुग्धं घृतं यथा ॥३॥ ज्ञाचार्यः— जन्मने विषे महोटापणुं नश्री, परंतु गु
 णने विषे वे. गुणश्रीज महोटाइ आवे वे. जेमके, दूध, वहीं अने घी; ए सर्वमां थी म
 हेतुं गणाय वे, ॥१॥ कुसुम प्रसुख गुणश्री सदा, गुंझ्या नर घरे शीश लाव रे ॥ गुण
 युत वंशादिक प्रते, नूय कर घरे नुजगीश लाव रे ॥शेठण॥१॥ सुरनिगुणे सुगमद ज्ञानी,
 कौवा अतिही अमूढ्य लाव रे ॥ वावनाचंदन काष्ठने, सह चाहे बहु मूढ्य लाव रे ॥
 ॥शेठण॥३॥ यतः ॥ आचल फूल अति फूटडां, पगे न पूजा होय ॥ चंपा फूल अमूढ्य
 गुण, शीर चढे सह कोय ॥३॥ ज्ञाचार्यः—जो के, आवलनां फूल देखीतां घणां सुंदर ज
 णाय वे. तो पण तेमां सुगंधनो गुण नहि होवाश्री, कोद पगे पण अडाडतुं नश्री; अने
 चंधानां फूल देखीतां फक्त धोलां वे, परंतु तेमां सुगंधनो गुण बधारे होवाश्री सर्वे लोको
 तेने उत्तम सूतानी पंक्तिमां गशी माथे चढावे वे अर्थात् सह तेनां उपजोग करे वे. ॥३॥
 पुण्यप्रकृति गुण एवमां, प्रगट अवे अहो पूल लाव रे. ॥ एं अंगुश जनन्या पठी, अधि

कं थयो धरसूत्रं लाल रे ॥श्लोठणा॥४॥ व्यवसायादिकं साधरां; आंवे ठे अहो जात लाल रे
 ॥ संकल समीहित संपदा, पामी जगत विख्यात लाल रे ॥श्लोठणा॥५॥ जो तुमने ए बा
 लना, गुण न गमे मनमांह लाल रे ॥ तो तुमे प्राग्य पोतात शो, परखो अतिहि उहांह
 लाल रे ॥श्लोठणा॥६॥ त्रीश त्रीश सासा सुवर्शना, लेइ करो व्यवसाय लाल रे ॥ लाज
 कमाइ तेहनो, पोखो स्वजन समवाय लाल रे ॥श्लोठणा॥७॥ इस कही चारे पुत्रने, छे
 सासा त्रीश त्रीश लाल रे ॥ एकेक दिन नोजन तुमे, देख्यो धरी सुजगशि लाल रे ॥
 ॥श्लोठणा॥८॥ ते लेइने आप आपणे, स्थानके जइ ततखेव लाल रे ॥ धन अर्जन चिंता
 धरे, मनमें अति अहमेव लाल रे ॥श्लोठणा॥९॥ नोजन नक्ति नणी तदा, प्रथम दिने धनदत्त
 लाल रे ॥ व्यवसायोद्यमशी करे, पिण फल प्राग्यशी ऊत्ति लाल रे ॥श्लोठणा॥१०॥ यतः
 ॥ अनुष्ठुववृत्तम्. ॥ उद्यमं कूर्वतां पुंसां, प्राग्य सर्वत्र कारणं ॥ समुद्र मथनाद्धेजे, हरि
 लक्ष्मीं हरो विभं ॥४॥ आवाशः—उद्यमकर्ता पुरुषोने बधे ठेकाणे, प्राग्य कारणभूत ठे.
 कारण के, समुद्र मथन करवाशी, हरि लक्ष्मीने प्राप्त करता हवा अने शिव ऊरने मे
 लवता हवा. ॥४॥ बहुल प्रयास शकी तिणे, लाज लह्यो अति स्वल्प लाल रे ॥ चिंते
 नोजन शी विधे, देशुं अतिहि अनल्प लाल रे ॥श्लोठणा॥११॥ बाल लिया सविशेषशी, तैल

ग्रही तेषिवार लाल रे ॥ *अपराह्ने भोजन दियो, तेडी निज परिवार लाल रे ॥ शेष
 ॥११॥ तिम व्यवसाय अकी तिहां, दिन बीजे धनदेव लाल रे ॥ भोजन चपलने तैलनो,
 ते पिल धे स्वयमेव लाल रे ॥शेठण॥३॥ व्रीजे दिन धनचंडजी, करी उद्यम असमान
 लाल रे ॥ स्वोपाङ्कित धनश्री दिये, *मापने तैल निदान लाल रे ॥शेठण॥४॥ कुटुंब ध
 यो अति आकलो, तुडोदनथी अशेष लाल रे ॥ उदर[†]व्यथा अरु आकरी, वायु प्रकोप वि
 शेष लाल रे ॥शेठण॥५॥ त्रिण्ये सुत जांखा थया, शेठ कहे तव तास लाल रे ॥ देखो
 द्वये धनकुमरनो, जाग्य प्रवल सुप्रकास लाल रे ॥शेठण॥६॥ मौन करीने ते रक्षा, त्रिण्ये
 सुत तिश ताल लाल रे ॥पांचमी ढाल कही भली, जिन मनधरी उजमाल लाल रे ॥शेठण॥७॥

॥ दोहा. ॥ अथ चोथ्रे दिवसे अबल, सज करी सवि शृंगार ॥ पितृ दच
 मासा ग्रही, हवे ते धन्नकुमार ॥१॥ शुक्रन विचारी चिचमें, स्वर साथी शुभ्र काम ॥
 आव्यो चहुटे चौपशुं, व्यापाराथें ताम ॥२॥ दोशी ने नाशावटी, नेस्तीने मणीहार ॥
 गांधी साथरिया तिमज, लोहंकार सोनार ॥३॥ फडिया सुखडिया बली, जोतो ऊवरी
 उल ॥ कापड चोपड प्रमुखना, पूठे पाड सतोल ॥४॥ महेश्वर इन्धेइने, हाटे बेगे हेव

* नीजे पडारे. † अइद. ‡ पोहा.

॥ नहीं उच्चक उक्तावलो, समरे श्री गुरु देव ॥५॥

॥ ढाल ६ टी. ॥ (गूरांजी छें मने गोडे न राख्यो. ए देशी.)

एहवे देशांतरि एक प्रेष्यक आयो, महेश्वरदत्त मन जायो हो ॥ सुभ्रग सनेही साजन, अचरिज पेखो ॥ ए आंकणी ॥ लेख अनोपम तेणे ततक्षण दीधो, महेश्वर कर धरी लीधो हो ॥ सुभ्रगणा ॥ गुप्तपणे तेणे वचनज कीधो, मनह मनोरथ सीधो हो ॥ सुण ॥ लेखमें लिख्यो मित्र सुमित्रे विचारी, स्थानपुरथी सुखकारी हो ॥ सुण ॥ उत्तर दिशिथी ए सार्थप सूरु, सकल क्रयाणके पूरो हो ॥ सुण ॥ आवे ठे ए पद्मवाणपुर धासे, व्यवसायार्थे विवासे हो ॥ सुण ॥ ३॥ तेह जणी एने तुमे सतमुख जाज्यो, नेट मूकीने मित्र थाज्यो हो ॥ सुण ॥ दाय उपाय करी हाथे करेज्यो, पढे क्रियाणक सवि देज्यो हो ॥ सुण ॥ ४॥ लाज घणो ठे एहमां सांजलो भाई, खोट नहीं ठे एहमां कांई हो ॥ सुण ॥ एक पांती अमने तुमे देज्यो, पिण एह काज करेज्यो हो ॥ सुण ॥ ५॥ एहवो अवसर फि रीने नहीं आवे, घणुं लिखे शुं थावे हो ॥ सुण ॥ पत्र वांचीने महेश्वर मन हरख्यो, मित्रने साचो करी परख्यो हो ॥ सुण ॥ ६॥ चित्तमें चिते एह कार्य ठे महोटो, उच्चकपणो इहां खोटो हो ॥ सुण ॥ प्रथम तो घेर जइ भोजन कीजे, नीति वचन चित्त लीजे हो ॥

॥सु०॥३॥ यतः॥ अन्तुवृत्तम्. ॥ इतं विहाय प्रोक्तव्यं, सहस्रं खानमाचरेत् ॥ लकं
विदाय दातव्यं, कोटिं त्यक्त्वा जिनं प्रजेत् ॥१॥ प्रार्थार्थः—सो काम पड ॥ मूकीने ज
मनुं, हजार काम पडतां मूकीने नहाडुं, लाख काम पडतां मूकीने दान देणुं अने कोड
काम पडतां मूकीने जिनराजने प्रजवा. ॥१॥ एइत्रो आलोची भोजन प्रणी पहोत्यो,
महेश्वर मन गहगदतो हो ॥सु०॥ महेश्वरदेत्ते जे पत्र पिठाण्यो, ते धत्रे सवि जाण्यो
दां ॥सु०॥६॥ वनकुमर चित्तमांही विचारे, एह विशज कुण दारे हो ॥सु०॥ ए व्यवसाय
श्री लाप्रज श्रो, सकल कुंडुच संतोप्राशे हो ॥सु०॥७॥ विलंब तयो हवे समय नदीसे,
कार्य करं सुजगीसे हो ॥सु०॥ ८म चिंती मित्र मंदिर आयो, रूडो ते वेश वनायो हो ॥
॥सु०॥१०॥ यतः ॥सजायां व्यवहारे च, वैरिपु श्वसुरौकसि ॥ आंवरणशि पूज्यंते, स्त्रीपु
राजकुलेषु च ॥१॥ प्रार्थार्थः—सजाने विषे, व्यवहारेने विषे, वैरियोने विषे, सासराने ध
र, स्त्रीयाने विषे अने राजकुलने विषे आंवर पूजाय ठे. ॥१॥ अथ चह्दीने मित्रयुत
मुख संगे, आन्यो अतिही उमंगे हो ॥सु०॥ प्रार्थने साहमो जइ मिलीयो, विनय वि
वेके करी प्रलीयो हो ॥सु०॥११॥ कुशलागम पूठी स्नेह जगायो, प्रार्थने मन जायो

* पावलथी अचल, द्यकरे वांच्यो.

हो ॥ सु० ॥ वस्तु क्रयणक सवि साटवी लीधां, सत्कर्त्तार तस दीधां हो ॥ सु० ॥ १॥
 कार्य करी चिच आणंद पावे, धनो बेठो वडदावे हो ॥ सु० ॥ एहवे महेश्वरदत्त सार्थप
 पाले, आवे अधिक बध्दासे हो ॥ सु० ॥ ३॥ कुशलालाप पूढे हित आणी, सुख कहे म
 धुरी वांगी हो ॥ सु० ॥ क्रय विक्रयतणी बात जणावे, सार्थप तव समजावे हो ॥ सु० ॥
 ॥ ४॥ धनसारेऱ्यने पुत्रे अमारो, ग्रहो ए सर्वे सुत्रिचारो हो ॥ सु० ॥ देवो लेवो हवे ए
 हनी साधे, एह धनदाता अमारो हो ॥ सु० ॥ ५॥ महेश्वरदत्त कहे वांक अमारो, दोष न
 कोई तुमारो हो ॥ सु० ॥ आज्ञस कीधो तस फल लीधो, चिंतित दाज न लीधो हो ॥
 ॥ सु० ॥ ६॥ यतः ॥ आज्ञस्यं हि मनुष्याणां, शरीरस्थो महान्ऱिपुः ॥ नास्त्युद्यम समो ब
 धुः; कृत्वायं नावसीदति ॥ १॥ जावार्थः आज्ञस ए माणसोना शरीरसां रहेलो महोदो
 वैरी ठे, बद्धमना जेवो कोइ झाई नथी, जे करवाधी माणसोना नाश थतो नथी ॥ १॥
 आज्ञस सम कोइ वैरी न दाख्यो, नीतिमें एहवो जांख्यो हो ॥ सु० ॥ पिय हवे लाज ध
 ज्ञाने दिवारो, काज अमारो सुधारो हो ॥ सु० ॥ १॥ १॥ सार्थप महेश्वर बिहु मिवी जांखे,
 धनाशुं हित राखे हो ॥ सु० ॥ ए सवि किरियाणां अमने दीजे, लक्ष लाज धन लीजे हो
 ॥ सु० ॥ १॥ धनपति चिंते मुज कारज लीधो, में मनमान्यो कीधो हो ॥ सु० ॥ कय एक

त्रिचारीने इम बोले, नदी को मित्रजी तुम तोले हो ॥सु०॥१०॥ जो तुमने ठे खप ए पाय करो, तो राखो सरवे जलेरो हो ॥सु०॥ इम कही धन लक लेई जलावे, अन्यो अ न्ये समजावे हो ॥सु०॥१०॥ धन्नकुमार तिहांश्री जले जावे, मित्रयुत धन लेई आवे हो ॥सु०॥ मात पिता मन बहु सुख पावे, 'भ्रातृजाया ते गुण गावे हो ॥सु०॥११॥ सहस्र व्य यत्री ज्ञव्य भोजन देवो, यश बहुलो इहां लेवो हो ॥सु०॥ ढाल वही इम मन शिर राखी, बुध जिनत्रिजये दाखी हो ॥सु०॥१२॥

॥ दोहा. ॥ इवे कहे धन्नो तातने, ए एक लक दिनार ॥ न्यायाजित आया अवे, करी वाणिज्य सफार ॥१॥ तेह जणी सवि सयणने, संतोखो गुणगेह ॥ सहस एक सु चर्णनो, व्यय करवो धरि नेह ॥२॥ ताते तव आया तुरत, जांति जांति पकवान ॥ मे वा मीगाई घणी, बदन वधारण वान ॥३॥ शालि दालि घृत अति सरस, व्यंजननो न ही पार ॥ अठार जातथी अति घणी, करी रसोई त्यार ॥४॥ पोपी सयण कुटुंब सवि, दीधां फोफल पान ॥ याचक जन संतोप्रिया, यथायोग्य देइ दान ॥५॥ शेष नवानुं स हसनां, मणिमय जूपल सार ॥ भोजाईने जक्तिथी, आपे धन्नकुमार ॥६॥ भोजाई हर पित धई, आपे अति आशीप ॥ देवरजी अम कुल तिलक, जीवो कोडी वरीप ॥७॥

॥ ढालं ७ मी. ॥ (करेलशां घड दे रे. ए देशी.)

हवे ते धन्नकुमारने, तेडी कहे धनसार ॥ कुल मंरुण तुं माहरे, तुं मुज कुल शारा
गार ॥ चतुर जन सांजलो रे ॥ सांजलो पुण्यनी वात, चतुर जन सांजलो रे ॥१॥ ए आं
कशी ॥ अंगज तुज जनम्या पबी, अम कुल वाध्ये वान ॥ रुद्धि वृद्धि अइ अम घरे,
जग जश थयो सुप्रमाण ॥चण॥१॥ माता शीलवती तदा, हरषित वदन विख्यात ॥ सु
तनां विये ऊवारणां, तुं मुज सुजग सुजात ॥चण॥३॥ भोजाई मली मांतिशुं, रंगे गा
ये गीत ॥ लाड लडावे अति घणां, देवरने सुप्रतीत ॥चण॥४॥ सयण संबंधी सहु मिला,
करे वखाण विशेष ॥ धन्नकुमार सरिखो नही, पुण्य प्रबल सुविशेष ॥चण॥५॥ तव त्रिण्ये
बांधव तिहां, रोष धरे मनमांहि ॥ अणख अदेखाई करे, अवगुण ग्राहक मांहि ॥ चण
॥६॥ ते देखी धनसारजी, तेडावीने तेह ॥ अंगज त्रिण्येने तदा, समजावे ससनेह ॥
॥चण॥७॥ लघु बंधव ए तुम तणो, भाग्य बले ऋरपूर ॥ विनय विवेक विद्या नीलो, अ
म कुल अंबर सूर ॥चण॥८॥ एहनी सेवाधी तुमे, सुख लहेशो श्रीकार ॥ कल्पवृक्ष स
म एह ठे, वंजित पूरणहार ॥चण॥९॥ देखो इशे एक याममें, अर्ज्या लक्ष दीनार ॥

† भोजाइयो.

मौजन विधि ज्ञानी साचवी, संतोण्यो परिवार ॥चणार०॥ चनी मोजाईने ज्ञां, दूप
ण विविध प्रकार ॥ मणिमय मन गमतां घणां, कीधां धनकुमार ॥चणार०॥ एहमां गु
ण ते अति घणा, जोवो हृदय विचार ॥ महर मूकी मन तणो, सेवो सुपरे सार ॥चण
॥११॥ महर बखो मनमें थणो, कौरवे पांनव साध ॥ तो ते दुःखीया अति थया, ना
ख्या सयली आय ॥चणार०॥ व्रतमाहि महर बखो, पीठ अने महापीठ ॥ तो खीविद बखो
ईहां, बाह्मी सुंदरी दीठ ॥चणार०॥ एहवा उपनय अति घणा, दाख्या दाख मजार ॥
जिन कहे सातमी दाळभां, समजावे धनसार ॥चणार०॥

॥ बोद्धा. ॥ गुण लीजे गिरुआ तणा, नवि दाखीजे दोष ॥ जाति हीन पण गुण
थकी, पासे सुखनो पोष ॥१॥ जाति रूप हीसो इतो, हरिकेशी चंमाल ॥ तेहने तपना
गुण थकी, सेवे सुर झूपाज ॥१॥ गुण देवी ते अपूज्य ठे, गुणवंतो पूजाय ॥ उपनय इ
हां सहु को कहे, वायस कोयल न्याय ॥३॥ यतः॥ अनुष्टुब्रुचम्. ॥ काकः कृष्णः पिका
कृष्णा, को जेदोपिक काकयोः ॥ वसंतमास संप्राप्ते, काकः काकः पिकापिका ॥ ? ॥
भावार्थः—कागडो अने कोयल, एवे कालां होय ठे, त्यारे कागडो अने कोयल एवेमां जो
फेर ? ते वसंतमास आवेवते कागडो ते कागडोज रहे व अने कोयल ते कोयलज रहे ठे. ॥

॥ ढाल ँ मी. ॥ (माननी मोहनी रे. अथवा महानो नाहलो रे. ए देशी.)

शेठ कहे सुत सांजेलो रे, मनोहर माहरी वात ॥ धन धन साधुजी रे ॥ शास्त्रश्र
की में संग्रहो रे, अनोपम ए अवदात ॥ धन धन साधुजी रे ॥१॥ ए आंकणी. ॥ मुनि
वर एक महाबली रे, तपसीमें शिरदार ॥धण॥ पंच महाव्रत जालवे रे, साचवे पंचाचा
र ॥धण॥१॥ बकायनी जयणा करे रे, पाले प्रवचन माय ॥धण॥ मद आठे अलग धरे रे,
टाले चार कषाय ॥धण॥३॥ मासखमणने पारणे रे, त्रिकरण शुद्ध अदीन ॥धण॥ गौच
रिये पहेत्यो तिहां रे, संयमथी लयलीना॥धण॥४॥ इर्यासमितिये चालतो रे, कोइक नगर
मजार ॥धण॥ करतो शुद्ध गवेषणा रे, ते गयो इन्ध आगार॥धण॥५॥ आव्यो देखी साधुजी
रे, श्राविका थइ उजमाल ॥धण॥ पक्कानादिक लूजूआ रे, लावी नरी नरी आल ॥धण॥
॥६॥ स्वामीजी अनुग्रह करो रे, वहरो एहज आहार ॥धण॥ देखी सदोष ते साधुजी रे,
करे अन्यत्र विहार ॥धण॥७॥ श्राविका चिच विलखी थई रे, बेठी घरने बार ॥धण॥ एह
वे फिरतो गौचरी रे, आव्यो अवर अणगार ॥धण॥ सरलपणे विचरे सदा रे, गुणआ
हक गुण लीन ॥ अवगुण एक जोवे नही रे, सुविहितशु लयलीन ॥धण॥९॥ धर्मलात्र
देई करी रे, कन्नो घरने बार ॥धण॥ विकसित वदने श्राविका रे, वहरोवे ते आहार ॥धण

॥१०॥ बांही ने करजोड़िने रे, पूंटे मथुरी बात ॥ध०॥ तुमने अभीति न ऊपजं रे, तो जां
 खं अचदात ॥ध०॥१॥ तुम सरिखो एक साधुजी रे, आब्यो हतो इले ठाल ॥ध०॥ धिण
 वंकोरे विचख्यो सही रे, नवि बोड्यो भुखवाण ॥ध०॥२॥ तेहनो कारण साधुजी रे,
 दाखो करीय पसाय ॥ध०॥ तव बोड्यो मुनिवर तिहां रे, सुण भेइ सुखदाय ॥ध०॥३॥
 ते मुनिवर मनेदो यती रे, सम दम गुण संयुक्त ॥ध०॥ व्रतधारक वारू परे रे, पंचेंद्रिय
 श्री गुप्त ॥ध०॥४॥ दोय वेतालीश साचवे रे, एयशाना मन शुद्ध ॥ध०॥ मंसलिक दोप
 ते पांचने रे, टाले ते अविरूढ ॥ध०॥५॥ तिले मुनिवरे ए पिंनमां रे, दोय दीगे दंडो
 कोय ॥ध०॥ तिले कारणे लीवो नही रे, सुबिहित लक्षण जोय ॥ध०॥६॥ यतः ॥ आ
 र्योवृत्तम् ॥ ससरीरेवि निरीहा, वाहिप्रंतर परिगद् विमुक्ता ॥ धर्मोवगरणमिने, वं
 ति चारिचरकण ॥१॥ प्रावार्थः—पोताना शरीरने विवे इहा विनाना, बाह्य अने अ
 ज्यंतर परिअद्दथी मूकाएला तथा चारित्रने रक्षण करवाना अर्थि एवा मुनियो, मात्र ध
 मोंपकरणेज राखे ठे. अर्थात् बीजुं कांई पण पाले राखता नथी ॥१॥ ते मुनि सुरम
 णि सारिखा रे, हूं हूं लोपु समान ॥ध०॥ हूं वायस ते दंस ठे रे, मुनि गुण रयण निया
 न ॥ध०॥२॥ हूं शृंगालं ते गज समो रे, हूं मृग मृगपति तेहं ॥ध०॥ उदरवृत्ति कारक

अमे रे, ते समता गुणगेह ॥धण॥१०॥ इम स्तवना करी साधुजी रे, विचरे महियल
मांह ॥धण॥ जिन कहे आठमी ढालमां रे, श्रोता सुणो उच्चाह ॥ धण ॥११॥

॥ दोहा. ॥ सांभलीने ते श्राविका, हरखी चिच मजार ॥ प्रमुदितपणे आखे इ
हुं, धन धन ए अणगार ॥१॥ निंदा नही एहमें निकट, गुणग्राहक गंभीर ॥ शांत दांत
शुचि आतमा, तारण तरण सधीर ॥२॥ कृपावंत कोविद प्रथम, आत्मशुद्धि अविकार ॥
सुविहित साधु शिरोमणी, रत्नत्रयी अंभार ॥३॥ सासखमणने पारणे, पिण नवि लीये
सदोष ॥ कायानी समता नही, करे पुण्यनो पोष ॥४॥ तिम बीजो पण साधुजी, गुण
ग्राहक विख्यात ॥ आप निंदा पर स्तुति करे, धन धन एहनी मात ॥५॥

॥ ढाल ए मी. ॥ (मन जमरा रे. ए देखी.)

एहवे एक बलि मुनि तिहां, मन हरखे रे ॥ फिरतो आहारने काज ॥ लाल गुण
परखे रे ॥ आव्यो तेहने आंगणे, मण॥ धे धर्मलान्न समाज ॥लाण॥१॥ ए आंकणी ॥
देखीने ते श्राविका, मण॥ बहोरावे अन्न पान ॥लाण॥ पूढे अंजली जोडने, मण॥ विन
यानत शुचि ध्यान ॥लाण॥२॥ अधुना साधु आव्या हता, मण॥ गौचरीये गुणवंत ॥लाण॥
प्रथम देखी पावो बड्यो, मण॥ मुख नवि बोड्यो संत ॥लाण॥३॥ बीजो मुनि आव्यो त

दा, मण॥ बहोखो अत्र आहार ॥ज्ञाण॥ तेहने में पूव्यो तदा, मण॥ पूर्वगत व्यवहार
 ॥ज्ञाण॥४॥ गुण वर्णन तिले मुनितणा, मण॥ कीथा निपट अर्थत ॥लाण॥ ते निरुणी म
 न माहुरे, मण॥ प्रसन्न थयो अति संत ॥ज्ञाण॥५॥ ए वे मुनिवरमें तुमे,मण॥ जांखो क
 रीय पसाय ॥ज्ञाण॥ अधिक गुणे करी कुण हरो, मण॥ ते दाखो सुखदाय ॥ज्ञाण॥६॥ तत्र
 ते इधि बोड्यो तिहां, मण॥ मनमें महर आण ॥ज्ञाण॥ स्व प्रमंशा पर निंदता, मण॥
 करतो बोडे बाण ॥लाण॥७॥ प्रथम ते मुनि जन रंजवा, मण॥ मायाकारक जोर ॥ज्ञाण॥
 दूर्त्तपरे फिरतो फिर. मण॥ न करे सुखथी सोर ॥ज्ञाण॥८॥ शुद्ध अशुद्ध गवेषणा, मण॥
 पर वंचनने हेत ॥ज्ञाण॥९॥ वगजा परे पगजां जरे,मण॥पिण नही धर्म संकेतालाण॥९॥ वीजो
 जे आव्यो हतो,मण॥सायुने बोडो अत्र ॥लाण॥पटु चाटुक वचने करी,मण॥ वश्य करे जन स
 र्वत्र ॥ज्ञाण॥१०॥ायतः॥मायावीया माणसां, केम पतीजण जाया॥मोरपींग मधुरो लवे, साप
 संपूजा खाय ॥१॥ ॥ज्ञाणार्थः—जे माया कपटी माणसो वे, तेनी शी रीते परतीज पडे? केम
 के,पींवाबलो मोर मीहुं बोले वे,परंतु पूंढडा सहित सापने खाइ जाय वे.॥१॥ वंज रहित
 अमे अति जला, मण॥ श्रेष्ठाचारी साध ॥लाण॥ सत्य वाक्य बोळूं सही, मण॥ विचरूं
 तिम निरवाध ॥लाण॥१॥ यशालब्ध बहोरूं सदा, मण॥ परिमित अत्रने पान ॥ज्ञाण॥

अम सरिखा शुद्ध साधुने, मण॥ देजो सदा बहुमान ॥लाण॥१॥ अमे पिए पूर्वे एहवी,
 मण॥ विरची माया जाल ॥लाण॥ जनरंजन कीधा घणा, मण॥ हवे ते सवि विसराल ॥
 लाण॥१॥ इम कही ते मुनि संचख्यो, मण॥ नगरीमें तियताल ॥लाण॥ वचन सुणी ते
 श्राविका, मण॥ पामी दुःख असराल ॥लाण॥१॥ चिंते एह ठे निर्गुणी, मण॥ पासढा
 दिक दुष्ट ॥लाण॥ जे शुद्ध साधु निंदा करे, मण॥ ते कहीए निर्धृष्ट ॥लाण॥१॥ प्रथम
 साधु अति ही ब्रह्मो, मण॥ सुविहितमां शिरदार ॥लाण॥ बीजो पण गुण रागीयो, मण॥
 जग जन तरणहार ॥लाण॥१॥ त्रीजो ए गुण मञ्जरी, मण॥ पापी मांही प्रधान ॥लाण॥
 एहनो मुख अवलोक्ते, मण॥ दुकृत होवे निदान ॥लाण॥१॥ ए दृष्टांत सुणी तुमे, मण॥
 मञ्जर बोडो पुत्र ॥लाण॥ मञ्जर मूक्याथी सदा, मण॥ लहेशो यश सर्वत्र ॥लाण॥१॥ इम
 धनसार अंगज प्रते, मण॥ समजावे अहनीश ॥लाण॥ नवमी ढाले जिन कहे, मण॥
 विनय वहो सुजगीश ॥लाण॥१॥

॥ दोहा. ॥ अथ धनसार तथा तनुज, त्रिण्ये मूढ महंत ॥ पितृदत्त शिक्षा सुणी,
 मनमें द्वेष धरंत ॥१॥ अवसर पामी एकदा, कहे तातने जात ॥ मया करी मुज ऊपर,
 सुणो तातजी वात ॥१॥ धने जे कारज कियो, तेहवो न करे कोय ॥ इण विधि बल क

रते अके, जगमें हांमो होय ॥३॥ कागल बांची कपटत्री, सार्थपने समजाय ॥ गजा वि
ना गोरव यथ्यो, कल्यो लकल जगसाय ॥४॥ दाम काम जब ऊपन्यो, तव तिहां सत्यं
कार ॥ देई करनी सुद्धि, जिम तिम राख्यो कार ॥५॥ एद्वे वखते आग्रियो. उन्य
सहेश्वरदन ॥ लक लाज देई करी, प्रहां कथाणक ऊच ॥६॥ आज पठी हेय एद्वो, नवि
कर्मो व्यवसाय ॥ तेह लाज शा कामनो, जिले करी ईजत जाय ॥७॥

॥ दाल १० मी. ॥ (कपूर होय अति कजलो रे. ए देखी.)

निमुणी सुतनी वीनती रे, तव वोड्यो धनसार ॥ ए शी बात कही तुमे रे, अण
जाणी इणिवार ॥ पुत्र जी, समजो शील सुजाण ॥ तुमे म करो ताणा ताण ॥ पुत्र जी,
तुमे लदेशो उःखनी खाय ॥ पुत्र जी, समजो शील सुजाण ॥१॥ ए आंकणी ॥ दाम
विना पिण कीजीएरे, बुद्धि बले व्यवसाय ॥ यननो इहां कारण नदीं रे, सडु को कही ए
न्याय ॥ पुणासणा२॥ यतः॥ बलत्री बुद्धि आगली, जो उपजे ततकाल ॥ वानर वाय वि
गोड्या, एकलडे शीयाल ॥१॥ व्यापारे धन हारेवे रे, बुद्धि विना धनवंत ॥ बुद्धि सुर नर
वश हूवे रे, बुद्धि यण परंत ॥ पुणासणा३॥ धनकुमरे निज बुद्धिरे, लीया लक दीना
र ॥ तुमने बुद्धि नहीं वीसी रे, जिले करी होय जयकार ॥ पुणासणा४॥ हांश हांय जो

तुम तथे रे, तो फिरी करो व्यवसाय ॥ एकेको दिन आजैशी रे, नोजन नगति कराय
 ॥पुण॥सण॥५॥ इम कही मासा सुवर्णना रे, चारेने स्वयमेव ॥ चोशठ चोशठ आपीया
 रे, व्यापारार्थे हेव ॥पुण॥सण॥६॥ मुख्य तनुज त्रिण्ये तदा रे, पहोल्या ॥पाण्यागर ॥ किरि
 याणां लीधां घणां रे, जाशी लान्न अपार ॥पुण॥सण॥७॥ कर्मवशे ते वस्तुमां रे, लात्रनो
 न रह्यो लाग ॥ अर्थे दाम जूड्यो तदा रे, अति बध्यमथी अन्नाग ॥पुण॥सण॥८॥ नोजन
 विधि नूली गया रे, त्रिण्ये दिवसे तेह ॥ शाम वदनथी ते तदा रे, वेठा आवी गेह ॥पुण॥
 सण॥९॥ अश्र चोथे दिन साहसी रे, धन्नकुमार उदार ॥ शुक्नादिक अवलोकन रे, निश्र
 य करे त्रिशिवार ॥पुण॥सण॥१०॥ लान्न होशे पशुथी जलो रे, धारी इम मन धीर ॥
 नगरमां कौतुक जोवतो रे, पहोत्यो चोहटे सधीर ॥पुण॥सण॥११॥ पशु क्रय थाय ठेजी
 हां रे, तिहां आव्यो निरजीक ॥ वेठो सस्थानक अही रे, चावंतो मुख पीक ॥पुण॥सण॥
 ॥१२॥ तेहवे एक आव्यो तिहां रे, हुंड वेचण नर कोय ॥ लक्षणा पूर्ण देखी करी रे, *ली
 धो धन्ने सोय ॥पुण॥सण॥१३॥ एहवे नृप जितशत्रुनो रे, अरिदमनात्रिघ जात ॥ +मेष
 नगी क्रीडाववा रे, आव्यो ते सुविख्यात ॥पुण॥सण॥१४॥ देखी †ब्रत्र धन्ना तथो रे,

† करियाणा वादानो छकाने. ‡ बोकडो. * पांच मासा सुवर्णआपी घेठो लीयो. + बोकडो. † बोकडो.

चोलावे नृप जात ॥ यु७ कारावीजे ईहां रे, तुम अम ाग सादात ॥ पु०॥स०॥१॥
 जीति जेहनो चोकडो रे, ते पामे वन लक्ष ॥ स्वर साक्षीनि आवख्यो रे, पिए घने परतक्र
 ॥ पु०॥स०॥१६॥ अन्योन्ये मस्तक थकी रे, घेटा युद्ध करंत ॥ हाख्यो अज अरिदम
 ननो रे, धन उरत्र जीपंत ॥ पु०॥स०॥१७॥ देखी पराक्रम अज तणो रे, चिते राजकुमा
 र ॥ ए दूड जो हुवे आपणे रे, तो लक्ष्मीं जश सार ॥ पु०॥स०॥१८॥ लक्ष्मीनार देई क
 हे रे, ते अरिदमन आशंद ॥ ए आपो दूड अम प्रते रे, इन्सित द्युम्ने अमं व ॥ पु०॥स०॥
 ॥१९॥ वनकुमर कहे क्रीडवा रे, दूड राख्यो महाराज ॥ लक्ष्मण्य द्यो अम प्रते रे, जो
 तुम घेटा काज ॥ पु०॥स०॥२०॥ ततक्षण रायकुमर तिहां रे, देई लक्ष्मीनार ॥ अज ले
 ईने चाक्षीयो रे, परित्त निज परिवार ॥ पु०॥स०॥२१॥ लाख् द्योय धन लेईने रे, आव्यो
 वन आगार ॥ मात पिता हरपित हूआ रे, तिम सखलो परिवार ॥ पु०॥स०॥२२॥ भव्य
 भोजन सवि सयणने रे, भक्ति विशेषथी दीव ॥ ढाल दशमी श्रोता सुणो रे, जिन कहे
 पुण्यथी सिद्ध ॥ पु०॥स०॥२३॥

॥ दोहा. ॥ भोजन विधि करी भक्तिथी, शेष इव्य सुप्रकार ॥ भोजाईने आपी
 यो, वंहचीने तिणिवार ॥१६॥ भोजाई लिपे नामणं, दिनमें दो दो वार ॥ जीजीकार स

सदा जपे, स्वार्थ जगमे. ॥१॥ यतः॥ आधा भावो आदर द्विये स्वर्ण रुप्यादि दृष्टु,
पासे कोइ बेसवा न द्विये निर्धनानां ज्ञानां ॥ तुमे अमारे जीवितप्रायः स्वार्थ एको हि
न्नव्य, आप्या विना अमे कोण तुमे कोण स्वार्थहीनान् वदेति ॥१॥ भावार्थः—सोनुं अने
रुं जोइने आप पधारो साहेब ! एवी रीतनो आदर आपे अने निर्धन पुरुषोने कोइ
पासे बेसवा पण न दो. तमे अमारे जीवितप्राण ठो, ए बधामां एक स्वार्थज सारो ठे.
स्वार्थ रहित पुरुषोने एम कहे ठेके, अमे दोण ? अने तमे कोण ? ए रीते सह, स्वार्थनी
सगाइ ठे. ॥१॥ सयण सयल सुख उच्चरे, धनधन धनकुमार ॥ बुद्धिकी लक्ष्मी वरे,
नहि संहेश लिंगार ॥३॥ ते सुणि धनदत्तादि सुत, त्रिण्ये करे विचार ॥ धना आगल आ
पणो, किम चलशे व्यवहार ॥४॥ इम आलोची चित्तमें, वीनवियो धनसार ॥ तात सु
णो इक वीनती, अम मननी इणिवार ॥५॥ युध प्रतिज्ञाये करी, लाव्यो धन बे लक्ष ॥
पिण जो घटो हारतो, तो फल होत प्रत्यक्ष ॥६॥ अविचास्यां एहवां करे, द्यूतादिकनां
काज ॥ तिणे करी जाणां बां हवे, रक्षे नही घर लाज ॥ ७॥ तुमने लोन्न वध्यो घणो,
तिणे ते वध्नन थाय ॥ जो भूख्यो हुवे अति घणो, पिण कर द्य न जिमाय ॥ ८॥ ते माटे
वरजो तुमे, हृदय करी सुविचार ॥ आज पनी हवे एहवो, न करे धनकुमार ॥ ९॥

॥ हवल ११ मी. ॥ (माला क्यां ठेरे. ए देशी.)

कहे धनसार ते विएय तनूजेने, ए तुम वात में जाणी, भाग्यहीनेने काई न सूके,
 भाग्यवले सुहृग्वाणी रे ॥ महर मूको रे ॥ मार्वथी सुखवास, ते मत चूको रे ॥ १ ॥
 ए आंकणी ॥ तुलने ए धनकुमार संगथे, पूरव वेर कोई वीसे ॥ एहनो वचनादिक पिण
 तुमने, न गमे विसवावीसे रे ॥मण॥७॥ यतः ॥ अनुदुवृजम्. ॥ यं दृष्ट्वावदिते क्रोधः, स्ने
 हश्च परिहीयते ॥ सचिञ्जयो मनुष्येण, एष मे पूर्व वैरिकः ॥१॥ भावार्थः—जेने देखीने
 क्रोध वंघ ठ अने स्नेह यंटे ठे, ते उपरथी माणसे एम जाणवुं के, जरूर आ पुरुष महा
 रो पूर्वजचनो धेरी हजे. ॥१॥ धन अर्जीने सयण संतोयां, कारज उत्तम कीधां ॥ मणि
 मय आभूषण मन गमतां, जोजाहिने दीधां रे ॥मण॥३॥ ए निस्पृह निज कुलनो पोत्रक,
 सहुशुं हित बहु राखे ॥ तुम विण सयल सयण ए सुतना, अह निशि गुण सुख चांखे
 रे ॥मण॥४॥ महर मनमें अधिक धरंते, पंकप्रिय दुःख पाम्यो ॥ ते दृष्टांत सुणो एक
 चित्ते, तस् न थयो कोई कामो रे ॥मण॥५॥ नयरी अयोला कोशल देशे, नृप काकुत्स्थ
 सोद्विने ॥ न्यायवंत दाने अति गुरो, राम समान कहावे रे ॥मण॥६॥ ते नगरीमें एक
 प्रजापति, पंकप्रिय इशे नामे ॥ स्त्री पुत्रादिक परिकर परिश्रव, तिणे करी सवि सुख पा

मे रे ॥म०॥७॥ पिण तियमें ठे एक अपलक्ष्य, गुण कोईनो नवि सांसे ॥ ईर्ष्याये करी
 ने सह जंनना, गुण ते अवगुण ज्ञांसे रे ॥म०॥८॥ जो कोईनो गुण अवश्यपयाधी, सां
 जले तो शीर दूखे ॥ पांच मिले जो गुणना रागी, तो तेहशुं अति रूसे रे ॥म०॥९॥ यतः ॥
 पिशुन कषाय न परिहरे, जो कीजे सो लक्ष्म ॥ अंबा गिरिमश्रे वसे, तो हि कषायशि
 गुह्य ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—जो कदिसो सारां काम करीए, तो पण चाडियो माणस कदापि
 कषाय त्याग करे नही, जेम आंबो पर्वत उपर वसे, तो पण तेनी गोटली तो कषायेली
 ने कषायेलीज रहे. ॥१॥ जो वारे कोइ सज्जन थइने, तो निज शिर आस्फाले ॥ वा
 ख्यो केहनो न रहे पापी, क्रोधे तनु परजाले रे ॥म०॥१०॥ यतः ॥ आर्यावृत्तम्. ॥ क्रोधःप
 रितापकरः, सर्वस्योद्वेगकारकः क्रोधः ॥ वैरानुबंधं जनकः, क्रोधेन सुगति हर्ताः ॥ ३ ॥
 ज्ञावार्थः—क्रोध परिताप उपजावनारो, सर्वने उद्वेग करावनारो, वैरनु अनुसंधान करना
 रो अने सुगतिने हरनारो ठे. ॥३॥ तव तसं पुत्र विचारे चित्ते, तातने वन मूकीजे ॥ तो
 सहूना मनमें सुख आवे, गृहकार्यादिक कीजे रे ॥म०॥११॥ इम निश्चय करी तातने ज्ञां
 खे, तुमे हवे वनमां पधारो ॥ इष्टेदेवनुं नाम जपनि, निज अवतार सुधारो रे ॥म०॥

* माथुं कूटे.

१९॥ जन संहृष्टा थकी पंकप्रिये, सुत वचन पिण प्रेख्यो ॥ वनमां कोई सरोवर तीरे,
तृणगृह रच्यो सुजलेग रे ॥मण॥१३॥ अन्नादिक वस्त्रादिक प्रतिदिन, पुत्र पिताने पूरे ॥
तिदां रेहे पंकप्रिय मन हरख, चिंता ठांडी हूरे ॥मण॥१४॥ मद्यःथी जूड पंकप्रिय ए, ए
कासी रच्यो वनमें ॥ ढाल इग्यारमी जिन इम जांखे, मद्यर म धरो मनमें रे ॥मण॥१५॥

॥ दोहा. ॥ एक दिवस काकुस्थ नृप, परिवृत बहु परिवार ॥ आखेटक कार्ये गयो,
वन शब्दने सुविचार ॥ १ ॥ बाण कवाणें साचवी, नीलांवर धरी देह ॥ नृप मृगया कर
तो क्षिरे, पल काजे अति तेह ॥ २ ॥ यतः ॥ आर्यावृत्तम्. ॥ मृग मीन सज्जनानां, तृण
जल संतोष विहित वृत्तिनां ॥ लुब्धक धीवर पिशुना, निष्कारण वैरिणो जगति ॥ १ ॥
जावाअः—मृग तृणवडे, साठलां जलवडे अने सज्जन पुरुषो संतोषवडे पोतानुं गुजरान
चलावे डे. तेम ठतां तेमना अनुक्रमे पारधी, मञ्जी अने चाडीयात विना कारणे जगत्
मां वैरी वे. ॥१॥ उष्णकाल आतप बहुल, नृपति सुकोमल काय ॥ कृपा तृपा अम प्र
मुखधी, आकूल व्याकूल थाय ॥३॥ सरोवर देखी सुजग, आवे जजने अर्थ ॥ एहेवे ते
पंकप्रिये, नृप दीगे सामर्थ्य ॥४॥ जल आणी आगल धख्यो, अमृत सम अजिराम ॥
पामल पुष्पादिक थकी, वासिंत शीतल स्वाम् ॥५॥ प्रोजन पिए जावे करी, दीधो नृ

पने ताम ॥ शीतल बांयाये तिहां, राय करे विश्राम ॥६॥ यतः ॥ सज्जन आव्या प्राड
खा, सागे चार रतन ॥ वांणी पाणी साथरो, संपति सारु अन्न ॥१॥ अल्पप्रक्ति अवसर
तथी, ते पण बहुली आय ॥ विण अवसर जे कीजिए, ते तो नावे दाय ॥७॥

॥ ढाल १९ मी. ॥ (राजि मृगानयणीरी नागरी फूली. ए देशी.)

राजि नृप कहे तुं एकाकी, राजि किम रहे ठे इहां अहिकारी ॥ राजि किम विस
रेजी कहे उपगारी, राजि जेखे कीधी सेवा सारी, राजि नृप कहे तुं एकाकी ॥ ए
आंकणी ॥ राजि एखे वनमें एखे तामे, राजि इहां रहे ठे कहे शे कामे ॥ राजिण ॥ राजि
मृग मृगपति वलि मुनिवरने, राजि वलि विद्यासाधक नरने ॥ राण ॥ राजि पिण गृहवेसे
वनमें रहेवो, राजि एतो अचरिज कारण कहेवो ॥ राण ॥ राजि तव बोख्यो पंकप्रिय
वाणी, राजि सुण भूपति तूं गुणखाणी ॥ राण ॥ राजि हुंतो नगरी अयोधनो वासी, रा
जि कुंनकार कला अन्यासी ॥ राण ॥ राजि स्त्री पुत्रादिक ठे बहुला, राजि माहरे तिहां
ठे कण सबला ॥ राण ॥ राजि कोईना गुणवर्धन में न खमाये, राजि मुजस्त्री मौनन आये
॥ राण ॥ राजि कोई परगुण मुज संजलावे, राजि तो मुज शिर दूखण आवे ॥ राण ॥
राजि गुणवर्धन सुणतां टालूं, राजि नही तो निज शिर आस्फाळूं ॥ राण ॥ राजि एह

अथगुण मुजमें म्हेदो, राजि परगुण न सहू अइ ठोठो ॥राण॥ राजि नित्य कलहो हुने
 बहु साथे, राजि तिणे लाज न रही मुज हाथे ॥राण॥६॥ यतः ॥ अगण्डित्तित्र नासइ वि
 ज्ञा, पिड्डिज्जित्तित्र नासइ पज्जा ॥ कुट्टिज्जित्तित्र नासइ षज्जा, अइवोलंतित्र नासइ लज्जा
 ॥१॥ सावार्थः—फेरुव्या विना विद्या नाश पामे, पीडवा अकी प्रजा नाश पामे, बहु मार
 वाथी चार्या नाश पामे अने घणुं बोलवाथी लज्जा नाश पामे. ॥१॥ राजि तव आलो
 ची निज मनमें, राजि तव वास कीयो ए वनमें ॥राण॥ राजि निज पिंन अणी प्रतिपा
 लूं, राजि मनथी उद्वेगने ठालूं ॥राण॥३॥ राजि सुणी वाक्य ईशां षूयाले, राजि चित्ते
 तव चित्त विचाले ॥राण॥ राजि देखो एह दुःखीयो दीसे, राजि एतो दुःख पामेठे रीसे
 ॥राण॥६॥ राजि पिण एह माहरो उपगारी, राजि मुज सेवा कीथी सारी ॥राण॥ राजि
 अथसर लही जेह न चूके, राजि सज्जनता पिण नवि मूके ॥राण॥९॥ राजि तेदनी जइए
 बलिहारी, राजि तस कीजे सेवा सारी ॥राण॥ राजि कीथा गुणने जे लोपे, राजि तेहने
 परंमेश्वर कोपे ॥राण॥१०॥ राजि एणे अन्न उदक मुज दीथो, राजि एणे जीवित कारज
 कीथो ॥राण॥ राजि बली सुंदर स्थानक आपी, राजि मुज सेवे ठे गुणव्यापी ॥राण॥
 ११॥ राजि हवे एहने सुखीयो कीजे, राजि उपकृति गुण संभारीजे ॥राण॥ राजि उर

ए अइये एखे टाणे, राजि तो यज्ञे जगमें सहु जाशे ॥राणां॥१॥१॥ यतः ॥ आर्यावृत्तम्. ॥
 दो. पुरिसे धरणी घरे, अहवा दोएहिं धारिया धरणी ॥ नवयारे जस्स मई, नवयारं जो
 न उल्लवई ॥१॥ नावार्थः-जगतने विषे बे पुरुषो धरतीने धारण करनारा ठे. अथवा बे
 पुरुषोवडे पृथ्वी धारण करायठे. तेमां एक तो एके, जेनी उपकार करवानी बुद्धिठेते अने
 बीजो जे उपकार उलवे नही ते. एटले करेला उपकारनो बदलो वाले ते. ॥१॥ राजि इम
 चित्त चिंती नृप बोले, राजि पंकप्रियथी निज द्विल खोले ॥राणा॥ राजि तुं साचो बंधव
 महारो, राजि तिए माटे नगर पधारो ॥राणा॥१॥३॥ राजि तुने असन वसन बहु देशूं, रा
 जि वली भगति विशेषे करेशूं ॥राणा॥ राजि रहेवाने *सदन सजोडां, राजि देशूं बहु हा
 श्री घोडा ॥राणा॥१॥४॥ राजि सुह मागी लखमी लेज्यो, राजि मुज पासे बेग रहेज्यो ॥
 राणा॥ राजि तुम पूरव वात जे कहेशे, राजि ते तो तस्कर दंफ लहेशे ॥राणा॥१॥५॥ राजि
 इम कही नृप थयो असवारी, राजि पासे पंकप्रिय कुंभकारी ॥राणा॥ राजि निज न
 गरी नणी जव चाले, राजि तव सेना मिली समकाले ॥राणा॥१॥६॥ राजि मंत्री सामंत
 समेला, राजि आवीने थया सहु जेला ॥राणा॥ राजि इम बारमी ढाल ए न्नाखी, राजि

* घर.

जिन कहे पुण्य सघले साखी ॥ राण॥ १७ ॥

॥ दोहा. ॥ चालते वनमें नृपे, दीठी कन्या एक ॥ वृक्रे बोरा बीणती, कुजपरे
थई ठेक ॥१॥ मृगनयणी चंजननी, चंपकवरणी देह ॥ देखी नृप चित चितवे, गूं रति
रंभा एह ॥२॥ के वलवा मुजने इहां, आवी ठे वनदेव ॥ के इंवाणी अपहरा, रमवा का
रण देव ॥३॥ रूपवंत रलियामणी, शामामें शिरदार ॥ पूठे एहने प्रेमशुं, नाम वाम सु
प्रकार ॥४॥ इम चिंती पूठे नृपति, ते वाला प्रते ताम ॥ रे जइ मुजने कइो, नाति
नाम तिम वाम. ॥५॥

॥ डाल १३ मी. ॥ (योगिणी मनमानी. ए देशी.)

तव बोली वाला सुकुमाला, करी लाज धुंघट सुविशालारे ॥ कामिनी मन मानी ॥
अहो भूनाथ सुलो मुज वाली, हुं रे कहुं मुज करम कहाणी रे ॥ कामिनी मन मानी ॥
॥१॥ ए आंकणी ॥ अंगदेश चंपानो वासी, मुज तात हुतो सुखवासी रे ॥ काण॥ निर्या
मिक विद्या अर्यासी, तस तनया हुं तुं तुम दासी रे ॥ काण॥१॥ नाम खस्का मुज ताते
दीधो, मुज यतन घणो तेरे कीधो रे ॥ काण॥ तातजी मुजने देई संगे, चाड्या जलघट
वाटे रंगे रे ॥ काण॥३॥ दैवप्रयोगे प्रवहण ज्ञांग्यो, एक फलंग हाथे तव लाग्यो रे ॥ काण॥

तिणें तरती तरती उपकठे, आवी हूं समुंईने कठे रे ॥काण॥ ४॥ ईश वनमें रही काल
 गमावुं, वननां फल फूलने खावूं रे ॥काण॥ आत तात सवि रखा परदेशे, हूं एकाकी ए
 णे वेशे रे ॥काण॥ ५॥ राय सुणी मन प्रमुदित आवे, तव मंत्रीनि समजावे रे ॥काण॥ ६॥ ए
 कन्धानां यतन करेज्यो, जेई वाहनी मांही घरेज्यो रे ॥काण॥ ६॥ राजा कुशले नगरे
 आव्या, घणां जीत निशान बजाव्या रे ॥काण॥ रूप अधिक खरकानो जाणी, तस राये
 करी पटराणी रे ॥काण॥ ७॥ हित धरी नाम लीलावती आप्यो, वलि आमंंबर बहु आ
 प्यो रे ॥काण॥ कामजोग तिणसेंती विलसे, राय अहनिशि मनशुं हरषे रे ॥काण॥ ८॥
 पंकप्रियने पिण सनमान्यो, कीधो गुण ते सवि जाण्यो रे ॥काण॥ असन विसन आवा
 स अनेरा, दीधा तस अतिहि जलेरा रे ॥काण॥ ९॥ गाममें पडह वजाव्यो जाणी, सह
 सांजलज्यो सुप्रमाणी रे ॥काण॥ पंकप्रिय खरका वात जे कदेशे, ते तस्करनो फल लहे
 शे रे ॥काण॥ १०॥ सुख विलसंतां दिवस गमावे, पुनरपि वली ते शतु आवे रे ॥काण॥ रा
 जा रयवाडीए जावे, राणीयुत अति वडदावे रे ॥काण॥ ११॥ सांघे पंकप्रिय पिण आवे,
 तव राणीनि राय बोलावे रे ॥काण॥ *बदरी वृक्ष देखीने पूले, एहनो नामने गुण कहे

* बोरही.

इयो दे रे ॥का०॥१॥ राखी कहे तव वृक्ष ए केहनां, हूं नाम न जाणुं एहनां रे ॥का०॥
 एहनां फल रह्यो प्रिय कुण खावे, मुज मनमें अचरिज आवे रे ॥का०॥१॥ निसुखी तटक
 नही पंकप्रियनें, रहे ईम शं कहे ठे एहने रे ॥का०॥ मुजश्री पिल बोड्यूं न रहेवाये, ए
 ह वचन ते किम सदेवाये रे ॥का०॥१॥ ईम कही निज मस्तक आरुफाले, ग्रही द्विप
 द शकी ततकाले रे ॥का०॥ पाकृत ठंढे वीयक जाले, मन शंक किशी नवि राखे रे ॥
 का०॥१॥ यतः॥ काले वीरां वीणती, आज न जाणे खरक ॥ पुनरपि अटवी करीश
 घर, पिलन सहू ए अणरक ॥१॥ नृप अवदात सुखी मन कोप्यो, ईणे वचन अमारो लो
 प्यो रे ॥का०॥ में लीलावती नाम आरोप्यो, एणे खरका नाम न लोप्यो रे ॥का०॥१॥
 मनथी लाज बले नही जेहने, शं कीजे कह्यो हवे तेहने रे ॥का०॥ पुनरपि +कांतरे लेई
 मूक्यो, ते सयला सुखथी चूक्यो रे ॥का०॥१॥ पूर्वपरे तृण गृह करी वेगो, पिल चिंता
 सागरमां पैगो रे ॥का०॥ व्याघ्र आवी जव शब्द सुणावे, तव पंकप्रिय दुःख पावे रे ॥
 का०॥१॥ मरण जये तेणे *गर्ता कीधी, लघु सुखथी सुपरे सीधी रे ॥का०॥ संव्या स
 मये तेहमां पैसें; अंग संकुचित करी वेसे रे ॥का०॥१॥ खाड थकी बाहिर जव आवे,

तव मरणं सम्मय तस्य शंभवे ॥ काण ॥ गाथा बे लिखे ते बिहु पाले, पुत्र आवी वांचे ते
 उदासे रे ॥ काण ॥ गाथा यथा ॥ आर्यावृत्तम् ॥ वग्ध ज्ञयेण पवित्रो, दुहाहन्त निगमं
 मि असम्भो ॥ अट्टवसदो वसन्त, पुत्र य पत्तो अहं निहणं ॥ १ ॥ ज्ञावाश्रः—ज्ञाघना ज्ञय
 श्री खाडमां पेटेलो, कुधाये पीडाएलो, खाडमांथी बहार नीकलवाने असमर्थ अने आ
 हट दोहट चित्तवालो एवो हुं मरण पासु दुं ॥ १ ॥ इह लोगंमि डुरंतं, परलोग विवाहगे
 डुहविवागे ॥ वह वयरोणं पावे, वज्जिजा पुत्र असखं ॥ १ ॥ ज्ञावाश्रः—वग्ध रूप वचनश्री
 जीव आ लोक अने परलोकने विषे डुःखना विपाकने पासं. ते कारण माटे हे पुत्र ! त
 मे अदेखाइनो त्याग करजो. ॥ १ ॥ ते गाथानो अरथ विचारी, श्या धर्मतया अधिकारी
 रे ॥ काण ॥ अणख अदेखाई दूर निवारी, ज्येदेखा अनोपम धारी रे ॥ काण ॥ १ ॥ पंकप्रिय
 परे तुम डुःख लहशो, जो महर मनमां वहशो रे ॥ काण ॥ कहे धनसार सुणो सुत सा
 चो, ए वातमें कांई न काचो रे ॥ काण ॥ १ ॥ तेहजणी मन महर वारी, धरो प्रीति घ
 न्नाथी सारी रे ॥ काण ॥ तेरमी ढाल कही सुविचारी, जिनविजये अति जयकारी रे ॥ काण ॥ १ ॥

॥ दोहा. ॥ तव बोड्या त्रिणये तनुज, साच कही तुमे वात ॥ अणख अदेखाई
 तणां, फल विरुआं सहि तात ॥ १ ॥ अमे कहुं दुं हित वचनश्री, द्यूत व्यसन डुःखदाय

॥ इष्टलोकके ईजत घटे, परभ्रतव पिण न खटाय ॥१॥ होड न कीजे होशथी, दोड अकी घन द्वाण ॥ नदराजा होडे करी, पाम्बो दुःखनी खाण ॥३॥ पांढ्य पांचे वन यश्या, होडे हारी राज्य ॥ सात व्यसन मांही प्रथम, एहिज कार्य अकार्य ॥४॥ यतः ॥ उप जातिवृत्तम्. ॥ द्यूतं ? च मांसं २ च सूरा ३ च वेश्या ४, पापडिं ५ चोरी ६ परवार सेवा ७ ॥ एतानि सप्त व्यसनानि लोके, घोरतिघोरं नरकं नयन्ति ॥१॥ ज्ञावार्थः—जू वडुं, मांस, मदिरा, वेश्यागमन, आडेडीकर्म, चोरी अने परस्त्रीगमन, आ सात व्यस नो प्रतिघोर नरकने विषे लेई जाय ठे. ॥१॥ जे माटे ए होडथी, लाब्यो घन वे लक ॥ अमने ते कारण थकी, घेप वधे परतक ॥ ५ ॥ तात कहे तमे द्यूतनी, वात कही हित काजा ॥ पिण बुधे करि लीजिए, वंछित सिद्धि समाज ॥६॥ जाग्यवले बुधे करी, चिंतित कार्य करंत ॥ जाग्यहीन उद्यम करे, ते सवि निष्फल जंत ॥७॥

॥ ढाल १४ मी. ॥ (ते तरिया जाई, ते तरिया जाई. ए देशी)

कहे घनसार सुणो रे पूता, तुमे कां एम विगूता रे ॥ कुमति रूप कादवमां खूत्या,
वोलां ठो जेम कूता रे ॥ कहे घनसार सुणो रे पूता ॥१॥ ए आंकणी ॥ जाग्यहीन तुमे
परतख दीसि, गुं कहीए करि रीसि रे ॥ मूल उब्य संजारी खीसे, पठे जांखो सुजगीसि

रे ॥ कहैण॥ १ ॥ होश तुमारे ठे हजी दिलमें, व्यवसाये धन वरवा रे ॥ इम कही
 †शत शत मासा आपे, व्यापारादिक करवा रे ॥कहेण॥३॥ तव त्रिणये ते मासा लेई, दो
 शीवटमां आवे रे ॥ वस्त्र अनोपम त्रणये शतनां, लेई ग्रंथी बंधावे रे ॥कहेण॥४॥ चौटे
 आवी चित्त विमासी, एक गयो जल पीवा रे ॥ एक तिहां क्रीडाविधि निरखे, एक अ
 शुचीने करवा रे ॥यहेण॥५॥ एहवे तस्कर अवसर जाणी, ग्रंथी लेई नागो रे ॥ बल अ
 की तेणे त्रिणये धूत्या, हृदय करीने कागो रे ॥कहेण॥६॥ त्रिणये मिली ते वस्तुने जावे,
 खूणे कृन्ना रोवे रे ॥ अन्योन्ये अत्यंत विगोवे, लाज पोतानी खोवे रे ॥कहेण॥ ७ ॥ का
 जल सम निज वदन करीने, गृहमें आवी बेसे रे ॥ तात वात जाणी मन चित्ते, शुं
 होवे निष्फल होशे रे ॥कण॥५॥ चोथे दिन धन्नकुमर विचारे, चतुर शुकन स्वर धारे रे ॥
 काष्ठपीठ चौटे मलयंतो, व्यवसायार्थे पधारे रे ॥कण॥६॥ एहवे ते नगरं व्यवहारी, धनप
 ति नामे कहावे रे ॥ बाशठ कोडि दिनार तशो पति, कृपणमें मुख्य सोहावे रे ॥कण
 ॥१॥ फाळ्यां त्रूळ्यां वस्त्र पूराणां, परनां लेई नुठे रे ॥ तुह्य अन्न *माषादिक खावे, †ऊ
 खरणे नित पोढे रे ॥कण॥१॥ कहे घृत वामे तैलादिक जीमे, मुनिपरे स्नाननो त्यागी

† सो सो मासा सुवर्ण. * अहदादिक. † कांई पाथस्या विना सूई रहे.

रे ॥ तांबूल ठामे कसेलो लेवे, परगृह प्रोजन रागी रे ॥ कण ॥ ११ ॥ देवतणो वरीन न
 नि वांठे, देव ड्यने चाहे रे ॥ गुरुने गृहमें पेसण नापे, गुरुनुं लेण उमाहे रो ॥ कण ॥ १३ ॥
 त्रिकाचर देखीने आपे, वार देई समकाले रे ॥ वली विशेषे गलहथ देई, संतोपे तस
 गाले रे ॥ कण ॥ १४ ॥ कांडी व्यय करे कोईक काजे, तो विप्रमज्वर आवे रे ॥ दान देतां
 देखे जो ततकण, मस्तक पीडा थावे रे ॥ कण ॥ १५ ॥ देवानी तो वात न जाणे, लेवा
 वेदा शूरो रे ॥ निंवा करवा तत्पर थाये, पाप थकी ते पुरो रे ॥ कहेण ॥ १६ ॥ यतः ॥
 ॥ माझिनीवृत्तम् ॥ कण कण जिम मेले कीटिका धान्य केरो, मधुकरी मधु संचे प्रो
 गवे को अनेरो ॥ तिम धन कृपिकेरो नोपकारे दिवाये, इम हि विजय जाये अन्यथा अ
 न्य खाये ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—जुठ ! कीडियो दाणो जेगो करीने धान्यनो संग्रह करे
 ठे, माखीत दीपे करी मधनो संचय करे ठे. परंतु ते धान्यने अने मयने जेम बी
 जो कोई प्रोगवे ठे, तेम कृपणनुं धन पण उपकारने विपे न अपातां, एमने एम जंठुं
 रहे ठे अथवा बीजो कोई खाई जाय ठे. ॥ १ ॥ पाणिगृहणादिक कोई कामे, उत्तम प्रो
 जन खावे रे ॥ लंघन न करे ते बीजे दिवसे, अतिसार तस थावे रे ॥ कहेण ॥ १७ ॥ पुत्रने

पिस। एक पैशो नापे, कण कणथी धन मेले रे ॥ सयण कुटुंब मिली सवि तेहने,
 *मातंग मांहे जेले रे ॥कहेण॥१७॥ मरणतणो जय मनसां न गणो, न गणे सुजस सवा
 ई रे ॥ चौदमी ढाले जिन इम नांखे, कृपणनी कुटिल कमाई रे ॥कहेण॥१८॥

॥ दोहा. ॥ चित्तमें चिते कृपण ते, लोभवशे घरी गर्वा ॥ बल करी माहरा पुत्र ए,
 रखे लीए धन सर्व ॥१॥ इम आलोचिनि नुरत, लीधां रत्न बदार ॥ बाशठ कोडि दिना
 रना, स्वल्पपशाथी सार ॥२॥ मंचक जूडी करायने, कोरी घाल्यां तुरत ॥ सयनासन
 ते छपरे, कृपण करे दिन रात ॥३॥ इम करते तस एकडा, आव्यो अंगे रोग ॥ धन व्य
 यथी वीहतो अको, न करे औषध योग ॥४॥ मरण समय निज पुत्रने, तेडी करे अर
 दास ॥ में धन कोडिगमे विपुल, विलश्या जोग विलास ॥५॥ ते जणी ए पर्येकने, स
 तीय परे सुज साथ ॥ प्रेतवने संस्कारज्यो, शेष सकल तुम आथ ॥६॥ इम कहतो ते
 मूढमति, पर्येके तिशिवार ॥ विलगी मूर्खंगित अयो, पहोत्यो जम आगार ॥७॥ बोडा
 यो वूटे नही, मृतक खाटथी जाम ॥ तव तेहनी स्त्री तनुजने, कहे निसुणो गुणधाम
 ॥ ८ ॥ खाट सहित एहने तुमे, करो अग्नि संस्कार ॥ सुणी कृपण सुत तेहने, लेई चा

* चंमाल. १ स्मशान भूमिमां. २ बाकी रहे ते तमे लेज्यो.

द्वयां त्रिणिघार ॥ ए ॥ प्रेतवने जव ते गया, तव तेहनो रखवाल ॥ कलह करी पर्यंकने,
 लेई चाढ्यो चंफाल ॥ १० ॥

॥ हाल १५ मी. ॥ (गोरडी गुणवंती. ए देशी.)

हवे पर्यंक ते लेइने रे सुरीजन, चौटा विचे चंफाल ॥ पूरव पुण्य फलियो ॥ वे
 चणने वेगो तिहां रे सुरीजन, जेवे वाल गोपाल ॥ पूरव पुण्य फलियो ॥ १ ॥ ए आंक
 णी ॥ साटवे पिण लेवे नहि रे सु०, मृतकतणो तेइ जाण ॥ पू० ॥ दीवो घने दूरग्री रे
 सु०, सुंदर खाट सूत्राण ॥ पू० ॥ १ ॥ स्वर सावीने मूलव्यो रे सु०, लीवो देई * दाम ॥ पू० ॥
 नपडावी घेर आणीयो रे सु०, पर्यंक घने जाम ॥ पू० ॥ ३ ॥ अग्रज तव त्रिण्ये तिहां रे सु०,
 हसवा लाग्या तास ॥ पू० ॥ मृतक खाटधी पामशे रे सु०, दाम प्रमुख सुबिलास ॥ पू०
 ॥ ४ ॥ खाट अही गृहमे यदा रे सु०, ठक्कावे धनसार ॥ पू० ॥ ततक्षण ईसने ऊपलां रे
 सु०, जूज्यां अयां सुप्रकार ॥ पू० ॥ ५ ॥ रतन अमूलिक नीसखां रे सु०, खाटअकी त्रिणि
 वार ॥ पू० ॥ ठाशठ कोडी दिनारनां रे सु०, हरख्या तव धनसार ॥ पू० ॥ ६ ॥ सुतने केहे सु
 खो एहना रे सु०, भाग्यतणो वल झूर ॥ पू० ॥ पग पग पामे संपदा रे सु०, पुण्यतणे अं

* सान मासा मुचर्ण आपी.

कूर ॥पू॥७॥ यतः ॥ अनुष्टुप्वृत्तम् ॥ पदे पदे निधानानि, योजने रसकुंपिका ॥ ज्ञाय
 हीना न पश्यंति, बहून्ना वसुंधरा ॥१॥ ज्ञावार्थः—पगले प्रगले निधान एतले धनता ज्ञ
 नारोने अने योजने रसकुंपिका प्रत्ये, ज्ञायहीन पुरुषो नथी जोई शकता, परंतु
 पृथ्वी तो बहु रत्नवाली ठे ॥१॥ एह अकी अह निशि तुमे रे सु०, शूं राखो वो रोश ॥
 पू॥ राजाथी महर धरे रे सु०, रांकेने पीडतो सोश ॥पू॥७॥ नांखी पिय लागे नही रे
 सु०, खूरज साहमी खेह ॥पू॥ स्वान अमर्ष अकी जसे रे सु०, पिय गज सस किम
 तेह ॥पू॥७॥ मृग मृगपति तुलना करे रे सु०, गुंजा कनकथी जेम ॥पू॥ उत्पल खंन
 मणिरत्नथी रे सु०, दुर्जन सज्जन तेम ॥पू॥१०॥ नवअख ताराथी नही रे सु०, तेज प्र
 काश पमूर ॥पू॥ करे नद्योत अवनी तले रे सु०, अंबर ऊग्यो खूर ॥पू॥११॥ अवगु
 णेने आदर नही रे सु०, गुणवंतो पूजाय ॥पू॥ गुणवंता पंकज प्रते रे सु०, मस्तकै रा
 खे राय ॥पू॥१२॥ साहसिक गुणे एकलो रे सु०, रखवाले वन सिंह ॥पू॥ शेषनाग
 पिय सत्वथी रे सु०, धारे धरा निरबीह ॥पू॥१३॥ महरथी दुःख पामीए रे सु०, म
 हर कलह जंनार ॥पू॥ महर नरकनुं वारसूं रे सु०, महरे नही भवपार ॥पू॥१४॥
 रुचचार्य तणी परे रे सु०, महरथी दुःख दंद ॥पू॥ ढाल पंदरमी ए अई रे सु०, जिन

कहे वचन अमंद ॥ पू० ॥ १५ ॥

॥ बोहा. ॥ पंचाचार विचारधर, परिवृत बहु परिवार ॥ क्रिया कुशल विद्या बहू
ल, रुद्राचार्य गुणधार ॥१॥ चार साधु ते गहमं, सुविवेकी सुविख्यात ॥ वानादिक जिन
धर्ममें, शोभनीक साक्षात ॥२॥ वंदुदत्त मुनिवर प्रथम, ज्ञानतणो प्रभार ॥ पटदर्शन
ना शास्त्रनो, जाणो सकल विचार ॥३॥ वादलब्धिप्री विविध परे, जीत्या ताक्षिक जो
र ॥ जितकाशी जिनशासने, विरुद वहे कवि मोर ॥४॥ प्रभाकराख्य बीजो भ्रूलो, त
पतीमें शिरदार ॥ मासखमणने पारणे, अविच्छिन्न व्यवहार ॥५॥ कनकावली रत्नावली,
वज्रावली विचित्र ॥ सिंहनीक्रीडित तप प्रमुख, आराधे सुपवित्र ॥६॥ त्रीजो सोमिल
नाम मुनि, निमित्तशास्त्रनो जाण ॥ कालत्रय वेत्ता निपुण, श्रुतज्ञानी सुप्रमाण ॥ ७॥
कालिक नामे मुनिवरू, क्रियापात्र शुचि गात्र ॥ चोथो चिहुं गति टालवा, पाले प्रवचन
मात ॥८॥ चारे साधु शिरोमणी, रत्नत्रय प्रभार ॥ पंचाश्रव दूरे करे, निर्मम निरहंका
र ॥ ९॥ गुण देखीने जन सकल, करे सेवा सत्कार ॥ मान दान मुनिवर प्रते, साथे
विविध प्रकार ॥ १०॥

॥ ढाल १६ मी. ॥ (श्री जिनशासन जग जयकारी. ए देशी.)

रुद्राचार्य तो मुनिवर पूजा, देखीने दुःख पावे रे ॥ महरथी मन एम विचारे, ए
 हमें शो गुण ज्ञावे रे ॥ अणख तजो रे, अणीख थकी दुःख लहीए
 रे ॥ पापस्थानक ए दुःखदाता, ते साचो सहहीए रे ॥ अणख तजो रे, अणीख तजो रे
 ॥१॥ ए आंकली ॥ हू आचार्य सकल गुण दरीयो, विद्यामृतथी जरीयो रे ॥ पंचाचारा
 दिक अनुसरीयो, तप जप संयम वरीयो रे ॥ अणखण॥१॥ सुज मूकीने एहने बहु जन,
 बहु मानादिक आपे रे ॥ यश विस्तार करे सवि अह निशि, गुणमंदिर करी आपे रे ॥
 अण॥३॥ एहवो महर अह निशि राखे, जन आंगे पिए ज्ञाखे रे ॥ गुण लेवे नहि विद्या
 दिकनो, तेहने तृण सम दाखे रे ॥ अण॥४॥ एहवे कुसुमपुरे परवादी, षटशास्त्री मद ज्ञ
 रीयो रे ॥ षटदर्शना वादने जीते, बात्र थकी परवरीयो रे ॥ अण॥५॥ जीतकाशी अई
 जैनजतीने, निंदे महर मातो रे ॥ टोंटोडी परे मन मद राखे, शिवमतथी अति रातो रे
 ॥ अण॥६॥ कुसुमपुरेथी संघे मिलीने, साधु बे शीघ्र पगया रे ॥ रुद्राचार्य समीपे ते पि
 ण, विहार करंता आया रे ॥ अण॥७॥ वात करी आचारज आंगे, जो वादी जीताये रे ॥
 तो जिनशासन केरी उन्नति, अधिकी सहमें थाये रे ॥ अण॥८॥ सांजली रुद्राचारज ति
 णि दिशे, ततक्षण कीध प्रयाणो रे ॥ हीन शुक्नथी विलंब विचारे, बहुश्रुत होवे शाखो

रे ॥अण॥१॥ वंयुदत्त निज सायुने + प्रेये, ते वादी जतिवा रे ॥ मूरज आंगं तेज न मोदिं,
 जो कीजि लख दीवा रे ॥अण॥२॥ तिम ते सूर्य समोवड मुनिवर, पाटलीपुत्रपं आवे रे ॥
 राजसज्जामां वादस्यद्वथी, परवादीने इरावे रे ॥अण॥३॥ सौगत मतवासी ते वादी,
 हल कयता मत थापे रे ॥ स्यादवाद्वाथी सुपरं तेदने, उचर उचम आपे रे ॥अण॥४॥
 समजावे तस न्याय निपुणथी, कुमति कदाग्रह ठंमो रे ॥ *शिवमारगने जो तुमे वंवा,
 तो जिनमतगुं रुड मंनो रे ॥अण॥५॥ वादी नमीने मुनिवर चरणे, मान तजे तिषि धे
 ला रे ॥ जैनतणो जय जय सहू बोले, जैनमती थई जेवा रे ॥अण॥६॥ अनुक्रमे रुडा
 चारज चरणे, वंयुदत्त मुनि आवे रे ॥ संघ सकल मिली ते मुनिवरनी, विरुदावली वो
 लावे रे ॥अण॥७॥ वादी कंदली कृपाण तुं साचो, वादी गज शिर सिंह रे ॥ वाडि गरु
 ड गोविंद विपद तुं, वादीश्वर मांहि लीह रे ॥अण॥८॥ वादी घूकने ज्ञास्कर सरिखो,
 वादी कंद कूडावो रे ॥ वादी गौधुम धैरट विराजे, वादी जन झूपावो रे ॥अण॥९॥ स
 रंस्वति कंगान्नरण तुं सोह, जिनशासन शिष्यगारो रे ॥ सोलमी ढाले जिन इम जाले,
 पुण्ये विरुद उदारो रे ॥अण॥१०॥

+ मोरुले. * मुक्तिना मार्गिने. १. केदने कापवा मोटे रुडा जेवो ३ ३३ ३ ३३.

॥ दोही. ॥ वंदीजनना मुख थकी, सुशि विरुंदावली सार ॥ भ्रमधमीयो रेषे
 करी, रुद्राचार्य त्रिषिवार ॥ १ ॥ साबाशी ते साधुने, देवी तो रही दर ॥ पिण महारथी
 रूडने, कोप चढ्यो नरपूर ॥ २ ॥ वंधुदत्त जांखो थयो, देखी गुरु अपमान ॥ संघे पिण
 आचार्यनो, महर लह्यो असमान ॥३॥

॥ ढाल ? उ मी. ॥ (ईरर आंवा आंवली रे, ईरर वाडम डाख. ए देशी)

एहवे सांकेतनपत्तने रे, कृपापाल विख्यात ॥ नृप हिंसक ठे अति घणो रे, असत्य
 वचन अवदात ॥ नरेसर, पापी मांही प्रधान ॥ नरक तथो ए निदान, नरेसर पापी मां
 ही प्रधान ॥१॥ ए आंकणी. ॥ पंचाश्रव पूरा करे रे, मिथ्यात्व श्रुति राग ॥ अश्वमेघ
 अजमेघना रे, नरमेधादिक याग ॥ नण॥१॥ दान दीये *वाडव प्रते रे, जाणीनि गुरु जोग
 ॥ तिल तैलादिक नृकन्यकारे, लवणादिक शुभ्र योग ॥ नण॥३॥ जैनतथो द्वेषी घणो रे,
 साधुने धे अति दुःख ॥ परदेशी राजा परें रे, पापतथो करे पोष ॥ नण॥४॥ सांकेतनपुर
 परठव्यो रे, उपसर्गें करी साधु ॥ नीलाना मुनि मृग कह्यारे, विचरे सदा निरावाय ॥
 नण॥५॥ रुद्राचार्ये ते अन्यदा रे, सांभल्यो ते अधिकार ॥ तव सोमिल मुनि बोलिया रे,

अनुमति दो एह सार ॥न॥६॥ गुरु आज्ञाथी आवीया रे, सांकेतनपुर मांदि ॥ गुप्तपणे
 मंत्री घरे रे, पद्दोल्या अतिहि उठांहि ॥न॥७॥ पुज्य नक्षत्रे निपाईया रे, चूपे चुवन उ
 दार ॥ वसवानी चेला ज्ञानी रे, पूठ्या विप्र तिवार ॥न॥८॥ नृपने बसवा मंदिरे रे, जे
 दिन दाख्यो विप्र ॥ सोमिले मंत्री आगले रे, उत्राप्यो ते क्षिप्र ॥न॥९॥ यामिनी मध्य
 समय सही रे, आशे विद्युत्पात ॥ नृप मंदिर पडशे तिले रे, जोज्यो ते साक्षात ॥न॥१०
 ॥११॥ मंत्रीये सत्रि चूपने रे, जांष्यो तेह वृतांत ॥ राय कहे मंदिर तजी रे, रहिशुं जई
 एकांत ॥न॥१२॥ रात्रि समय नृप मंदिरे रे, विद्युत्पात ते आय ॥ देखी नृप विस्मय
 अयो रे, प्रशमे मुनिना पाय ॥न॥१३॥ धर्मोपदेश देई करी रे, कीधो समकितवंत ॥
 वाडव मान मर्दन कीयो रे, नैमित्त शास्त्रथी तंत ॥न॥१४॥ वंदुदन परं आवीयो रे,
 आनुवरथी गूर ॥ शोभा तेहनी सांजली रे, कोप्यो ते रुडसूर ॥न॥१५॥ प्रजाकर तप
 सी जलो रे, कालिक तिम क्रियावंत ॥ देखीने गुण तेहना रे, स्तवना करे सहू संत ॥न॥१६॥
 ॥१७॥ ते श्लाघा रुडचार्यने रे, सांजलतां न सुहाय ॥ तिले करीने चारे मुनि रे, शिथि
 लाचारी ते आय ॥न॥१८॥ गद्य शिथिल गुणथी अयो रे, व्यवहारे पिण हीण ॥ सरो
 वर पिण फाटे सदा रे, पाल होवे जो खीण ॥न॥१९॥ यतः ॥ अनुष्ठुवृत्तम् ॥ राक्षिध

मिथी धर्मिष्ठाः, पापे पापाः समे समाः ॥ राजान मनुवर्तते, यथा राजास्तथा प्रजाः ॥ १ ॥
 ज्ञावार्थः—धर्मि राजा बते प्रजा पण धर्मिष्ठ आय. पापी राजा बते पापी, सम बते स
 म; ए रीते प्रजा राजाने अनुसरीने चाले ठे, माटे जेवो राजा तेवी प्रजा. ॥ १ ॥ गुणन
 गमे तस कोयनो रे, आप सुरारी आय ॥ तिणे करी रुद्रचार्यनो रे, पापे पिंम जराय ॥
 नण ॥ ७ ॥ किळ्विष ध्यानथकी मरी रे, थयो किळ्विष सूरे तेह ॥ पापे करी सुरलोकमै
 रे, पेसी न शके जेह ॥ नण ॥ १ ए ॥ तिहांथी चवि ब्राह्मण कुले रे, होशे मूक दरिद्र ॥ रो
 गाक्रांत दुःखी घणो रे, व्यसनादिक शत बिद्र ॥ नण ॥ १ ॥ नव पूरण करीने पढे रे, न
 मशे नवजल मांय ॥ कर्म ह्य करशे यदा रे, तव लहेशे सुख ठाय ॥ नण ॥ १ ॥ चारि
 त्रियो सूधो हतो रे, ज्ञान क्रिया पिण सार ॥ ते मुनिवर महर थकी रे, पाम्यो दुःख सं
 सार ॥ नण ॥ १ १ ॥ ते माटे तुमे चित्थी रे, महर टालो हेव ॥ ए लघु बंधव तुम तणो रे, ए
 हनी करज्यो सेव ॥ नण ॥ १ ३ ॥ लघु तो पिण गुरु गुण थकी रे, गुरु करी जाणे संत ॥ इम
 समजावे पुत्रने रे, सुपरै तात अत्यंत ॥ नण ॥ १ ४ ॥ यतः ॥ शार्दूलविक्रीडितवृत्तम्. ॥ हस्ति
 स्थूल तरः सचांकुशवशः किं हस्तिमात्रांकुशः, दीपे प्रज्वलिते प्रणश्यति तमः किं दीप
 मात्रं तमः ॥ वज्रैरनिहताः पतंति गिरयः किं वज्रमात्रांगिरिः, तेजो यस्य विराजते स

वनवान् स्तूत्रैर्गुक्तः प्रत्ययः ॥२॥ त्रिवार्यः—हाथी वणो जाडो वे, तेम वतां पण ते अंकु
 शने वश होय वे, माटे शुं हाथी जेटलुं अंकुश ठे ? दीवो अजयाले वते अंधारु नाश पा
 मे वे, त्यारे शुं दीवा जेटलुं अंधारु ठे ? वज्रवेडे करीनि हणएवा एवा पर्वतो पडे वे,
 त्यारे शुं वज्र जेटलो गिरि वे ? ना नही. जेनामां विशेष सामर्थ्य होय, तेज बलवान
 गणाय वे. माटे मद्देटापणानो शो विश्वास राखयो. ॥२॥ दान कटपडुम रासनो रे, प्र
 थम थयो ऊर्द्धास ॥ धनकुमर पुण्ये करी रे, लहेरो वील विलास ॥ न० ॥ २५ ॥ पंभित
 मांहि नम्रोमणी रे, हितविजय नुवराय ॥ सत्तर ढालेथी रज्यो रे, जिनविजये सुखदा
 य ॥ नरेसरण ॥ २६ ॥

इति श्री धन्नशास्त्रिचरित्रे प्राकृतप्रबंधानकटपडुमाख्ये प्रथमशास्त्राख्यानशाह
 पुण्यवर्णनोपप्रथमोद्धासः समाप्तम्. ॥ १ ॥ अस्मिनोद्धासे ढाल ॥ १७ ॥

॥ दोहा. ॥ सकल समीहित पूरवा, समथ जिने चौवीश ॥ तिम शारद सदगुरु
 प्रते, प्रणमुं विश्वावीश ॥ १ ॥ दान कल्पडुम रासनो, अथ बीजो उलहास ॥ वर्यवशु
 श्रुतशास्त्रथी, सुषो सकल सुविलास ॥१॥ अग्रज धन्नकुमर तणा, त्रिणये ते नितमेव ॥
 ताततणा अपरोधथी, करे धन्नानी सेव ॥३॥ न्नोजाई जगते करी, धरे सदा शिर आण ॥
 सयण सकल जी जी करे, नाग्यबले सुप्रमाण ॥४॥ स्वजनादिक पोखे सदा, द्विये बंध
 वने मान ॥ मात तात सेवा करे, धन्नो बुद्धि निधान ॥५॥

॥ ढाल १ ली. ॥ (दील लाग्यो रे वरणी. ए देकी.)

पइगाणपुर पासे एक दिवसे, जलनिधि जलने पूरे ॥ तुमे देखो रे पुण्य कमाणी,
 जे जगमांहे गवाणी ॥तुमैण॥ प्रवहण आव्यां पवने प्रेस्थां, देखे सहु कोई दूरे ॥तुण॥१॥
 ए आंकणी. ॥ ते प्रवहणनो पति परलोकै, पहेत्यो जलनिधि मांहे ॥तुण॥ तव निर्यो
 मिके ते प्रवहणने, आण्यां तेथी उब्बांहे ॥तुण॥१॥ ताम संयांत्रिक मिलि सवि नृपने, जे
 ट धरीने मलीया ॥तुण॥ नृप सत्कार लहीने ते पिण, अति उत्कर्षे मलीया ॥तुण॥३॥
 नौकापति जलनिधिमें सांप्रति, यमपूरे पहेत्यो स्वामी ॥तुण॥ ते माटे ए पोत संजा

१ खारुआ. २ खारुआ. ३ ते वहाणनो धणी. ४ वहाणमां रहेलो माल.

ली, लीजे कहुं शिर नामी ॥ तुण ॥ ४ ॥ वात सुणीनि नरपति ततकण, प्रमुदित मनमं
 श्राने ॥ तुण ॥ सयांत्रिक सन्मान लहीनि, निज निज श्रानक जावे ॥ तुण ॥ ५ ॥ योनपात्र
 भोवावरी माहे, वाहक श्राले वारू ॥ तुण ॥ नागर नांखीनि जखकंठे, ठेले केईक तारू ॥
 तुमेणा ॥ ६ ॥ 'त्रांनादिः सयजां ऊताखां, प्रवद्दणथी तेणी वेला ॥ तुण ॥ लवण प्रत्या ति
 हां कलश अनोपम, दीठा तेह समेला ॥ तुण ॥ लवण कुंज देखी नृप चिते, परवेशे ह
 शे मोंथे ॥ तुण ॥ ते माटे ए प्रवद्दण मांही, पूखो ठे लेई सांधो ॥ तुण ॥ राजा तव व्य
 व्हारी सयला, तेडीने ईम आखे ॥ तुण ॥ लेई 'क्रियाएकने धन श्रापो, श्रमचे ए कुण
 राखे ॥ तुण ॥ ए ॥ ते व्यवहारी समग्र मिळया जिहां, धनो पिण तिहां पावे ॥ तुण ॥ लव
 णादिक किरियाणां निरखे, ते पिण सरल स्वभावे ॥ तुण ॥ १ ॥ भुंगमद प्रमुख समस्त
 क्रियाएक, वद्देचीने ते लेत्रे ॥ तुण ॥ बालक जाणी लवण कलश ते, धनाने सवि देवे ॥
 तुण ॥ २ ॥ धने बुद्धिकी सवि तेहने, उपमाने करी लीधा ॥ तुण ॥ तेजमतूरीना जाणीनि,
 तात प्रते जई दीधा ॥ तुण ॥ ३ ॥ तांत्र धर्मीने प्रतिदिन धनो, तेजमतूरी महेले ॥ तुण ॥
 कंचननी निष्पत्ति अनोपम, थाये अमिय ते शहेले ॥ तुण ॥ ३ ॥ हरख्यो तात स्वजन स

वि हरख्यां, बुद्धि निधान ते जाती ॥ तुण ॥ ढाल प्रथम ए बीजे उल्लहासे, बुध जिनविज
ये वखाणी ॥ तुमेण ॥ ४ ॥

॥ दोहा. ॥ भूपे प्राग्याधिक लही, धन्नाने तिण ताल ॥ नगरशेठ पदवी दिये, जा
णी बुद्धि विशाल ॥ १ ॥ सामंतादिक सचिव सवि, आपे अति सन्मान ॥ नगर लोक जी
जी करे, भूप दिये बहुमान ॥ २ ॥ एक दिवस दरवारथी, हय ऊपर असवार ॥ परिवृत
बहु परिवारशुं, आवे निज आगार ॥ ३ ॥ नाटक विविध प्रकारनां, आगल हय गय थाटा ॥
बंधीजन बोले बिरुद, याचक भोजक जाट ॥ ४ ॥ अतुल रुद्धि देखी अवाल, हरख्या मा
तने तात ॥ पिण त्रिण्ये जांखा भया, धन्नाना अग्रजात ॥ ५ ॥

॥ ढाल २ जी. ॥ (सनेही वहाला, लाग्यो नेह निवाहो. ए देशी.)

हवे धनदत्तादि विचारे, धन्नकुमरथी रोश वधारे रे ॥ सनेही प्यारे, ए दुःख केम
खमीजे ॥ कहो केहने उलंभो दीजे रे, सण ॥ ए अनुज भयो अधिकारी, एणे अधमनी
संगति धारी रे ॥ सण ॥ १ ॥ एतो कूड कपट बहु राखे, तिले सहू को रूडो ज्ञाखे रे ॥ सण ॥
एणे कूड करी धन मेढयो, जिहां तिहांथी कीधो जेलो रे ॥ सण ॥ २ ॥ जोयो सार्धपने बल
कीधो, तिहांथी एणे धन बहु लीधो रे ॥ सण ॥ ३ ॥ वली होडे घेठो लडाव्यो, तिहांथी पिय

सन्तो फाव्यो रे ॥सण॥३॥ देखो कृपणनी खाट ते लीधी, मनमें तस सृग न कीधी रे॥
 सण॥ तिम लत्रण कलशमें खाव्यो, एणे लोत्रे लक्षण दाव्यो रे ॥सण॥४॥ मात तात जो
 जाई साथे, धन ईई कल्यां सह हाथे रे ॥सण॥ एह आपणने न बोलावे, अम दरशन पि
 एन सुद्धावे रे ॥सण॥५॥ एह आपणथ्री रहे अन्नगो, तो क्रिम जाईजे विलग्यो रे ॥सण॥
 ॥सही एहमें तो स्नेह न काई, एह तो नामथ्री कहीए जाई रे ॥सण॥६॥ हवे एहने तो
 सही हणीए, ईहां पापने दोष न गणीए रे ॥सण॥ विय शस्त्रादिक कोई कीजे, एहने
 *पंचत्य पद दीजे रे ॥सण॥७॥ बल जोता रहे त्राण्ये जाई, ते जाणे सकल जोजाई रे ॥
 सण॥ लवलेश देवरने दाखे, तेह गुह्य धनो चित्त राखे रे ॥सण॥८॥ यतः ॥ वंशस्थचरम ॥
 उदीरितोर्थः पशुनापि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहंति नोदिताः ॥ अनुक्रमगुहति पंक्ति
 जनः, परंगित ज्ञानफला हि बुध्यः ॥१॥ त्रायार्थः—कहेलो अर्थ तो, पशु पण जाणी श
 के वे, बोडा अने हाथीउ तेउने हांकीए तो, ते पण चाखे वे; परंतु पंक्ति पुरुष तो अगर
 केहेलुं पण तर्कथ्री जाणी जाय वे. माटे परना मनमां रहेली वातने जाणनारी ज्ञानरू
 प बुद्धियो वे. अर्थात् बुद्धिथ्री परना मनमां रहेली वात जाणी शकाय वे. ॥१॥ चित्तमें

हवे धनो विचारे, केहे कलह ते कोण वधारे रे ॥सण॥ जिहां बंधव चित्त डुःख पावे,
तेह शू कीजे वडवावे रे ॥सण॥ चित्त प्राण्यां साजां नवि आये, सह शास्त्रे पिण केहे
वाये रे ॥सण॥ उत्तम नर तेहज जाणे, तव विचरे समय प्रमाणे रे ॥सण॥ १० ॥ यतः
॥ उपजातिवृत्तम् ॥ भग्ना हि शाखा न विलंबनीया, भग्नेषु चित्तेषु कुतः प्रपंचः ॥ गंत
व्यमन्यत्र विचक्षणेन, पूर्णा मही सुंदरी सुंदरेति ॥१॥ भावार्थः—जे वृक्षनी शाखा भा
गी गई होय अने जेनी मालियो भागेली होय, त्यां आश्रय शो करवो? मन जूदां थयां, त्यां
प्रपंच शो करवो? अर्थात् कांइ पण न करवुं. एवे समये तो माहा पुरुषे बीजे ठेकाणे
जवुं. कारण के, पृथ्वी विशाल पडी ठे अने मनोहर स्त्री जेवी ठे. ॥१॥ देशाटनं पंफ्रित
स्त्रिता च, वारंगना राजसन्ना प्रवेशः ॥ अनेक शास्त्रानि विलोक्यतानि, चातूर्यं मूला
नि प्रवंति पंच ॥३॥ भावार्थः—देशाटन करवुं, पंफ्रितनी मित्राई करवी, गणिकानी धन
हरण करवानी चतुराई जाणवी, राज्यसनामां प्रवेश करवो अने अनेक शास्त्रांनुं अ
लोकन करवुं, ए पांच कारण चतुराईनां मूल ठे. ॥३॥ तेह भग्नी परदेशे जईए, निज
भाग्य परीक्षा करिये रे ॥सण॥ मुजबल परतक करीजे, तिम नव नव देश देखीजे रे ॥
सण॥ १॥ रखे डुःख एहने कोई आये, मुजथी अप्रीति जणाये रे ॥सण॥ इम चिंती अ

यो सावधान, मध्य रात्रि कीव प्रयाण रे ॥सण॥१२॥ शुक्रन सवल तव शत्रे, मालव न
णी सिद्धि सोहावे रे ॥सण॥ कौतुक क्रीडा बहू करतो, मनमांदि उमेव धरतो रे ॥सण
॥१३॥ मध्यान समय जव श्राये, तव पंथनो खेद जषाये रे ॥सण॥ तिहां खेत्र खेडंतो
हाली, एक दीवो नयण निहाली रे ॥सण॥१४॥ तरु शीतल वाया देखी, तिहां वेगो पंथ
उवेखी रे ॥सण॥ डाल वीजे उड्हासे ए वीजी, कही जिनविजये मन रीजी रे ॥सण॥१५॥

॥ दोहा. ॥ हालिक धन्नाने निरखि, विकसित वदन सुबोल ॥ जोजन आणे न
क्तिथी, शाल दाल घृत गोल ॥१॥ धन्नो कहे उपक्रम विना, न करुं जोजन लिंगार ॥ मृ
गपति परे निज उपक्रमे, सवि राखुं विवहार ॥२॥ ते माटे तुम हलतषां, एक वे बालुं
चास ॥ पठि तुम आग्रहथी सही, करशुं जोजन खास ॥३॥ इम कही हल खेड्यो तुरत,
धन्नकुमर ग्रही राश ॥ प्रगढ्यो ततक्षण देखते, भूमिथी निधि सुप्रकाश ॥४॥ हाली कहे
तुम प्राग्यथी, प्रगढ्यो एड निधान ॥ धन्नो कहे हालिक प्रते, ए तुम पुण्य प्रमाण ॥५॥
उपकृति करी जोजन कथां, श्रम टाली तिए गंहि ॥ 'कार्यिकशुं मैत्री करी, गमन क
रे उड्योहि ॥६॥ कृपि जाई निज नृप प्रते, सकल कद्यो भवदात ॥ *दमापति पण प्रमु

दित भ्रणे, धन्नकुमर शुभ्र जात ॥७॥ जो धन धन्ने तुम प्रते, दीधो ए असमान ॥ तो में
 पिण वंखशो तुने, भोगवो भोग प्रधान ॥८॥ तव हाखिक हर्षित थई, निधि प्रगल्बो जि
 णं गम ॥ वाशुं तिण थानके भ्रुं, धनपुर नामे गम ॥९॥ उत्तम नर आव्या थकी, पा
 मी रुद्धि विशाल ॥ हाली ते ततकण अयो, ग्राम तणो भूपाल ॥१०॥ यतः॥आर्यावृत्तम्.॥
 उत्तम जण संसग्गी, सीलदरिंदिपि कुणइ सीलहं ॥ जह मेरुगिरिवि लग्गं, तिणमवि क
 णगत्तणमुवेई ॥११॥ भावार्थः—जेम मेरुगिरिने लागेलां तृणां पण सुवर्णपणाने पामे बे,
 तेम उत्तम जननो संसर्ग पण शील रहित पुरुषने शीलयुक्त करे बे. ॥१॥

॥ ढाल ३ जी. ॥ (प्रवहण तिहांश्री पूरीयां रे लाल. ए देशी.)

हवे धन्नकुमर तिहां अकी रे लाल, पंश्रे चाड्यो जाय रे ॥ सुगुण नर ॥ जोवे देश
 विदेशनां रे लाल, कौतुक अति सुखदाय रे ॥ सुगुण नर, पुण्ये मनवंडित मिले रे लाल
 ॥१॥ ए आंकणी. ॥ पुण्ये सयल संयोग रे ॥सुण॥ पुण्ये सुर सान्निध्य करे रे लाल, पुण्ये
 वंडित भोग रे ॥सुण॥पुण॥१॥ तिहां कणे वन देखे जलां रे लाल, वृद्धतणां तिहां लाख
 रे ॥सुण॥ आंबा जांबू करमडां रे लाल, दाडिम सूफने डाख रे ॥सुण॥पुण॥३॥ ताल त
 माल राजादनी रे लाल, वड पीपलने निंब रे ॥सुण॥ धवखरादि हरीतकी रे लाल, चंद

न अगर कंदव रे ॥सुणा॥पु॥४॥ सोपारी श्रीफल घणां रे लाल, ताउ अओक अओड
 रे ॥सुणा॥ प्रार अदार तथा तिहां रे लाल, सोहे वृक सजोड रे ॥सुणा॥पुणा॥॥ जाई
 जुई केवडा रे लाल, मडेके केतकी फूल रे ॥सुणा॥ बोलसिरी वालोबली रे लाल, सेवंत्री
 जाम्बूल रे ॥सुणा॥पुणा॥६॥ रुमरो मरुडु मोगरो रे लाल, कणयर करेणा खास रे ॥सुणा॥
 पुत्राग नाग अंकोलनां रे लाल, मालती प्रमुख सुवास रे ॥सुणा॥पुणा॥७॥ गिरि महाटा
 तिहां अति घणा रे लाल, भूकामिनी कूच जेम रे ॥सुणा॥ शिखर सोहे तस ऊपर रे ला
 ल, कंजुपरे अति तेम रे ॥सुणा॥पुणा॥८॥ स्तनधारा परे नीसरी रे लाल, तटणी तोय
 उदार रे ॥सुणा॥ जाणे मुगताफल तथा रे लाल, भूजामिनी उर हार रे ॥सुणा॥पुणा॥९॥
 पंखी जलक्रीडा करे रे लाल, मोर चकोर मराल रे ॥सुणा॥ चकवा चकवी कपोतनां रे
 लाल, वकनी पंक्ति विशाल रे ॥सुणा॥पुणा॥१०॥ उपकंठे मुनि आश्रया रे लाल, उडबले
 एकत्र रे ॥सुणा॥ तपस्ती तप बिधि साचवे रे लाल, असन करे फल पत्र रे ॥सुणा॥पुणा॥११॥
 सत्र तथां स्थानक घणां रे लाल, पुलिंद प्रमुख केई पक्ष रे ॥सुणा॥ नर रूपे पशु सारि
 खा रे लाल, शाखा मृग प्रत्यक्ष रे ॥सुणा॥पुणा॥१२॥ गज टोलां वनमें जलां रे लाल, उ
 न्मूले केई वृक्ष रे ॥सुणा॥ वानर यूथ विशेषथी रे लाल, सहिप तथां तिहां लक्ष रे ॥सुण

॥पुणा१३॥ मृग चित्रक शावर ससा रे लाल, व्याघ्र विशेषनो वास रे ॥सुण॥ मृगपति
 पिण तिहां संचरे रे लाल, करता कुल अन्ध्यास रे ॥सुण॥ पुण१४॥ इत्यादिक जेतो अ
 को रे लाल, कौतुक विविध प्रकार रे ॥सुण॥ अनुक्रमे मालव देशमां रे लाल, आव्यो पु
 एयप्रान्धार रे ॥सुण॥ पुण१५॥ तटनी तीरे अन्यदा रे लाल, करी बेलुक संथार रे ॥सुण
 ॥ शयन करे घन्नो तिहां रे लाल, ध्यान घरी नवकार रे ॥सुण॥ पुण१६॥ निर्मयशी निजा
 करे रे लाल, साहसिकमें शिरदार रे ॥सुण॥ बीजे उड्हासे जिन कहे रे लाल, ढाल त्री
 जी मनुहार रे ॥सुण॥ पुण१७॥

॥ दोहा. ॥ एहवे यंमिनीए तिहां, याम रही जव शेष ॥ शिवा शब्द तिहां सां
 न्द्रयो, चमक्यो चित्त विशेष ॥१॥ शुक्न शाल्त्र अनुसारी, करे निश्चय चित्त मांहि ॥
 रात्रि शिवा डुरंगा दिवस, शब्द ते निष्फल नांहि ॥२॥ वसंतराज्य ग्रंथादिके, शुक्न त
 यो अधिकार ॥ ते आलोचने चित्तमें, शुभपरें धन्नकुमार ॥ ३ ॥ शिवा कहे शँब पासथी,
 धन ग्रहीने दृढ चित्त ॥ अमने नक्षत्र जे दीये, ते नर अति सुपवित्र ॥४॥ निश्चय करी
 निमित्तनो, शिवा शब्द अनुसार ॥ तटनी तीरे ततक्षणे, चाड्यो धन्नकुमार ॥५॥ शब

१ रात्रिये. २ शियालणी. ३ कोयल. ४ मडड.

दीवो एक आवतो, नीर पूरेथी जाम ॥ धन्ने ग्रन्दी शव निरखते, रत्नराशि लही ताम् ॥६॥
 रत्न प्रहारां शव कादिने, दीवो जंबूक प्रक ॥ देखो नैमित्त शालनां, पाम्यो फल पर
 तक ॥७॥ अनुक्रमे उद्वेद्यो तिहां, बंध्याचल नगराज ॥ उज्जयनी आव्यो तुरत, साहसि
 कमां शिरताज ॥८॥

॥ हाल ४ थी. ॥ (चित्रोडा राजा रे. ए देशी.)

उज्जयनी निरखे रे, मनमांही परखे रे ॥ शुं दीसे ठे रे, सरिखी स्वर्गपुरी समी रे
 ॥१॥ लंका पिण लाजी रे, ईण आगल जांजी रे ॥ मनमें नही राजी रे, तव जलमें प
 डी रे ॥२॥ रुंढे करी पूरी रे, सुभटे करी शूरी रे ॥ कोई वाते न अथरी रे, सुंदर शोज
 ती रे ॥३॥ चंमप्रद्योत राजा रे, जश अधिक दिवाजा रे ॥ वसुधामें ताजा रे, यश ठे जे
 हुना रे ॥४॥ गज रथने घोडा रे, पायक दल जोडा रे ॥ नहि तेहने शोडा रे, नृपने पाय
 के रे ॥५॥ शिवादेवी राणी रे, सीता सम जाणी रे ॥ पटराणी अषाणी रे, उत्तम गुण
 थकी रे ॥६॥ एक दिन नृप चिंते रे, मन केरी खंते रे ॥ बुद्धिंत संकेते रे, मंत्रि न मा
 हरे रे ॥७॥ तेहजणी निरधारी रे, करी परिका सारी रे ॥ मतिवंत विचारी रे, कीजे

मंत्रवी रे ॥७॥ पडहो वजडावे रे, नृप निज मन ज्ञावे रे ॥ करे अति वडदावे रे, ए उद
 घोषणा रे ॥८॥ सरोवर *लाखेटे रे, जे ठे अति ठेटे रे ॥ ते धंजने वींटे रे, बेवो पालधी
 रे ॥१०॥ नृप तस धन आपे रे, मंत्री पद थापे रे ॥ यश तेहनो व्यापे रे, बुद्धिबले ज्ञलो रे
 ॥११॥ सुणयो धनकुमारे रे, मनमें तव धारे रे ॥ एह वात विचारे रे, विलंब न कीजीए
 रे ॥१२॥ पडहो बवी आवे रे, सर कंठे सोहावे रे ॥ अति हर्ष न मावे रे, नृपने निरख
 तां रे ॥१३॥ एक दोरी ते लीधी रे, तैरु मूलमें सीधी रे ॥ यतने करी बांधी रे, सैर पा
 बल फिख्यो रे ॥१४॥ रज्जुथी वींटाणो रे, देखी तव राणो रे ॥ बुद्धिंत वखाण्यो रे,
 आप्यो मंत्रवी रे ॥१५॥ पुरजन सह हरख्यां रे, सुणी बुद्धि परिका रे ॥ तस पुण्य आ

* सरोवरनी वच्चे. १ ते तलावनी पाले वेसीने तलावनी वचमां रहेला धंजने बांधे. २ तलावनी
 पाले एक वृद्धना मूले दोरडानो ठेडो बांध्यो. ३ पली बीजो ठेडो लेहने तलावनी एक कोरथी चोफेर फ
 री आवी, प्रथम वृद्धना मूले बांधेला दोरडाना ठेडा साथे, आ ठेडानी आंटी देहने प्रथम चाल्यो हतो, ते
 तरफ चाल्यो, प्रथम ठेडो बांध्यो हतो, तेनी सन्मुख पाले जहने ठेडो खेंच्यो एटले स्थंने गांठ जह पहीती,
 एटले पाबो तेज मार्गे वृद्धी आव्यो, पली वे ठेडा जेगा हाथमां लेह धनकुमार बेवो त्यारे राजाये जाण्युं के,
 आ बुद्धिंत वे.

कन्याँ रे, सखि आवी नसे रे ॥ १६ ॥ पुरजन प्रते पोखे रे, नृपने संतोखे रे ॥ कोई बुद्धि
 विवेचे रे, सुपरे प्राग्यश्री रे ॥ १७ ॥ यतः ॥ मालिनीवृत्तम्. ॥ नरपति हितकर्ता द्वेषतांया
 ति लोके, जनपद हितकर्ता त्यज्यते पार्थिवेन ॥ इति महति विशेषे वर्त्तमाने समाने,
 नृपति जनपदानां दुर्लभः कार्यकर्त्ता ॥ १ ॥ प्राचार्यः—राजानुं सारुं करनार माणसना उ
 पर लोको द्वेष राखे ठे, देशनुं सारुं करनार पुरुष, राजावडे त्याग कराय ठे. एवो महो
 दो अने सरखो विरोध वर्त्तते ठते, राजानुं अने देशनुं प्रलुं करनार तो दुर्लभज मन्त्री
 आवे ठे. ॥ १ ॥ नृप दत्त आवासे रे, रहतां सुखवासे रे ॥ जुए मनने उच्चासे रे, पुर शोजा
 मन्त्री रे ॥ १७ ॥ कडपडुम रासे रे, जिन कहे सुखिवासे रे ॥ एह बीजे उब्हासे रे, ढाल
 चोश्री सही रे ॥ १ ए ॥

॥ दोहा. ॥ दीग दूरथी आवतां, पाँशु विलिप्त शरीर ॥ मखिन वसन शत खंभ
 तस, मात पिता तिम बीर ॥ १ ॥ कांति हिण कुत्सितपणे, भ्रम भ्रामं ग्रही हाथ ॥ दीन
 खीण दीठी तिहां, भोजाई पिण साथ ॥ १ ॥ देखी चिते धन्नकुमर, विस्मयश्री चिचमांहि
 ॥ मात पितादिक माहारा, किम आवे ईण गहिं ॥ ३ ॥ रुद्धि घणी ठे तस घरे, पुण्यश्रयी

* पूज.

सुविद्वीन ॥ ते किम संज्ञविद्ये इहां, एहतो दीसे दीन ॥४॥ दीसें बे तेह सारिखा, ते पिण
केम कहाय ॥ माहरी माने वांजणी, आव्यो इहां ए न्याय ॥५॥

॥ डाव ५ सी. ॥ (चरणाली चामुंनारण चढे. ए देशी.)

धन्नकुमर मन चित्तवे, ए परिजन इहां केम आवे रे ॥ धन संपद घरमें घणी, ए
विस्मय बहुलो थावे रे ॥ जुन्न जुन्न पुण्य पटंतरो ॥१॥ ए आंकणी. ॥ पुण्ये वंढित सी
ऊ रे ॥ पुण्यबले लक्ष्मी मिले, पुण्ये राजा रीजे रे ॥जुण॥१॥ जई जोडं हवे एहने, इम
चित्ती तिहां आवे रे ॥ मात पिताने डलखी, विनये शीश नमावे रे ॥जुण॥ ३ ॥ आ शुं
अयूं मात तातने, बोले एहवी वाणी रे ॥ इरिड तणी एह सामटी, कीधी केम कमाणी
रे ॥जुण॥४॥ तव कहे तात तनुज सुणो, तुम चाड्या अम भूकी रे ॥ लक्ष्मी तुम साथे
चली, सतीय परे नवि चूकी रे ॥जुण॥५॥ प्रंत्यूषे अमे तुम तणी, खबर करावी चावी रे
॥ पिण किहांथी धैरगडी, तुमची शुद्धि न पावी रे ॥जुण॥६॥ तुम विरहे अमे आकूलां,
अइने रोदन कीजे रे ॥ जोर न चाले कोयथी, दोष ते केहने दीजे रे ॥जुण॥७॥ जोजाई
तुम न्नाक्तिथी, गुणलीणी छुःख पावे रे ॥ परिजन पिण मिली सामटा, तुम शुद्धि पूव्या

१ सवारे. २ रामोवाम. ३ सारी. ४ तमारी खबर न मली.

मावे रे ॥जुणा॥७॥ एहवे नृप राणी तणो, हार दासीये लीघो रे ॥ पञ्चपणे धनवेवने,
वेचवा काजे दीवो रे ॥जुणा॥८॥ वात ठानी ते नवि रही, राजाये जव जाणी रे ॥ अन्तु
नर मुकी आपणा, वन लीवो सवि ताणी रे ॥जुणा॥ १० ॥ काईक वाकी रस्यो हतो, तेह
गया चोर लेई रे ॥ सेवक संबंधी हता, ते पिण लेइ गया केई रे ॥जुणा॥११॥ जलवटनो
जलवटे गयो, भूमीश्री लेई गया यद रे ॥ भाग्यहीननो ततक्षणे, फल दीवो परतद रे
॥जुणा॥१२॥ गृहपातन अनले कल्हां, तव रहेवानो नही लागो रे ॥ कुकीसंवल अई नी
सख्या, जिम रुपि उपने वैरागो रे ॥जुणा॥१३॥ यतः ॥ दिवस पलद्यो ही बुरो, जागि श
के तो जाग ॥ पाणी उपर पठर तरे, सोने सलगी आग ॥ १ ॥ फिरता देश विदेशमें, उ
दरनो जरण वद्धता रे ॥ शीत तापादिक अति घणा, ते पिण सकल सहंता रे ॥जुणा॥१४॥
इहां आब्या तुमने मिड्या, हवे अम सहु दुःख भाग्यां रे ॥ कुलदीपक तुम पेखतां, सु
कृत तणा दिन जाग्या रे ॥जुणा॥१५॥ भाई पिण आवी मिड्या, कपटथी हेत उपाई रे ॥
अधिक आनंद अकी तिहां, आवी मिली जोजाई रे ॥जुणा॥१६॥ सयल सयण हूआ साम
टा, धनो मन सुख पावे रे ॥ बीजे उब्हासे पांचमी, जिन मन रंगे गावे रे ॥जुणा॥१७॥

॥ दोहा. ॥ धन्नाशाहे नेहज धरी, तात प्रमुख तिखिवार ॥ गुप्तपशेधी लेइने, आ
 एया निज आगार ॥१॥ स्नान करावी शुचि कखा, पहिराव्या शुन वेश ॥ वस्त्रानरणा
 दिक शकी, संतोषा सुविशेष ॥२॥ वसवाने आवास अति, सुंदर दीघा तास ॥ पितृ आ
 तृ परिवार सवि, सुखी थया सुविलास ॥३॥ अति तेजस्वी धनकुमार, बुद्धिंत प्रधान ॥
 प्रजा सकल जीजी करे, नृप द्वे अति सनमान ॥४॥ अणसहता ते तेजद्युति, धनदत्ता
 दिक व्रात ॥ जिम रवि तेज न सांसहे, कौशिक खेचर व्रात ॥५॥ पिता प्रते प्रणामी कहे,
 अमने धननो ज्ञाग ॥ देवरावो दिलमें धरी, जिम रहे वधतो राग ॥६॥ तात कहे रे अति
 निघृण, हजीय न आवे लाज ॥ इप्सित जोगने जोगवो, कां वियासाडो काज ॥७॥ तुम
 गृहथी ए धनकुमार, लाव्यो नही लिगार ॥ लक्ष्मी एहना ज्ञाग्यनी, किम करो होंश
 गमार ॥८॥ तव त्रिण्ये त्रटकी कहे, अस गृहनो जे सार ॥ रत्नादिक ते ए सकल, लाव्यो
 ठे निरधार ॥९॥ अन्योन्ये पितु पुत्रना, वचन विरोध विशेष ॥ शीख न माने साखिया,
 लोभे प्रस्त अशेष ॥१०॥ पितृ व्रातृ विरतंत सवि, जाण्यो धने जाम ॥ एकांते आवी
 करी, आलोचि अभिराम ॥११॥

॥ ढाल ६ ढी. ॥ (कर्म परीक्षा करण कुमार चढ्यो रे. ए देशी.)

धनकुमार मन धीर धरी तिहां रे, चिंतवे चित मजार ॥ इहां रहेतां जाइने दुःख
 हुये रे, मुज हुंती निरधार ॥ धनकुमार मन धीर धरी तिहां रे ॥१॥ ए आंकणी ॥ अर्द्ध निशा
 ये कुत्री नीसखो रे, साहसिक शत्रु सुविकेक ॥ स्वरवल साथीने ते संचरे रे, शुक्ल अया
 शून्य ठेक ॥ धण ॥ ३ ॥ अनुक्रमे कौतुक विधि निहालतो रे, पहोत्यो काशी देश ॥ बाणार
 शी पुर पासै आवीयो रे, जोवे नगर निवेश ॥ धण ॥ ३ ॥ पार्थ सुपार्थ जिएंबना जन्मनो
 रे, ए उत्तम अद्दिगण ॥ देखीने मनमां सुख ऊपन्यो रे, जन्म अयो सुप्रमाण ॥ धण ॥ ४ ॥
 गंगा तीरे निरमल नीरमां रे, करे जलक्रीडा काम ॥ एह्वे आवी अंबरश्री तिहां रे, गं
 गादेवी ताम ॥ धण ॥ ५ ॥ देखी धनकुमरना रूपने रे, मोही मनमें अत्यंत ॥ पंच विषय
 सुख विलसण तेहश्री रे, खरी राखे मन खंत ॥ धण ॥ ६ ॥ वैक्रिय रूप विकूर्वीने नवो रे, अपठर
 सम अदभूत ॥ दाव जाव विभ्रम करिने तिहां रे, वचन वदे सदभूत ॥ धण ॥ ७ ॥ स्वामी हूं तुम सेव
 क हूं सदा रे, नेह्यकी लयलीना ॥ प्रीत वंवाणी प्रेम रसे करी रे, जेहवी जलने मीना ॥ धण ॥ ८ ॥
 पंच विषय सुख मुज साथे मुदा रे, जोगवो जाग्य निधान ॥ हूं गंगादेवी गुण प्ररी रे, जाणी शो
 मुज मान ॥ धण ॥ ९ ॥ अया अश करेय, तास निराश न मूकीए ॥ निपट जनाकारेण, निर
 सुं दीसे, नागरा ॥ १ ॥ तुज गुण रूप लावण्य लीलाशकी रे, हूं मोही सुप्रकाश ॥ विनती मा

नी वालेशरं साहरा रे, आवो मुज आवास ॥धण॥१०॥ इप्सित सकल पदारथ संपदारे,
 परशुं मनने कोड ॥ प्रोजन प्रगति प्रली परे साचवी रे, रेशुं बे कर जोड ॥धण ॥११॥
 तव धन्नो सुणीने वाणी तवारे, धैर्य धरी निज चित्त ॥ शील सन्नाह सजी सुपरे तिहां रे,
 बोले वचन पवित्र ॥धण॥१२॥ वात कही जे चित्त चालण नशी रे, ते जाणी में मांय ॥
 अमे श्रावक व्रतधारी वाणिया रे, पालूं व्रत हित लाय ॥धण॥१३॥ परस्त्री संग सदा वर
 जुं सही रे, परस्त्री संगम पाप ॥ परस्त्री संगमश्ची दुःख पामीये रे, नरक गमननी
 बाप ॥ धण ॥ १४ ॥ रावण लंकाधिप सीताथकी रे, ठेदाव्यां दशशीश ॥ पारुव
 नारीश्री पद्मोत्तरे रे, खोई जग सुजगीश ॥ धण ॥ १५ ॥ मशिरथे जुगबाहू आता
 हण्यो रे, मयशरहाने काज ॥ मुंज मृशाला संगे रोलव्यो रे, इंड लह्यो दुःख
 साज ॥ धण ॥ १६ ॥ इत्यादिक बहु परस्त्री संगथी रे, दुःख पाम्या इह लोक ॥ परलोक
 दुःखीया परवश पड्या रे, ते जाणो सहु लोक ॥धण॥१७॥ उत्तम नर ते परस्त्रीने गणो रे,
 माता प्रगिनी समान ॥ शैठ सुदर्शननी परे सुख लहे रे, सुजस वधे असमान ॥धण॥
 ॥१८॥ यतः ॥ अनुष्टुबधृतम् ॥ आत्मवत्सर्व भूतेषु, परद्व्येषु लोषुवत् ॥ मातृवत्परदारे
 षु, यःपश्यति स पंथितः ॥ १ ॥ आवाधः—सर्व प्राणीमात्रोने पोताना जेवा, पारका इ

व्यने माटी नमान, परस्त्रीने माता समान; एवी रीति जे पुरुष जाणो ठे, तेज पुरुष ज
 गवने विने वंनित ठे. ॥१॥ परणी विलसे ते अति सुंदर कव्हा रे, पर जोवे ते हीन ॥
 वीजे उद्ध्वाने ढाल ठवी जिने कही रे, शील थकी सुख चीन ॥३७॥१॥

॥ दोहा. ॥ रे जेडे जिनयर्मना, दान शिखल तप ज्ञाव ॥ तेढमां शील विजोय ठे,
 जवजल तारण नाव ॥१॥ सिंह सर्प गज अनलना, जय सन्नि शीलै जाय ॥ शीलै वं
 जित सवि फले, शील वडो सुखदाय ॥२॥ यतः ॥ शार्दूलविक्रीडितकृत्स्नम् ॥ तोयत्यग्निर
 पि स्रजत्यहिरपि व्याघ्रोपि सारंगति, व्यालोप्यश्वति पर्वतोप्युपलति द्वेदोपिपीयूषति
 ॥ विघ्नोप्युत्सवति प्रियत्यरिरपि क्रीडातडागत्यपां, नात्रोपिस्वगृह्यटव्यपिनृणांशीलप्र
 ज्ञावाद्भुवं ॥१॥ ज्ञावार्थः—शीलना प्रज्ञावथी मनुष्येने, अग्नि जल रूप आय ठे, सर्प
 फूलनी माला रूप आय ठे, वाघ हरण रूप आय ठे, डुष्ट गज अश्व रूप आय ठे, पर्वत पा
 षाण जेवो आय ठे, विप अमृत समान आय ठे, विघ्न उत्सव रूप आय ठे, शत्रु मित्र
 रूप आय ठे, समुद्र क्रिडा करवाना सरोवर रूप आय ठे अने अटवी पोताना घर रूप आ
 य ठे ॥१॥ शीलं प्राणभृतां कुलोदयकरं शीलं वयुर्भूषणं, शीलं शौचकरं विपन्नयद्दरं दो
 र्गत्पं दुःखापहं ॥ शीलं दुर्भगतावि कंववहनं चिंतामणिःप्रार्थितो, व्याघ्रव्याल जलान

क्वादि शंमनं स्वर्णपर्वगप्रदं ॥१॥ ज्ञावार्थः—प्राणियोने शील, कुलनो उदय करनाहं, शरीरेनं नृषण रूप पवित्रता करनाहं, विपत्ति अने अयने हरनाहं, दुर्गति अने दुःखनो नाश करनाहं, दुर्नर्गियादि कंदने दहन करनाहं, प्रार्थना करेल चिंतामणिरत्न सरखुं, वाघ, सर्प, जल अने अधिना उपसर्गने शमल करनाहं तेमज स्वर्ग अने मोक्ष आपनाहं ठे ॥१॥ शरीर अनित्य संसारमें, रोग शोग प्रंकार ॥ मल मूत्रादिकधी जरी, अशुचि वहे नित दार ॥३॥ आयु वायु सम अधिर ठे, भोग रोग सम जोय ॥ धन मद संध्या रंग सम, सयण सुपन सम होय ॥४॥ यतः ॥ अनुष्ठुब्रवृत्तम् ॥ अनित्यानि शरीराणि, वैजवो ज्ञेव शाश्वतः ॥ नित्यं समीहतो मृत्युः, कर्षव्यो धर्मसंग्रह ॥३॥ ज्ञावार्थः—शरीर अनित्य ठे, वैजव अशाश्वता ठे अने मृत्यु नित पासे आवतुं जाय ठे; माटे धर्मनो संग्रह करवो ॥३॥ तिष कारण माता तुमे, महिमावंत महंत ॥ पुत्र विनती सांचली, धरो धर्म गुणवंत ॥५

॥ ढाल ७ मी. ॥ (शिरोहीनो साधू हो के, ऊपर योधपुरी. ए देशी.)

तव वचन सुणीने हो के, धनकुमार तणां ॥ शील रतन यतननां हो के, अतिहि सोहामणां ॥ ते सांचली देवी हो के, गंगा मन हरखी ॥ निज मन उब्हासे हो के, कुमरनुं मुख निरखी ॥३॥ करजोडी बोले हो के, कुमर प्रते वाणी ॥ तुम हृदयतणी में हो

के, बात सखल जाणी ॥ तू धर्म धुरंधर हो के, मनुज्यमहि मोटो ॥ बीजो तुज आगल
 हो के, नर सखजो बोटो ॥१॥ तुमे पर उपगारी हो के, गुणमणिना दरिया ॥ तुमे सहज
 मुरंगा हो के, संतोपे भरिया ॥ सुविवेक विचारी हो के, सारी तुम करणी ॥ जिनमत
 अनुंगी हो के, पुण्यतणी भरणी ॥३॥ तुमे मुजने तारी हो के, बारी हुं जाउं तुमची ॥
 समकित सुरमणिशुं हो के, मति जागी अमची ॥ संसार जलधिमें हो के, पडतीने रा
 खी ॥ समजावी विगते हो के, मधुर वचन प्राखी ॥ ४ ॥ उपकृति दवे तुमची हो के,
 करण किम आऊं ॥ तुमे धर्मना धोरी हो के, नामण्डे जाऊं ॥ इम कहनि कुमरने हो
 के, गंगादेवी तिहां ॥ शुभ रयण चिंतामणि हो के, आपे आशि तिहां ॥ ५ ॥ देइ रत्न
 अमलिक हो के, कुमर प्रते बोले ॥ जिनवर्मने आगल हो के, एह ठे कुण तोलो ॥ करनि
 विधि बंदन हो के, देवी गम गई ॥ धनकुमरना मननी हो के, चितित बात थई ॥ ६ ॥
 दोइ रत्ने संगे हो के, रंग प्रयाण करे ॥ अनुक्रमे नू क्रमतो हो के, मगधे पाउ धरे ॥
 अति देग रंगीलो हो के, नीलो उपवनथी ॥ सवि देशमें महेटो हो के, ग्राम नगर पु

३ जिनमत माथे प्रीति डे. ३ तुमारे वारणे जाउं. ३ तपे मने उपकार करयो, ते गुणउर्धो
 गण केम थउं ?

रथी ॥ ७ ॥ तिण देश दीपंती हो के, नगरी मांहि वडी ॥ उपमाने एहने हो के, अवर
 न कोय जडी ॥ तोले करी तुलतां हो के, सुरपुरी हीण धई ॥ तव ते कारणथी हो के,
 ऊंची स्वर्ग गई ॥ ७ ॥ लंका पिण लाजी हो के, जलधीमें ऊप भई ॥ अलका तिम सल
 की हो के, अलगी नास गई ॥ सुरलोक समाणी हो के, जे जगमें जाणी ॥ परसिद्ध
 गवाणी हो के, उत्तम नर खाणी ॥ ११ ॥ गढ कोट डुरंगा हो के, *चंगा कोशीशा ॥ को
 वा नवरंगा हो के, ऊलके आरीसा ॥ तिहां नाल विराजे हो के, मेघपरे गाजे ॥ जस
 नाद अवाजे हो के, वैरी दस भ्राजे ॥ १० ॥ पौल पिण अति पोढी हो के, दोढी अति
 दीपे ॥ द्वारगल सारी हो के, भारी अरि जीपे ॥ चहुटां चोराशी हो के, विविध वा
 खिज्य तणां ॥ तिहां हाट बखारे हो के, कीरियाणां रे घषां ॥ ११ ॥ वसे वरण अढारे
 हो के, ते सधला सुखीया ॥ निज पुण्य प्रबलथी हो के, दीसे नही दुःखीया ॥ अति
 उन्नत मंदिर हो के, सुंदर सुविशाला ॥ गोखे अन हरखे हो के, रमण करे बाला ॥ ११ ॥
 प्रासाद सोहावे हो के, जैनने शैवतणां ॥ तिहां पूजा नाटक हो के, बत्रिशवह घषां ॥
 वडहथ व्यवहारी हो के, धनथी धनद समा ॥ दाने करी झूरा हो के, सुरतरु सम उ

४ राजगृही नगरी. ५ देवलोक सरथी. ६ ज्यां उत्तम पुरुषो धया. * कांगरा. † महोडी पोल.

पमा ॥ १३ ॥ गौत्रं सुदर्शन हो के, श्री जिनवास जिज्ञा ॥ कोटीध्वज कक्षीए हो के,
जिनमत चित्त नशा ॥ जिण नगरे सुपरे हो के, चौद चोमास क्रिया ॥ श्री वीर जिण
दे हो के, बर्मोपेक्षा दिया ॥१४॥ बैभार धिदुवने हो के, कंचन देव गिरी ॥ उदयाचल
नामै हो के, ए पंचे शिवरी ॥ तिले करि पुर सोहे हो के, कहे जिन एम बली ॥ बीजे
उड्हासे हो के, सातमी ढाल जली ॥१५॥

॥ दोहा. ॥ ते राजगृहीनो भलो, भ्रंजसार राजन ॥ अस्थिणै अहि गरल सम,
सज्जनने ये मान ॥१॥ कर करवाले कंपीया, वैरी व्रत विकराल ॥ त सेवे नृप पदकम
ल, मानसरे ज्युं मराल ॥२॥ दानी मानी अन्नड मड, साहसिकमां शिर ताज ॥ ज्ञानी
ध्याती जिन गुणे, सदा रहे सुखसाज ॥३॥ कायिक समकित आचरे, अक्षय पदनै हेता ॥
अष्टोत्तर शत जव अकी, स्वस्तिक जिन संकेत ॥४॥ नंदा धारणी चलणा, प्रमुख एक
शत नार ॥ अत्रय भेय कोशिक प्रमुख, शत कुमार सुखकार ॥५॥ चारे हुदितणो ज
द्वधि, अत्रयकुमार प्रथान ॥ राज काज सवि साचवे, अूधवनो बहुमान ॥६॥ अरि क
टक अलग्नां करी, न्याय मार्ग करे शुद्ध ॥ अनय ध्वांत टाले तुरत, सुनय तेज अविरुद्ध ॥७॥

१. श्रेणिक राजा. २ मगूर. ३. माकुनें मटे. ४. बुकसा. ५. रानांतुं बहुमान हतु.

॥ ढालं ८ मी. ॥ (हां रे भहारे शीतल जिंभुं लागी पूरण प्रीतजो. ए देशी.)

हवे ते राजगृही नगरीए नगरनो शेठ जो, कुसुमपाल नामे ते जगमें जाणियो रे लो ॥ नृप श्रेणिकनो ठे अधिको तसुपरी मान जो, दानाडिक गुण निपुण विशेषे वखा शियो रे लो ॥१॥ तस कांता शांता कुसुममाला मनोहार जो, पुत्री ठ गुणवंती कुसुम श्री मली रे लो ॥ कला चोशठनुं गृह रूपे रति अवतार जो, बुधे नारति दानगुणे लक्ष्मी वली रे लो ॥२॥ तस शेठने वन हुतो नंदनवन सम एक जो, कोई कारण वशशी सू काइ ते गयो रे लो ॥ एहवे ते धनकुमर तिहां आवे रंग जो, पुण्य प्रभावे वन सवि नव पद्धव अयो रे लो ॥३॥ ते देखी पुरजन हरखित हृदय मजार जो, आवीने प्रत्युषे आ पी वधामणी रे लो ॥ सुणी प्रसुदित मनशी शेठ सकल परिवार जो, आवीने निरखे तव वन शोभा घणी रे लो ॥४॥ मन चिंते विस्मित अइने एहवी वात जो, केहने पुण्ये वन सर्वे फूढयो रे लो ॥ तव वन हुंढतां चंपक तरुवर हेठ जो, बेठो रे दीठो ते जाग्यशी अटकळयो रे लो ॥५॥ तस इंगितने आकारे ते शुभ्र रूप जो, देखी रे मन हर खी परखे ततदृणे रे लो ॥ जिम रत्नपरिकक परखे रत्नेने काच जो, बुद्धिबलीने परि का तिम कवियण गणे रे लो ॥६॥ हवे आवी धना पास शेठ तिवार जो, कुशलाजाप

पूढीने प्रसुद्धित मन कियो रे लो ॥ कहे स्वामी पथारो भ्रम मंदिर महाराज जो, तुम
 मिलवायी लाज घणो प्रभु भ्रम थयो रे लो ॥ ७ ॥ इम जांग्बी शैव ते धनाने ततखेव
 जो, अश्वालुह करीने घर तेडी गया रे लो ॥ तैवाद्रिक मर्दन ऊगटणाद्रिक चंग जो, ला
 न सुगंबी जलथी करी पावन श्या रे लो ॥ ७ ॥ मन गमतां भोजन कीधां एकण थाल
 जो, वेवा रे करे कीडा तिहां वातायने रे लो ॥ कहे शैव धनाने सुपरे भ्रमची बाल जो,
 परणोने प्रेमे खेमे गुन मन रे लो ॥ ८ ॥ तय बोले धनो शैव प्रणी सुविचार जो, विण
 नलखियां भ्रमने किम परणावशो रे लो ॥ कुल जाति पूठया विण एवडां म्होटां काज
 जो, कीजे जे कहो क्ण विधि मन उवाइसो रे लो ॥ १० ॥ तव बोड्या शैव धनाने क
 रि मनुहार जो, रूप कजा गुण लावएथी तुम कुल लह्यो रे लो ॥ बली आचारेणी जा
 णी उत्तम जाति जो, भ्रम वन फलेथी भ्रमे मनमें निश्चय प्रह्यो रे लो ॥ ११ ॥ तव मौन
 करी रहा धनोशाह तिवार जो, शैव तव विवाङ्गनां परवण तिहां कियां रे लो ॥ तव गो
 री गावे कोकिल स्वरथी गीत जो, श्रीफजने सोपारी पान प्रसुख दियां रे लो ॥ १२ ॥
 हवे धनोशाहे चिंतयो मनमें ताम जो, सुसराने धर रहेतां लाज बंधे नही रे लो ॥ बलि
 पाणिगृहरानो किम होवे उवरंग जो, नात प्रसुखने पोखवो पिल माहेर सही रे लो ॥ १३ ॥

यतः ॥ उत्तम आप गुणे नखा, मध्यम तात गुणेण ॥ अधम सुण्या मातुल गुणे, अध
 माधम सुसरेण ॥१॥ नावार्थः—पोताना गुणथी नलखाय ते उत्तम, पिताना गुणथी न
 लखाय ते मध्यम, माताना गुणथी नलखाय ते अधम अने ससराना गुणथी अर्थोत्
 ससराना नामथी नलखाय ते अधममां पण अधम जाणवो. ॥१॥ इम चिंती लीघां त
 तद्दण महोटां धाम जो, काम चलायो सघजो मणि महिमा थकी रे लो ॥ जस चिंता
 मणि घर तेहने शी ठे खोड जो, मनचिंतित सवि थावे इम सघले वकी रे लो ॥ १४ ॥
 हवे सुरमणि, पूजी जे जे चिते काज जो, ते ते रे ततकाले अइ आवे नलो रे लो ॥ बहु
 सेवक सेना हयगुण रथ परिवार जो, सेवे रे करजोडी यश पण कुजलो रे लो ॥ १५ ॥
 जे प्राग्यबली ठे तेहने पग पग रुदि जो, विण उद्यमथी आवे जावे आपदा रे लो ॥
 जिम उत्कर तुरतमें विण आयासे बूढ़ जो, थाये रे तिम आवे मिनी सवि संपदा रे लो
 ॥ १६ ॥ जेणे पूरे सुकृत करतां राखी खोड जो, तेहने रे मनवंडित कहो किहांथी
 मिले रे लो ॥ एह बीजे नडहासे आठमी ढाल रसाल जो, कहे जिन रंगे पुण्ये वंडित
 सवि फले रे लो ॥ १७ ॥

॥ दोहा. ॥ कुसुमपाल शेठे तुरत, तेडाव्या नूदेव ॥ आदर देई अति घयो, पूढे

लगन सुदेव ॥ १ ॥ जोशी जोई दीपणुं, शुभ्र सुहूर्त्त शुभ्र चार ॥ कुसुमश्री पुत्री तणो,
जगन कख्यो निरवार ॥ २ ॥ हवे विवाह तणां तिदां, महोटां करे मंभाण ॥ आगनश्री
पापड वडी, प्रमुख शाक परियाण ॥ ३ ॥ कंदोई वेग करे, त्रिविध ज्ञात पकवान ॥ वी
वाथ्री दाख्यो गळे, सुख लहे सुणतां कान ॥४॥ मंरुप बांध्या मोटका, पंचरंगी परगट्ट ॥
रचना जोवाने रसिक, आवे नरना श्रट्ट ॥५॥

॥ ढाल ए मी. ॥ (करडो तिहां कोटवाल, ए देशी. ॥

हवे ते धन्नोशाह, लगन दिवस जब आयो रंगशुं जी ॥ पकवाने करी पांति, पोखे
परिघल अति उग्रंगशुं जी ॥ १ ॥ उपर शालि ने दालि, तिम धृत ताजां पिरसे प्रेमशुं
जी ॥ व्यंजन नवि नचि ज्ञात, आशे ने वली टाखे सह जिसे खेमथी जी ॥ २ ॥ गोरस
सरस आहार, करीने सह को मन प्रसुद्धित थया जी ॥ ऊपर फोफल पान, ते लेइने सह
निज मंदिर गया जी ॥ ३ ॥ लगन वेला थइ जाम, तव वरघोडे वधु वरवा जणी जी ॥
चढिया मन धरी चोंप, आभूषणनी ते शोभा अतिहे वनी जी ॥ ४ ॥ हय गय रथ परि
चार, शैव सामंत सचिवथी परिवस्था जी ॥ देतां दान उदार, सुंदर खुंप ते शिर ऊपर
घस्था जी ॥५॥ वाजे नूर वत्रीश, नादे अंबर सत्रि गाजी रह्यो जी ॥ देवध्वनिनां गीत,

तेहनो वर्णन किम जाए कह्यो जी ॥६॥ जुगुत्ते लेई जान, धनपति आव्या सुसरो आंग
 शे जी ॥ सुसरो अयो रलीयात, सासु पण मनसैं धन्य दिन ते गणे जी ॥७॥ पूंखले पौ
 खी ताम, लीधा जमाइने हरषे मांयरे जी ॥ तेडी कन्या तिवार, वर कन्याने करमेलो
 करे जी ॥८॥ चोरी मखिमय चंग, रंगे बांधी ते झली ज्ञांतिशुं जी ॥ फेरा फरे तिहां
 सार, मंगल वरत्यां चारे खांतिशुं जी ॥९॥ वेइ जणो द्विज ताम, स्वर उदामे होम हवन
 करे जी ॥ करमोचननां दान, सुसरो सासू देवे बहु परे जी ॥१०॥ आरोग्या कंसार, दंप
 तिनां दिव हेजे हरखीयां जी ॥ मांहो मांहे अयो राग, गुण लक्षण सुपरे सवि परखीया
 जी ॥११॥ परिजन पोख्यो ताम, शेठे सुपरें सघलो आपणो जी ॥ दीधां याचक दान,
 लाहो लीघो लखमीनो अणगण्यो जी ॥१२॥ इण विध कीध विवाह, जयजय बोलेवे
 बिहुं तयो जी ॥ बिहुं मन आणंद पूर, हेज वध्यो तिम बिहुंने अति घणो जी ॥१३॥ कुसुमश्री
 लेइ संग, रंगे धन्नो आव्यो गृह आपणो जी ॥ जोगवे जोग विलास, सुर सुखने पिय तृण
 सरिखां गणे जी ॥१४॥ पुण्यतणे संयोग, सरिखा सरिखो जोडो आवी मिले जी ॥
 नवमी बीजे उडहास, जिन कहे ढाल ए सोहलामें जले जी ॥१५॥

॥ दोहा. ॥ एहवे मालवदेश पति, बंभप्रद्योतन ऋप ॥ कोइक वयण विरोधथी,

सु० १११ धइ चूप ॥१॥ बजडावी रणनेर तव, दीया निशाणे घाव ॥ सामंत सवि जे
 जा थया, तेडाव्या उमराव ॥१॥ चौद सुगटवळ राजवी, महा वीर अति धीर ॥ सद्धस
 सुद्ध शूरा घणा, वडवागीया वजीर ॥३॥ हय गय रथ पायकतणो, कोय न दीसे पार ॥
 चालते चूड धपाडले, शेण करे सलकार ॥४॥ शशि रवि वाया खेहथी, खोच्यां जलथी
 प्रगाथ ॥ न्यंतर पिण चिन चमकिया, आशी वडी विराथ ॥५॥ अति अविछिन्न प्रया
 ज्वाथी, आव्यो मगथ मजार ॥ श्रेणिकने पिण थड खबर, सैन्यतणी तिशिवार ॥६॥ ग
 ढरोद्दो करि राय तव, वेगो फूजण काज ॥ राजगृही आव्यो तुरत, प्रथोतन नर राजा ॥७॥

॥ ढाल १० मी. ॥ (आघा आम पथारो पूज्य, अम घर बहोरण वेजा. ए देशी.)
 अन्नयकुमरने तेडी श्रेणीक, पर दल वात प्रकासे ॥ चंफ्रथोतनने जीतिवा, बुद्धि
 करो सुविलासे ॥ देखो कुमर राय, बुद्धिबले अरि जीवे ॥१॥ ए आंकणी. ॥ तव बोल
 कुमर सुणो स्वामी, तुमे चिंता मत करज्यो ॥ दाय उपाये जीतणुं एहने, ते निश्रय
 चित घरज्यो ॥ देखोणा ॥१॥ एहने सैन्य घणोठे साथे, पिण ए जाग्ये हीणो ॥ एहने

* लश्करना थणणाटथी पातालगां रवेजा शेपनाण पण अय पाग्या. † सरोवरनां पाणी

मरुकावा मोक्यां

*जय करतां नही दुर्व्रज, ए बल बुद्धे खीणो ॥ देण॥३॥ एणो संग्रामे लाज गमावी, जय
 नृप-साथे (युद्ध) करिने ॥ मुंगट जणी लेवा मन कीघो, मान अधिक मन धरिने ॥ देण
 ॥४॥ कोशंबी पण काज न सीध्या, मृगावतीथी एहनो ॥ उज्जयिनी गढ पाडी एणे, दुर्ग
 कराव्यो तेहनो ॥ देण॥५॥ दासी काजे उदयन आगल, युद्ध करंतां जाणो ॥ मम दासी
 पति नाम एहवो, निलवट मांही लखाणो ॥ देण॥६॥ धुंधुमारशुं धंध मचायो, अंगारव
 तीने हेते ॥ तिहां पण शरम गमावी पापी, परण्यो ज्ञाग्य संकेते ॥ देण॥७॥ युद्ध करंतां
 जन ह्य थाए, सकल प्रजा सीदाये ॥ युद्ध कल्या विण जय थाए तो, युद्ध न कीजे प्रा
 ये ॥ देण॥८॥ यतः ॥ अनुष्टुप्वृत्तम्. ॥ पुष्पैरपि न योद्धव्यं, किं पुनर्निश्चितैः शरैः ॥ युद्धे
 विजयसंदेह, प्रधान पुरुष क्षयः ॥ १ ॥ ज्ञावायः—फूलवेडे पण युद्ध न करवुं जोइए, तो

* एने जीतवो ते कांहे कवण नथो. कारण के, एनी पासे लक्ष्मर ठे पण बुद्धि नथी. † जयराजा
 अपर नामे उम्मुह राजा साथे मुगट लेवा माटे युद्ध करवुं, त्यां पण एणे पोतानो लाज गमावी हती. १. सं
 तानिक राजानी राणी अने चेडाराजानी पुत्री एवी मृगावती राणी साथे, विषय सुख भोगववानी लाजव
 थी ए चंरुपद्योतने पोतानी उज्जयिनी नगरीनो कोट पाडी नांखी, ते इच्छोथी कोशंबी नगरीनो कोट करा
 वी आप्यो, तथापि तेनुं काम बन्युं नही. बीजा ग्रंथोमां एम ठे के, उज्जयिनी नगरीथी हारबंय माणसो उ
 ज्ञा राखी उज्जयिनीनी इच्छोथी कोट करावी आप्यो.

धारवाला बाणवेडे युद्ध करवानी तो वातज झी ? कारण के, युद्धवेडे जीतना संदेह ठे
 अने तेसां प्रधान एटले उत्तम पुरुषोनो कय थाय ठे. ॥१॥ अन्नयकुमारे बुद्धि उपाई, ध
 न धरतीमिं धराव्यां ॥ गुप्तपणेथी डैन्य स्थलमं, अति प्रबन्न कराव्यां ॥ देण ॥ ए ॥ पत्र
 लिख्यो प्रेमे करी युगते, विनयानत अइ अन्वये ॥ स्वामी तुम पूज्योपम अमन्त्रे, सुणो
 वात इक निम्नये ॥ देण ॥ १॥ शिवादेथी तुमची पटराणी, चेलणा सम में जाली ॥ तेह
 जणी स्नेह अमने अधिको, तुमथी ठे गुणखाली ॥ देण ॥ २॥ अम ताते धन आपी बहु
 लो, सामंत सवि पतलाव्या ॥ ते ग्रही तुमने देजे सुपरं, जे साथे इहां आव्या ॥ देण
 ॥ ३॥ जो अम वचननो प्रत्यय नावे, तो जोज्यो निरधारी ॥ सामंतादिक पटकुटी पा
 से, चुक्ति लेज्यो सारी ॥ देण ॥ ३॥ धन देखो तो वचननो प्रत्यय, निश्चेशी चित्त धरज्यो
 ॥ तुमने ठे समयतणा उपलक्षक, जिम जाणो तिम करज्यो ॥ देण ॥ ४॥ इम लिखी पत्र
 प्रबन्नपणेथी, प्रद्योतरायने प्रेक्षो ॥ तिले पण एकंति अवसरथी, वांचीने सवि देख्यो ॥
 देण ॥ ५॥ प्रत्यय माटे नृप पटकुटीने, पाले तव जोवरावे ॥ झूयति निधि देखीने त्त
 कण, अंति अधिक मन थावे ॥ देण ॥ ६॥ यामिनीये निज प्राण ग्रहीने, चंद्रप्रद्योतन
 नावे ॥ मंरण तणा अयथी मति हीणो, कीवो तिहां मन कावो ॥ देण ॥ ७॥ यतः—

॥ उपजातिवृत्तम् ॥ विपक्षवर्गेश बलाधिकेन, स्वयं विवाहो विदुषा न कार्यः ॥ नष्टापि
 रंके किल जीवितव्यं, जीवन्नरो नष्ट शतानि पश्यति ॥१॥ आवाप्यः—अधिक बलवाला
 शत्रुनी संश्रे विद्वान पुरुषे वाद विवाद अर्थात् कजीयो न करवो. नासीनि पण जीवित
 व्यने राखवुं जोइए. कारण के, जीवतो मायास डोकडो सुखने जूए ठे. ॥१॥ सैन्य स
 कत्त पिण चिहुं दिशि जावे, नृपनी शुद्धि करंतो ॥ अनुक्रमे उज्जयनी तें पहात्यो, नृप स
 ल शोक धरंतो ॥ देण ॥ ७ ॥ सामंत राय सभामें बोड्या, शू इस स्वामी प्राग्या ॥ इजत
 सहनी एत्ते गमावी, केहने केहसो लाग्या ॥ देण ॥ १ ए ॥ चंरुप्रद्योत कहे तुम धनशी, लप
 टाणा में जाण्या ॥ तव ते कहे अमे किम पलटाडं, फोगट तुमे भरभाणा ॥ देण ॥ १ ॥
 अन्नयकुमारनी चंरुप्रद्योते, कपट वात ते जाणी ॥ चिते मनमें ए शू कीधुं, खोई लाज
 पुराणी ॥ देण ॥ १ ॥ हवे कोइ दाय उपाय करीने, अन्नयकुमारने आशुं ॥ चरण नमावी
 ने वश राखुं, कोइक जोई टाशुं ॥ देण ॥ १ ॥ देखो हवे प्रद्योत नरेसर, कपट उपाय ते
 करशे ॥ डाल दशमी बीजे उडहासे, जिन वचने सुख वरशे ॥ देखो ॥ १ ॥

॥ दोहा. ॥ सत्ता समक्ष एकश दिने, कहे प्रद्योतन राय ॥ अन्नयकुमारने जे ग्रहे,
 तेहने करुं पसाय ॥ १ ॥ कोइ शूरो कोइ साहसी, कोइ बल बलनो जाण ॥ जे ग्रही अ

जगकुमारने, लावे ते सुप्रमाण ॥ १ ॥ सुणी कहे सामंत सवि, स्वामी ए नवि थाय ॥
 इंच नंच नागेंद्री, अजय उदयो नवि जाय ॥ ३ ॥ समुद्र तरंतां सोहलो, मृगपति अद्दण
 सुकाज ॥ व्याघ्रने वश करयो सुलज्ज, पिण ए दुर्लज्ज काज ॥ ४ ॥ पडहोदशोपण नगर
 में, ताम करावे राय ॥ अजयकुमार आणे जिके, ते लहे लाख पसाय ॥ ५ ॥ पडद उव्यो
 गणिका तुरत, राय लह्यो आदेश ॥ परिकर युत आवी प्रवल, मगधदेश सुविशेष ॥ ६ ॥

॥ दाल ११ मी. ॥ (वाह वाह वनायो वीज्जो. ए देशी.)

द्वे ते गणिका कपटी मली, करे कपट श्राविका वेशो रे ॥ मुखवल्हादिक जपग
 रणने, मुखे राखी दिसे उपदेशो रे ॥ तुमे देखो कपट गणिकातणां ॥ १ ॥ ए आंकणी. ॥
 एतो परिपाटी श्राविका तणी, सवि शीखी सुपरे राखी रे ॥ तेणे वेश-धव्या श्राविकात
 णा, वचनादिकथी मृड जापी रे ॥ तुणा १ ॥ केइ धवयुत केइ विववा श्रद, केइ वृद्ध अने
 केइ बाला रे ॥ जीवाजीवादिपद जणे, करे तस धावर रखवाला रे ॥ तुणा ३ ॥ इमवेश
 वनाची विगबणुं, राजगृही नगरीमें आवे रे ॥ उपवनमें भेरा आपीया, अति उन्नति अ
 धिकी फावे रे ॥ तुणा ४ ॥ प्रत्युये पुण्यादिक शही, थई जेली नगरीमां जावे रे ॥ फिरती
 फिरते देरसरें, सह आवकने मन जावे रे ॥ तुणा ५ ॥ एक दिन नृप-चैत्यालये, भावे

अति दुर्षं धरंती रे ॥ अन्तये दीठी जिनमंदिरे, विधिं सहित जिनाचर्त्ता करंती रे ॥ तु
 ॥६॥ देखी कहे अन्नयकुमर इशुं, तमे कोण ठो फिहां रहो बाई रे ॥ किय कारण आव्यां
 ओ इहां, किहां जाशो कहां चित लाई रे ॥ तुण ७ ॥ तव बोली विमासीने तिहां, एक वृ
 षा विथवा वेशे रे ॥ सुणो अन्नयजी अर्थ ए वयणनो, जिशो धाखो गुरु उपदेशे रे ॥
 तुमेण ॥ अमे चेतना लक्षणथी सही, बइए संसारी गुन्न प्राणी रे ॥ रहिये ठे एह सं
 सारमां, योनी चोराशी लख खाणी रे ॥ तुण ॥ ए ॥ कोइ निमित्त विशेषे साधवा, गुन्न
 फल लह्यो नर अवतारो रे ॥ तिहां साधन शिवपूर कारणे, आव्यां जिनमार्गमें सारो रे
 ॥ तुण ॥ १ ॥ सार्थप श्री वीरजिणंद मिळ्या, निन्नय शिवपुर पहेचाडे रे ॥ तिहां जावा
 नो सही मन रहे, पिण तनु आलस देखंडे रे ॥ तुण ॥ १ ॥ साधु मारग अति दोहिलो,
 सहेवा परिसहना कांटा रे ॥ पंच महाव्रत पार नपाडवो, ते वहेतां रहे पग आंटा रे ॥
 तुमेण ॥ १ ॥ आठ लंथी बल करी चालवो, तेवीश विषय वश करवा रे ॥ पचवीशने
 पासि न राखवा, पांच वैरी विश्वास न धरवा रे ॥ तुण ॥ ३ ॥ एक जिद्धाधिप विचे छष्ट ठे,
 तस सेवक ठे दोइ माठारे ॥ तेहने पिण यत्ने वर्जवा, जेह दुर्जय ठे अति काठारे ॥ तुण
 ॥ ४ ॥ इम उद्यमथी पंथे बालतां, चौइने तसे पहेचे रे ॥ ए मार्ग विषम सुसार्थपे, वे

खाड्यो मननी हंशे रे ॥ तुणाः १५ ॥ पिण ते पंयनो पूरो नवि पडे, तव सार्थप वली इम
 नाखे रे ॥ एक वाट सुगम वीजी अठे, शिवपुर जावा जे मन राखे रे ॥ तुणाः १६ ॥ अ
 पुत्रतनो जार अत्रप ग्रही, दानाविक रक्क संगे रे ॥ तप विनयादि अश्वे चढी, पहेचे
 शिवपुर मन रगे रे ॥ तुणाः १७ ॥ तव ते मारग मनमें वशो, ते पंथे अमे हवे चालुं रे ॥
 पंथवाहक साधुने पूठतां, शिव नगरने नजरे चालुं रे ॥ तुणाः १८ ॥ तिहां जइ वसवानुं म
 न अठे, सुखगाम जणी थिर जाणी रे ॥ इग्यारमी बीजा उद्धासनी, ढाल जिनविज
 ये वखाणी रे ॥ तुमेणाः १९ ॥

॥ दोहा. ॥ अन्नय कइ साहमिणी सुणो, तुमे कही ज वात ॥ जाव अकी सवि
 अनूचनी, ए तुमची अखियात ॥ १ ॥ इय अकी हवे दाखवो, नाम ठामने काम ॥ तव
 बोलि ते यत्तत्री, अन्नयने करी प्रणाम ॥ २ ॥ चंपाये प्राहिं रहुं, बडुं सदा जिन आण ॥
 सत्य वचन सुखथ कहुं, लहुं अद्यात्म प्रमाण ॥ ३ ॥ संसारिकना कार्यथी, धर्मकार्यशुं
 रंग ॥ राखुं तुं निथय अकी, अविहड रंग अजंग ॥ ४ ॥ देवार्चन गुरु सेवना, पात्रदान सुप
 वित्र ॥ तप जप काया शक्ति सम, कहुं अमे सुचरित्र ॥ ५ ॥ सिद्धचल यात्रा निमित्त,
 मन राखुं तुं प्रादिं ॥ चैत्यालय नमवा जशी, भाव्यां तुं अमे भाहिं ॥ ६ ॥ यतः ॥ आया

वृत्तम्. ॥ अनल जल चौर याचक, नृप खलं दाय्यादं संहतं याति ॥ धन्यो सो यस्य धनं,
जिनयात्रादौ शुभे लग्नं ॥ १ ॥ आवायर्थः—धतने अग्नि, पाणी, चोर, याचक, राजा, खल
लोको अने गोत्रीयो हरण करी जाय. ठे. माटे तेज पुरुषने धन्य ठेके, जेनुं धन जिन
यात्रादिक शुभ कार्यने विषे वपराय ठे. ॥ १ ॥

॥ ढाल १२ मी. ॥ (आठे लाल. ए देशी.)

वचन सुणी तेषीवार, हरख्यो अन्नयकुमार ॥ सोचागी लाल ॥ धन्य धन्य ए शु
६ आविका जी ॥ जीवाजीवादिक जाण, शिर वहे श्री जिन आण ॥ सोण ॥ जिनमतनी
ए शोभाविका जी ॥ १ ॥ एह तो उत्तम पात्र, एहनो निर्मल गात्र ॥ सोण ॥ यात्रा अइ सुज
ने नलीजी ॥ एहनी नक्ति नदार, कीजे विविध प्रकार ॥ सोण ॥ सारपणाथी वली वली
जी ॥ २ ॥ इम आलोची चित्त, बोड्यो अन्नय पवित्र ॥ सोण ॥ अम घर तुमे पावंन क
रो जी ॥ तव बोली ततखेव, धर्मबांधव तुम हेव ॥ सोण ॥ वचन अमाळं चित्त धरो जी
॥ ३ ॥ आज ठे तीर्थोपवास, सवि साहमिणीने खास ॥ सोण ॥ प्रोजन हठ किम कीजीए
जी ॥ सुणि चमक्यो चित्तमांहि, वचन अनोपम त्यांहि ॥ सोण ॥ लात्र प्रत्युषे लीजिये
जी ॥ ४ ॥ बीजे दिन सुप्रकार, नक्ति करे समुहार ॥ सोण ॥ अन्नयकुमार प्रोजन तणीजी

॥ तय ते कपटी वैश, अज्ञय थकी सुविशेष ॥सोण॥ प्रीति करे वचने घणी जी ॥ ५ ॥
 यतः ॥ अनुदुष्टवृत्तम् ॥ सुप्रयुक्तस्य वंजस्य, ब्रह्माप्यंतं न गच्छति ॥ कोलिको विशु रूपे
 ण, राजकन्यां निर्येवते ॥१॥ भावार्थः—सारी रीते करेला कपटना पारने, ब्रह्मा पण जा
 णी शकता नथी. जेम कोलीए विष्णुनु रूप करी राजकन्या जोगवी तेम. ॥१॥ आसंने
 उद्योहि, अज्ञयने मरे त्यांहि ॥सोण॥ अन्य विवस अवसर लहीजी ॥ पिरशां भोजन
 सार, व्यंजन विविध प्रकार ॥सोण॥ शालि दालि घृतथ्री सहीजी ॥६॥ तडुपरि गोरस
 ग्राम, चंन्हास्य इशे नाम ॥सोण॥ मदिराने मन मोदशुं जी ॥ जिमतां वेंत तिवार, घू
 र्णित नयन विकार ॥सोण॥ निचालहे आणंदशुं जी ॥७॥ घाली रथमें ताम, चालीने क
 रिने काम ॥सोण॥ गणिका राजगुड़ी थकी जी ॥ पोदती उज्जयिनी तेह, नृपने कंदे स
 सनेह ॥सोण॥ अज्ञय भाण्यो अमे वल थकी जी ॥७॥ सुणि प्रद्योतन राय, कीधो ला
 ख पसाय ॥सोण॥ गणिकाने अति सादरे जी ॥ अज्ञयकुमरने ताम, तेडावी तिए ग्राम
 ॥सोण॥ गणिका गृहथी आदरे जी ॥९॥ तव प्रद्योत नरेश, अज्ञय थकी सुविशेष ॥सोण॥
 शास्यादिक विधि बहु करे जी ॥ बुक्तियो जंनार, देखी अज्ञयकुमार ॥सोण॥ चंरुप्रद्यो
 त पिण हित धरे जी ॥१०॥ अज्ञय कंदे सुल राय, ठंणी अवर उपाय ॥सोण॥ धरम त

षो बल मुज कख्यो जी ॥ एह अघटतो काज, तुजने न लागी लाज ॥ सोण ॥ नीति वचन
 पिण नवि घख्यो जी ॥ ११ ॥ धिग धिग तुज अवतार, कूड कपट कोठार ॥ सोण ॥ जिनम
 तने मेलो कख्यो जी ॥ मुज मासीने गेह, रहेशुं धरी बहु नेह ॥ न नमुं तुजने वी फख्यो
 जी ॥ १२ ॥ इम कहींने सुविचार, मासीने आगार ॥ सोण ॥ अन्नय रहे आणंदमें जी ॥ ढाल
 ए वारमी खास, कही बीजे उब्हास ॥ सोण ॥ बुध जिनविजये मन गमे जी ॥ १३ ॥

॥ दोहा. ॥ एहवे राजगृह नगर, नृप श्रेणिक दरवार ॥ सेचन गज मदधी अयो,
 विकल विरूप तिवार ॥ १ ॥ आलानथंन उपाडने, पाडे गोपुर पोल ॥ मंदिर ढाहे मोजधी,
 चूरे हाटनी उल ॥ २ ॥ नाणावटी फडिया प्रमुख, देखि दिशो दिशि जाय ॥ विखेरी त
 स वस्तुने, वलि आगन ऊजाय ॥ ३ ॥ नार सहस अयमय निविड, त्रोडी सांकल ताम ॥
 पुरजनने सुंढायधी, ग्रहे किडाने काम ॥ सयल नयरने ततक्षणे, कीधो हाल कहोल ॥
 नगर लोक आकुल अयो, गजधी अतिहि अतोल ॥ ५ ॥

॥ ढाल १३ मी. ॥ (कोइ शूर सुचटने जांखो रे. ए देशी.)

गज बूटो देखीने नूपति, मनमां एम विमासे रे ॥ बुद्धिंत बलधी पिण शूरे, अ
 न्नय नही मुज पासे रे ॥ तुमे लावो रे, कोइ गयत्रर पकडी लावो रे ॥ कोइ वाय उपाय

वताकीरे ॥१॥ ए आंकली ॥ तेह अवंति मांहे विराजे, प्रयोतन गृह गाजे रे ॥ अवर न
 इण नगरे कोइ एहवो, जे ए कोइ संकट प्राजेरे ॥ तुण॥१॥ सुनट सकल सेना अइ चि
 हुं दिशि, पिण गज द्वात्र न आवेरे ॥ विलखा थइने वीर हुता ते, नासीनि घर जावेरे ॥
 तुमेण॥३॥ षडह वजाव्यो प्रगटपणे तव, जे गज वश्य करी लावेरे ॥ सोमश्री पुत्री ते
 परणे, ग्राम सहस्र बली पावेरे ॥ तुण॥४॥ षडह सुणीने धन्नकुमार तव, सुरमणिने पर
 ज्ञावेरे ॥ गजदमनी विद्याना बलथी, गज ततक्षण वश आवेरे ॥ तुण॥५॥ फेरवी गज
 आकुल करी तडपरि, ठलथी वेठो कुंजेरे ॥ मस्तकमें अंकुश देइ गजने, आण्यो आला
 न यंजेरे ॥ तुण॥६॥ बांध्यो गजने स्वल्प प्रयासे, सहको अचरिज निरखेरे ॥ नर रूपे
 ए देव ठे कोइक, इम मनमें सह परखेरे ॥ तुण॥७॥ नृप निरखी परखी तस गुणथी, नि
 ज वन्न प्रत्यय थापे रे ॥ सोमश्री पुत्रीनुं श्रीफल, धन्नाशाहने आपेरे ॥ तुण॥८॥ लगन
 थापीने तिलक वधावी, धवल मंगल देवरावे रे ॥ उडव अधिक करी धनाने, सोमश्री
 परणावेरे ॥ तुण॥ ९ ॥ गाम सहस्र दीधां मनगमतां, दीधा गज रथ बाजी रे ॥ श्रेणिक
 राज्ञाये मनमोदि, कीधा जमाइ राजी रे ॥ तुण॥ १० ॥ धन्ने पिण प्राणिगृहणने जेते, धन
 ध्यय बहुलो कीधो रे ॥ स्वजनादिक जन सवि संतोप्या, दान यांचकने दीधो रे ॥ तुण

॥११॥ जराःक्षीघ्रो जुगते जय वरस्यो, पूरव पुण्य संयोगे रे ॥ बे स्त्रीधी आसक्त रहे
 ज्जिम, चेतन बे उपयोगे रे ॥ तुण॥११॥ देव दोगुंदकनी परे विलसे, भोग संयोग सर्वाई
 रे ॥ तैरमी ढाले बीजे उडहासे, बुध जिनविजये गाई रे ॥ तुण॥११॥

॥ दोहा. ॥ धन्नाशाह प्रसंगधी, शालिन्नइ संबंध ॥ वर्षवशुं संक्षेपधी, सुशजो
 तेह प्रबंध ॥१॥ राजगुह पासे अडे, शालिन्नम सुविख्यात ॥ पशुपालिक तिहां कणे र
 हे, संगम केरो तात ॥ १ ॥ धन्ना तेहनी शुजमती, घरखी पुण्य पवित्र ॥ संगम सुत ठे
 तेहने, लघु वयधी सुचरित्र ॥ ३ ॥ रोग योगधी अन्यदा, धन्ना धव व्युत्पन्न ॥ लक्ष्मी
 पिण साथे गइ, कर्म योग निष्पन्न ॥ ४ ॥

॥ ढाल १४ मी. ॥ (देशी नशदलनी.)

तव धन्ना सुतने ग्रही, राजगृहीमें वास हो ॥ सुंदर ॥ वर्सने इत्यादिक धरे, करे ति
 हां कार्य अंभ्यास हो ॥ सुंदर ॥ पुण्यतशां फल सांजलो ॥ १ ॥ ए आंकशी ॥ पुण्य विना
 नवि सिद्धि हो ॥ सुंण ॥ पुण्य अधिक जगमें कह्यो, पुण्यथकी नव नीधि हो ॥ सुंण ॥ पुण ॥ १ ॥
 संगम चारे सामटां, वाबरुआं वन मांहि हो ॥ सुंण ॥ एक दिवस प्रायस तशो, नोजन

* पशुपालिक नामे गोवाल. † धन्ना नामे स्त्रीनो धणी मरण पास्यो. ‡ मजूरी करे ठे.

बंध त्प्राप्ति हो ॥सुं॥ पु०॥३॥ माताशुं हठ मांडने, मागे पायस ताम हो ॥सुं॥ आंखे
 झांसु नांखती, माता बोलै आम हो ॥सुं॥ पु०॥४॥ न मिले पूरा कूशका, भोजन बेला
 ज्ञात हो ॥सुं॥ तैलादिक पिषा बोहिलो, तो पायसनी शी तात हो ॥सुं॥ पु०॥५॥ रुदन
 करे बालक हठे, माता तब दुःख दीन हो ॥सुं॥ देखी पाडोशणो मीली, पूठे ते सुप्रयी
 न हो ॥सुं॥ पु०॥६॥ वात कही सवि बालनी, मागे ए परमान्न हो ॥सुं॥ ते बोलीयो
 हत्ती ततकले, एहमां शूठे अज्ञान हो ॥सुं॥ पु०॥७॥ दूय खांड घृत शालिने, आणी
 धे एकैक हो ॥सुं॥ सर्व संजोगे नीपनी, खीर ते अति ही सुवेक हो ॥सुं॥ पु०॥८॥
 बालक तेडी हर्षणुं, पिरसे ते परमान्न हो ॥सुं॥ पवन अक्री शीतिल करे, राखी निश्चय
 ध्यान हो ॥सुं॥ पु०॥९॥ एहवे मुनिवर गौचरी, फिरता आहारने काज हो ॥सुं॥ मा
 सखमणने पारणे. तिहां पहोल्या सुखसाज हो ॥सुं॥ पु०॥१०॥ देखी मुनिवरने तिहां,
 जागी दाननी बुद्धि हो ॥सुं॥ समकित दायोपसम भकी, आत्म अयो सन्निगुह हो ॥
 सुं॥ पु०॥११॥ दान दियो ऊत्त धरी, न करी विमातण कोय हो ॥सुं॥ कोइक जाय
 विशेषयी, भद्व संसारी होय हो ॥सुं॥ पु०॥१२॥ मुनिवर बहोरी संचस्था, संगम चाटे

भाल हो ॥सुंण॥ देखी माता चिंतवे, भूख्यो ठे हजी बाल हो ॥सुंण॥ पुण॥? ३॥ पिरशी
 शेष हंती तिके, खाधी खीर सवाद हो ॥सुंण॥ भूख्यो बालक मुज रहे, इम धरे मन वि
 षवाद हो ॥सुंण॥ पुण॥? ४॥ माता आगल सुनितणी, वात न कीधी कांय हो ॥सुंण॥ रा
 त्री समय उदरे व्यथा, अन्न अजीर्ण ते थाय हो ॥सुंण॥ पुण॥? ५॥ यतः॥ अनुष्ठुब्वत्तम्. ॥
 अजीर्णतपसःक्रोधो, ज्ञानाजीर्णमहंकृतिः ॥ परतापिक्रियाजीर्ण, मन्नाजीर्णं विषूचिका
 ॥१॥ भावार्थः—तपनुं अजीर्णं क्रोध, ज्ञाननुं अजीर्णं अहंकार, क्रियानुं अजीर्णं परने
 परिताप उपजाववो तेमज अन्ननुं अजीर्णं उलटी अने ऊडो जाणवुं. ॥१॥ ते पीडाथी
 मृत्युने, पासे संगम बाल हो ॥सुंण॥ बीजे उडहासे जिन कहे, चौदमी ढाल रसाल
 हो ॥सुंण॥ पुण॥? ६॥

॥ दोहा. ॥ ते राजगृहमें वसे, गौत्रइ शैठ गुणवंत ॥ धनथी धनद समान थे,
 न्याय नीति पुण्यवंत ॥१॥ भ्रश भ्रामिनी तेहनी, रूप कला आगार ॥ राधा कृष्णतथी
 परे, विलसे विविध प्रकार ॥२॥ हवे ते संगम जीव चवी, भ्रश उर उत्पन्न ॥ सुपन मां
 हि तव शालिनो, दीगो क्षेत्र निष्पन्न ॥३॥ फल पूब्यो भरतारने, सुणी शैठ सुविलास॥
 पुत्र रत्न होशे जलो, कुलमंरुन सुप्रकाश ॥४॥ इंपति दिन दिन अति मुदित, रहे सदा सु

प्रसन्न ॥ पूर्ण मास पढ़ते थके, जनम्यो पुत्र रत्न ॥१॥

॥ डाल १॥ मी. ॥ (रामचंद्र के वागमें, चांपो मोरी रह्योरी. ए देशी.)

प्रसन्न्यो पुत्र सुरंग, न्नत्र हर्ष धरेरी ॥ शेर सुणी तव वात, उडव अधिक करेरी
॥१॥ पंच शब्द वाजिंत्र, घर आंगणे वाजेरा ॥ जेरी भूंगल धन घोर, अंतर लागि गाले
री ॥२॥ सोहव गावे गीत, ये आशीष घणोरी ॥ तुं कुलमंफन पुत्र, मुखथी एम नणे
री ॥३॥ यान्त्रकने दिये दान, बंठित तेइ तणेरी ॥ सयण संवंधीने मान, विविध प्रकारे
घणोरी ॥४॥ पूजा परिघल चित्त, जिनमंदिर निरचेरी ॥ कुलेदेव्याने ताम, चंदनथी च
रचेरी ॥५॥ दश उठामण एम, कुल मर्याद क्रियोरी ॥ पोखी नात पवित्र, नाम विचा
री दियोरी ॥६॥ सुपनमें शालिनो क्षेत्र, दीगो अति सुखकारी ॥ तिले करी शालिन्द्र कु
मार, नाम दियो निरथारी ॥७॥ रूपे अमर कुमार, के रति पति सम कहीए ॥ इंडतले
अनुहार, अवर न इण युग लहीए ॥८॥ सुंदर वाणी सार, गज गतिनी परे चाले ॥ उम
क ठमक ठवे पाय, मात पिता मन महाले ॥९॥ अष्टप प्रयासे ताम, विद्याभ्यास करावे ॥
पठित संचारे जेम, तिम तस सखली आवे ॥१०॥ योवन आव्यो जाम, ताम बचीइ
कुमारी ॥ शुभ्र बेला शुभ्र लग्न, परणावे सुविचाद्री ॥ ११ ॥ तेहशुं विविध प्रकार, पंच

विषय सुख विलसे ॥ जाणे न रात ने दीह, चरण धरणि नही फरसे ॥११॥ अहमिंइ
नो अवतारं, ते शालिन्नइ सोजागी ॥ बीजे उड्हासे ढाल, पंढरमी गुणरागी ॥१३॥

॥ दोहा. ॥ एहवे राजगृह नगर, अन्नय मंत्रि विण ताम ॥ न्यायादिक व्यवहार
विण, थयुं अठे निष्काम ॥१॥ निशा चंड विण जेहवी, इंत रहित गजराज ॥ कुमुद वि
ना जिम सर सही, (कुसुम गंध सर जल विना,) चरण हीण रुषिराज ॥१॥ तिम मंत्री
विण नृप सजा, दीसे दिन दिन ॥ अन्नयकुमरने अनुदिने, संजारे सहु लीन ॥३॥
धूर्त्त एक एहवे तिहां, एकाकी अविवेक ॥ लोन्नवेशे धनवतने, धूते ए तस टेक ॥ ४ ॥
वेश धरी सुपरे सुन्नग, सार्थवाहनो ताम ॥ गौजइ शेठ तणे घरे, आव्यो पूबी नाम ॥५॥

॥ ढाल १६ मी. ॥ (मेतारज मुनिवर, धन धन तुम अवतार. ए देशी.)

धूतारो तस धूतवा जी, आव्यो गौन्नइ आगार ॥ आसन बेसण आपियो जी, की
धी घणी मनुहार ॥ सोजागी साजन, देखो धूर्त्त विचार ॥१॥ ए आंकणी ॥ कुशलाला
प पूठे तिहां जी, गौन्नइ तडक शेठ ॥ *एकाकी जी जी करे जी, राखी नीची इवासो ॥
॥१॥ वलतो धूर्त्त कहे सुणो जी, शेठजी सेवक वात ॥ चंपाये आव्या हुता जी, तुमे व्य
वसाये विख्यात ॥सोण॥३॥ लक्ष दिनार लीया तिहां जी, मै तुम पासे सुपात्र ॥ नयन

एक दीधुं अठे जी, देखो ते मुज गात्र ॥सोण॥ ४॥ ते धन लक लेई घणो जी, कीचो मं
 न्यगनाय ॥ वृत्ति थई तेहनी घणी जी, पूरव पुण्य पसाय ॥सोण॥ ५॥ व्याज युक्त धन
 लेयने जी, यो मुज लोचन तेह ॥ डील द्वे करवी नही जी, राखो पूरव नेह ॥सोण॥ ६॥
 कहे गौत्रइ सुणो शेठजी जी, ए शी खोटी रे तात ॥ चंपा पिण दीठी नश्री जी, लोचन
 नी डी वात ॥सोण॥ ७॥ आज लंगे नवि सांभळ्यो जी, लोचननो व्यवहार ॥ खोटी वा
 त प्रकाशतां जी, किम रदेशे इतवार ॥सोण॥ ८॥ तव काणो आकोशथ्री जी, बोले वड
 वड वेण ॥ कोडिअकी बहु मूळ्य ठे जी, निर्मल माहरं नेण ॥सोण॥ ९॥ रूहुं देखी राख
 शो जी, शुं मुज नेत्र सुजाण ॥ आखर हुं गोहुं नही जी, जो मुज पिंममें प्राण ॥सोण॥
 १०॥ गौत्रइशेठने ग्रही तदा जी, लेई गयो दरवार ॥ श्रेणिक नृप संशय पळ्यो जी, निसुणी
 वात विचार ॥सोण॥ ११॥ अन्नयकुमरने अति घणुं जी, संभारे सहु ताम ॥ जो एक सूर्य
 उदय हुये जी, तो किशुं दीपक काम ॥सोण॥ १२॥ न्याय न थाये कोइश्री जी, तव श्रेणि
 क भूपाज ॥ पुरमें पडह वजावियो जी, सांभलजो चउसाल ॥सोण॥ १३॥ काणे जे ऊ
 गडो रच्यो जी, तेहनो जे करे न्याय ॥ गौत्रइशेठ पुत्री तलो जी, पाणिग्रहण तरु प्राय

॥सोणा॥१४॥ पडह सुणी धन्ने ठव्यो जी, आव्यो नृप दरबार ॥ तैडावी काणा प्रते जी,
 कहे इम वात विचार ॥सोणा॥१५॥ गौनइशेठना घर तणा जी, हुं अमे लेखक धीर ॥
 वात सकल अम इफतरे जी, लिखि राखी ठे वीर ॥सोणा॥१६॥ शेठने खबर न को पडे
 जी, देण लेण धन वात ॥ नासु ठासु एहनुं जी, जाणुं हुं अमे त्रात ॥सोणा॥१७॥ पूढ्यो
 शेठे अम नणी जी, नयन तणो व्यवसाय ॥ संनाली अमे जोईयुं जी, तव पाम्या सवि
 गाय ॥सोणा॥१८॥ लाख दोय धन अम प्रते जी, आपो प्रथम एक वार ॥ तव धूतारे तत
 क्खणे जी, कीधो इव्य तैयार ॥सोणा॥१९॥ कहे धन्नो अम शेठने जी, धरमें नेत्र अनेक ॥
 मक्यां ठे ते बहु जणे जी, धन कारण सुविवेक ॥सोणा॥२०॥ ते कारण तुमे तुम तणो
 जी, द्यो लोचन सुप्रकार ॥ जोइने ते साखिखो जी, बीजे नेत्र ईवार ॥सोणा॥२१॥ सुणि
 काणो विलखो अयो जी, नेत्र ते केम कढाय ॥ लेहणाथी देहणो अयो जी, मूकी धन ते
 जाय ॥सोणा॥२२॥ नृपति मन हरखित अयो जी, बुद्धि अकी ततखेव ॥ पकडी धूतारो
 तदा जी, काढ्यो वंशथी हेव ॥सोणा॥२३॥ जयलक्ष्मी धन्ने वरी जी, पूरव पुण्य पसाय ॥
 बीजे बड्ढहासे सोलमी जी, ढाल ए जिन सुखदाय ॥सोणा॥२४॥

॥ दोहा. ॥ गौनइ शेठनो नय गयो, हृदय थयो उभाह ॥ धन्नो मतिवाहण तखो,

चिन्ता समुच्च अथाह ॥१॥ पुत्रि सुभ्रजनां तिहां, धन्नाशाहने साय ॥ विवाहनो निश्चय
करे, आपी बहुली आय ॥२॥ लगन लीयां पूठी डुरस, वेहेंच्यां फोफल पान ॥ नात जा
तेने पोखवा, परिघल क्रियां पकवान ॥३॥ मंनप महोटा मांडिया, विहुं ठामे बहु ज्ञानि ॥
सरिखे सरिला योगथ्री, युगते मली युगति ॥४॥ परण्या ते प्रमुदित पणे, जिम सीता
रगुनंद ॥ इन मान दीयां डुरस, पोख्यो परिजन वृंद ॥५॥ नारी त्रिणयथकी तिहां, वि
लसै पूरण जोग ॥ जिम मुनिवर लीणो रहे, गुप्ति त्रय संयोग ॥६॥ राजा पण माने व
णुं, देखी बुद्धि अथाह ॥ शैव सेनापति सर्वने, वद्वन धनोशाह ॥७॥

॥ दाल १७ मी. ॥ (धणराडोलानी देशी.)

एद्वेवेवीर समोसखा रे, परिवृत बहु परिवार ॥ गुणना पूरा ॥ गौतम प्रमुख गुणे
प्रख्या रे, चौद सहस अणगर ॥ गुणना पूरा ॥ आवो आवो रे, ए जिनपति पाले ॥
जावो जावो रे, जक्ति सुविजासे ॥ एहनी सेवाथी सुख धाय, पुण्यना पूरा ॥१॥ ए आं
कणी ॥ चंदनवालादिक तिहां रे, साधवी सहस बत्रीश ॥ गुण ॥ अतिशयथ्री अति उंपता
रे, जगगुरु श्री लगदीश ॥ गुण ॥ आण ॥३॥ श्रेणिक वंदन चालिया रे, चतुरंगी सेना साथ
॥ गुण ॥ पंचानिगम ते साचवी रे, नेट्या त्रिभुवन नाथ ॥ गुण ॥ आण ॥३॥ गौतम शैव सुणी

तद्दारे, जिन आगमन अनूप ॥ गुण ॥ ज्ञाव धरी वंदन तद्दारे, पहोत्यो ते जिम नूप ॥ गुण
 ॥ आणा ॥ धा ॥ वारे पर्षद तिहां मली रे, इंद्रादिक सुर कोडि ॥ गुण ॥ देशना द्ये तव वीरजी
 रे, वचनामृत रस जोडि ॥ गुण ॥ आणा ॥ ५ ॥ अनित्यपणो संसारमें रे, धन यौवननो जाण
 ॥ गुण ॥ समण परुण विध्वंसणा रे, तनु लक्ष्य निरवाण ॥ गुण ॥ आणा ॥ ६ ॥ जाणी धर्म क
 रे जिके रे, ते लहे शिवसुख गाम ॥ गुण ॥ धर्म विना ए जीवने रे, कोय न आवे काम ॥
 गुण ॥ आणा ॥ ७ ॥ जीवतणी हिंसा तजो रे, अलिक वचन परिहार ॥ गुण ॥ चोरी न कीजे
 सुपनमें रे, मैथुन दूर निवार ॥ गुण ॥ आणा ॥ ८ ॥ परिग्रहनी ममता तजो रे, निशि नोजन
 करो दूर ॥ गुण ॥ पंच महाव्रत पालते रे, लहिये सुजस सनूर ॥ गुण ॥ आणा ॥ ९ ॥ गौचड
 शेठ ते देशना रे, सुणि बूज्यो ततकाल ॥ गुण ॥ नज्ञाने पूढी तद्दारे, ले चारित्र विशाल
 ॥ गुण ॥ आणा ॥ १० ॥ सिंहपरे व्रत आदरे रे, पाले मृगपति जेम ॥ गुण ॥ अणसण आराधन
 करी रे, सुर पद पाम्यो खेम ॥ गुण ॥ आणा ॥ ११ ॥ प्रथम सुरालये ऊपन्यो रे, रुद्धे इंद्र स
 मान ॥ गुण ॥ सागर दोयने आउखे रे, भोगेवे भोग प्रधान ॥ गुण ॥ आणा ॥ १२ ॥ पुत्र स्नेह
 प्रेखो अको रे, गौत्रइ शेठनो जीव ॥ गुण ॥ पेटी नवाणुं प्रतिदिने रे, प्रगट करे ते अतीव
 ॥ गुण ॥ आणा ॥ १३ ॥ नृषण वस्त्र भोजन तणी रे, वरवधुने परिभोग ॥ गुण ॥ पूरे वंबित नि

त नवा रे, पूरव स्नेह संयोग ॥ गुणाऽऽणा १४ ॥ शालिकुमर मुख भोगवे रे, मन चिंतित
 मनुहार ॥ गुणा पात्र दान फल देखजो रे, हृदय धकी नर नार ॥ गुणाऽऽण ॥ १५ ॥ यतः
 ॥ अनुदुवृत्तम् ॥ व्याजेस्याद्द्विगुणं विना, व्यवसायेचतुर्गुणं ॥ कुर्यात्ततगुणैर्प्रोक्तं, पात्रे
 शंतगुणैर्नैव ॥ १ ॥ भावार्थः—धन जे ते, व्याजे आपवाची वमणुं, व्यापार करवाची चो
 गणुं, खेती करवाची सोगणुं अने सुपात्रने विषे देवाची अनंतगणुं थाय ठे. ॥ १ ॥ बीजो
 उद्धास पूरो थयो रे, सत्तर ढाले सुरंग ॥ गुणा दान कळपडुम रासनो रे, सुणतां अति उ
 ठरंग ॥ गुणाऽऽणा १६ ॥ सवि पंक्तिमां परगडो रे, कोविद तिलक समान ॥ गुणा गजवि
 जय गुरु नामधी रे, लहिये मुख बहुमान ॥ गुणाऽऽणा १७ ॥ तसु विनयी विद्या नीलो रे,
 हितविजय तुधराय ॥ गुण ॥ जेहना चरण प्रसावधी रे, दिन दिन सुजस सवाय ॥ गुण ॥
 आणा १८ ॥ तस सेवा करतां लहो रे, अनुपम ए अधिकार ॥ गुणा जिनविजय कहे पुण्य
 थी रे, नित्य नित्य जय जयकार ॥ गुणाऽऽणा १९ ॥

इति श्रीधनशालिचरित्रे प्राकृतप्रबंधे दानकळपडुमाख्ये द्वितीयशाखारूपव्यशब्दतुल्यपरा
 क्रमवर्णनेनाम द्वितीयोद्धासः समाप्तम् ॥ अस्मिन्नोद्धासे ॥ ढाल ? ७ ॥

॥ दोहा. ॥ श्री जिनगुरु प्रणमं मुदा, धर्मध्यान धरिं स्वास ॥ दान कल्पदुम रा
सने, अथ त्रीजो ब्रह्मास ॥१॥ वर्षवशुं मन मोदथी, श्रुतदेवी सुपसाय ॥ श्रोता जन
सवि सांजलो, अति उत्तम सुखदाय ॥२॥ शाह धनो सुखमें रहे, सप्तभूमि आवास ॥
नाटक विविध प्रकारथी, निरखे चित्त ब्रह्मास ॥३॥ एहवे एक दिन आवता, दीठा पितृ
स्वरूप ॥ अग्रज त्रिणये पिय तिहां, कांतायुत विडूप ॥४॥ वल्ल जीर्ण वसुथी रहित,
पंशु विलिप्त शरीर ॥ दंरु खंरु करमें धरी, आतुरवंत अधीर ॥५॥ चाले पग पग पूबता,
राजगृहनी पोल ॥ देखीने चित चितवे, ए शी दीसे डल ॥६॥ उज्जयनीसां एहने, मू
क्या ठे शुन्न काम ॥ एहवी अवस्था किम थइ, एहतो वडो विराम ॥७॥ इम चिंती ऊ
ठयो तुरत, महोल थकी मनरंग ॥ आव्यो अति ब्रतावलो, मात तातने संग ॥८॥ तात
चरण सुपरे नमी, सिढ्यो मन हरखे मात ॥ बांधव भोजाई प्रते, प्रणमी पूठे वात ॥९॥

॥ ढाल ? ली. ॥ (देखी चोपाइनी.)

पूठे धन्नो विनये वात, कहो तात एशो अवदात ॥ में मुक्या हता सुख आवास,
एह अवस्था किम हुए तास ॥१॥ तव कहे तात सुशोरे पूत्र, तुम जातां विषवथो घर
सूत्र ॥ लहमी सवि तुम साथे थइ, मंदिर शोभा पिय तिम गइ ॥२॥ राजानो उपन्यो

देवमान, धन लीधा तिले सकल निदान ॥ धरतीनो धन धरती गड्यो, शेष रह्यो ते अ
 नले चड्यो ॥३॥ शोयाशेष अही गृह सार, उजायनीथी करिय जुहार ॥ चाड्या पंथे अड
 आकला, मारगमांही तस्कर मड्या ॥४॥ बूटी लीधा अमने तिहां, फिरता फिरता आ
 ड्या इहां ॥ करिये पेट पूरण अति डुःखे, तुज विरहे नवि वेग सुखे ॥५॥ तुज मिलवे
 देवे श्रयो संतोष, पाण्या हवे अमे पूरण पोष ॥ तुं अम कुल मंगल कुल दीव, कुल आ
 धार घणो तुं जीव ॥६॥ तव धनो मन चिते इशो, जाग्योदय एहनो नहि तिशो ॥ प्रच
 न पणे राखी तिले गाय, वस्त्राभरण शकी सुखदाय ॥७॥ करि शोजा सहनी तिणिवार,
 पडि पहोत्यो ते निज आगार ॥ तेडाव्या तिहां व्यवहारिया, मान देइने पासे लीया ॥८॥
 कुसुमपाल गौन्नइ सुन्नइ, देवपाल महिपाल देवेइ ॥ अमिततेज महितेज दयाल, पु
 ण्यपाल जिनपाल कपाल ॥९॥ धनपाल धर्मपाल मयाल, भूधर श्रीधर ने श्रीपाल ॥
 आसपाल गुणपाल पवित्र, खेमकरण जयकरण सुचित ॥१०॥ देवकरण कुंभकरण सु
 वास, विजयकरण गजकरण गोदास ॥ जिनरहित जिनदत्त जयंत, देवदत्त ऊपिदत्त
 महंत ॥११॥ सागरचंद्र शिवचंद्र मुकुंद, गोविंद मायव धवल आणंद ॥ शंख सुनंद सु
 जश जयशेन, वीरसेन मन्सेन देवसेन ॥१२॥ इत्यादिक आख्या शुभ रीत, धनाडाइ

मिड्या एक चित्त ॥ करि ह्यं रथ क्षिणगारी किया, व्यवहारी सवि साथे खिया ॥१३॥
 वाजंते वाजिंत्र सुचंग, चाड्या तात तेडण मनरंग ॥ आवी तातने लाग्या पाय, सह
 व्यवहारी मिड्या तिए ठांघ ॥१४॥ कुशलालाप पूढे अन्योन्य, मात पिता हरख्या बहु
 मन्न ॥ मात तात सुखासने सार, बांधवने दिया तरल तुखार ॥१५॥ नोजाइ रथे बेसा
 रियां, आदर मान विशेषे दियां ॥ लेडि आव्या निज आवास, सह साजननी पूगी आश
 ॥१६॥ याचक जन्ने संतोषिया, परिघल पकवाने पोषिया ॥ त्रीजे उड्हासे पहेली ढाल,
 जिन केहे पुण्ये मंगल माल ॥१७॥

॥ दोहा. ॥ धने पिय धीरज धरी, निज बांधवने ताम ॥ आप्यां मन उत्कर्षशी,
 एक एक शत गाम ॥१॥ वखानरण गृहादिके, पोख्या घणुं अतीब ॥ तो पिए गुण लेवे
 नही, अवगुण वेदे सदैव ॥२॥ यतः ॥ अनुष्ठुबुत्तम्. ॥ खलःसक्रियमाणोपि, ददाति क
 लहं सतां ॥ दुग्धधौतोपि किं याति, वायसः कलहंसतां ॥१॥ भावार्थः—सत्कार करातो ए
 वो पण खल पुरुष जे ते, कलहंसताने आपे ठे एटले उद्वेग करावे ठे. अर्थात् ते कडि पण
 पोतानुं खलपणुं बोडतो नशी. जेम कागडाने दूध वडे धोयो होय, तो पण शुं ते राजहंस
 नी पेठे धोवो थाय? नज आय. ॥१॥ अणिस्र अदेखाई धरे, ते त्रिण्ये शठ सींह ॥ शाम

चयन प्रदनिशि रहे, नाग्यहीनमां लीह ॥३॥ ते देखी धनशाहजी, चित्ते चित्त विशेष ॥
 एहने हितकारण ज्ञानी, हुं जाइश परदेश ॥४॥ यतः ॥ आर्यावृत्तम् ॥ विसत्रिविहचरि
 यं, जाणिऊसरसऊणडुऊणविसेसो ॥ अप्पाणं च किलऊर, हिंऊर तेण पुहविए ॥५॥
 आचार्यः—परदेश जवाधी विविध प्रकारनां चरित्र देखवामां आवे ठे, सऊन अने डुऊं
 नमां शुं फेरठे ? ते जाणवामां आवे ठे अने आत्मानी कलना थाय ठे, ते मोटे पृथ्वीमां
 चालवुं जोइए ॥६॥ ए लहमी ए गृह प्रमुख, विलसो एइ निश्चित ॥ सुख संयोग लहि
 शुं अमे, जो देगे जगवंत ॥७॥ इम निश्चय करि चित्तधी, गृहि चिंतामणी पास ॥ एका
 की दृढ मन करी, चालल कियो प्रयास ॥८॥ राजाने पृथयो नहीं, त्रिण्ये खीने तेम ॥
 असुर प्रमुख सवि सयणने, नाग कंचुकी जेम ॥९॥ ठांडीने चाडयो चतुर, यामिनिये
 तिए ताज ॥ देश विदेश विलोकतो, नवनव कौतुक ख्याल ॥१०॥

॥ इाल ए जी. ॥ (मगधदेशको राज राजेसर. ए देशी.)

धनोशाह ते पुण्य प्रयोगे, चिंतामणी संयोगे ॥ चित्तित कार्य सकल सायंतो, सा
 ग्यवजे सुख जोगेरे ॥ नवियां, पुण्यतणां फल भेखो ॥ पुण्ये सयल पदारथ सीके, पुण्य
 प्रवंत जग देखोरे ॥ जण ॥ पुण्य ॥ ए आंकली ॥ बडेदेशे कोगंजी नगरी, अनुक्रमे तिहां

कशे आवे ॥ स्थानक सुंदर लेई धनथी, सुखमय काल गमावे रे ॥३॥ पुण॥१॥ राय सं
 तानिक तिहांनो राजा, सहस्रानिकनो बेटो ॥ बेत्रीश राज्यगुणे करी पुरो, त्यागी मांस
 आखेटो रे ॥३॥ पुण॥३॥ यतः ॥ आर्यावृत्तम् ॥ शवदमनाशठपालण-माश्रितजरणं च
 राज्यचिन्हानि ॥ अन्निषेकपट्टबंधो, वालव्यजनं व्रणस्यापि ॥२॥ त्रावार्थः-शवने इमवुं,
 अशवनुं पालण करवुं अने आश्रितजनो एटले शरणे आवेलानुं जरण पोषण करवुं, एज
 जरण राज्यचिन्ह ठे, परंतु शवदमनादिक विना राज्यान्निषेक, मस्तके पट्टबंध अने बने
 बाजु चामरोनुं विजावुं, ते गूमडा तुड्य ठे अर्थात् गूमडाने जेम पाणीनो अन्निषेक,
 पाटो अने मांखीनुं नडाडवुं आय ठे, तेम पूर्वोक्त राज्यचिन्ह विना अन्निषेकादिक पण
 गूमडा तुड्य जाणवा. ॥१॥ जेहनी जगिनी जयंती जाणी, सतियो मांहे गवाणी ॥ बा
 लकुमारी प्रथम शय्यातरी, वीरे जेह वखाणी रे ॥३॥ पुण॥४॥ राय संतानिकनी पट
 राणी, मृगावती सपराणी ॥ चेडा महाराजानी पुत्री, चावी जगमां जाणी रे ॥३॥
 पुण॥५॥ पुत्र उदायन नामे शूरो, सकल कलाये पुरो ॥ वीणा नाद विशेषे वजावे, गां
 धर्विक गुणे पुरो रे ॥३॥ पुण॥६॥ सौभाग्यमंजरी नृपनी बेटी, रूपे रतिनी जोडी ॥
 लक्ष्मीनी परे लक्षणवंती, कोय न दीसे खोडी रे ॥३॥ पुण॥७॥ राय संतानिकने जंभा

रे, सहस्रकिरण मणि सोद्वे ॥ पेढी परंपर सह को पूजे, दर्शन करी विल मोहे रे ॥३०॥
 पु०॥५॥ पिण तेहनो गुण कोय न जाले, तव नृपे परिक्रक तेढ्या ॥ मान देखने मणि गु
 ण पूते, पिण कोइ न कहे तेढ्या रे ॥३१॥ पु०॥६॥ तव नृपे नगरमां पडह वजायो, सुण
 जो सकल लोकाइ ॥ जे ए मणिनो गुण देखाडे, प्रथय प्रगट वनाइ रे ॥३२॥ पु०॥७॥
 तेहने नृप ऋग्यो दिये हरखे, पांचशे गाम उदार ॥ पांचशे हाथी पांचशे घोडा, बलि छे
 प्रवर प्रकार रे ॥३३॥ पु०॥८॥ वेढी गुणती जे ठे पेढी, सौभाग्यमंजरी सारी ॥ पर
 खावे नृप तेहने रंगे, मणि परिक्रक जे विचारी रे ॥३४॥ पु०॥९॥ सांभ्रजी पडह ठव्यो
 ते जाली, धन्नाशाहे ताम ॥ राजसनामां आव्यो वेगे, नृपने करी प्रणाम रे ॥३५॥ पु०
 ॥३६॥ देखी नृप लघु वयथी बोले, रे बड्ड! तूं हजी नहानो ॥ रत्न परिका करवा समर
 थ, कोइ न परगट ठानो रे ॥३७॥ पु०॥१०॥ बुद्धि विशेष जो होये तुमची, तो ए मणि
 गुण दाखो ॥ ढाल ए बीजी त्रीजे उड्ढासे, जिन कहे मन दृढ राखो रे ॥३८॥ पु०॥११॥

॥ दोहा. ॥ कहे धनशाह नृपति सुणो, रत्न परिका वात ॥ शास्त्र सकल जोयां भ्र
 ठे, गुरु समीप सुविख्यात ॥१॥ हीरो मोती निलमणी, माणिक्य मरकत संत्र ॥ मूल
 रत्नना भेद ए, शास्त्रे बोळ्या पंच ॥३॥ पुंकराज वैमूर्य तिम; बिडुमने गोमेद ॥ ए चार

उपरलना, दाख्या ठे शुभ्र भेद ॥३॥ ए नवं रत्ने आश्रया, नवं ग्रह ठे निरधार ॥ फल
 पिय देखोडे तुरत, श्रेष्ठ नेष्ट तिखि वार ॥४॥ पद्मराग रवि ? मौक्तिक शशी, ९ विद्रुम
 नौम ३ विख्यात ॥ बुध मरकत ४ ऋगु वजू ५ तिम, पुष्कराज गुरु ६ जात ॥५॥ इन्द्र
 नील शनिनो ७ कर्धो, राहु गोमेद ८ गणिक ॥ केतु वैश्रूय ते लसणियो ए, नव विध
 एह नगणिक ॥६॥ स्फटिक रत्न चिहुं भेदधी, सूर्यकांत ? शशिकांत ९ ॥ हंसगर्भ ३ ज
 लकांत ४ तिम, गुण निष्पन्न एकांत ॥७॥ साठ भेद ठे रत्ना, रत्नपरिका मांह ॥ गुण
 अथगुण पिय तेहना, दाख्या ठे सोढाह ॥७॥

॥ ढाल ३ जी. ॥ (काज सीध्यां सकल हवे सार. ए देशी.)

पीरोजा अवर प्रकार, नीज बांयावंत नुदार ॥ पीत रक्त प्रजा पिय होवे, शाम
 रंग ते सवि विष खोवे ॥१॥ ए चारे पीरोजा जाते, गुण एहना नव नव जाते ॥ पाराप
 त म्रीवा रंगे, मणि सिंदूर वर्ण अन्नंगे ॥२॥ रेखायुत अवर प्रकार, मणि भेद अनेक वि
 चार ॥ हवे चिंतामणिना भेद. निसुणो कहुं टाली खेद ॥३॥ हीरानी कांति समान, जा
 सूर अति देदिप्यमान ॥ रेखा त्रिण्ये कपी युक्त, मणि दोष थको विप्रमुक्त ॥४॥ षटकोण
 जलोपर तरतो, सवाटांक प्रमाणे धरतो ॥ ते चिंतामणि इम कहीए, सेव्यापी सवि

मुख लहिये ॥५॥ रति उपरलो जेह रत्न, तेहनां कीजे बहु यत्न ॥ रत्नाकरनो निष्पन्न, स्वा
 न्नाधिक घाट संपन्न ॥६॥ तेह रत्न सकल फल आपे, खंफित दुःख स्थानके थापे ॥ हवे
 मौक्तिक श्राव प्रकारे, उत्पत्ति कही अनुसारे ॥७॥ वीषोदर १ गजने शीश २, मद्य ३ शं
 ख ४ वराह ५ जगीश ॥ वंशमूल ६ मंत्रूकने ७ नाग ८, ए श्राव स्थानक शुभ्र लाग ॥८॥
 मणिरत्न तणा बहु भेद, दाख्या शाल तजीने खेद ॥ तुम मणि ए ठे बहु मूढ्य, चिंताम
 णी रत्नने तुढ्य ॥९॥ एह मणिने राखी लंग, करे युद्ध ते होय भ्रमंग ॥ एह जेहने गृहे
 पूजाये, इति सात तिहांथी जाये ॥१०॥ भ्रूत प्रेतादिक साक्षात, जे कोप्या करे उत्पात
 ॥ ते पिण एह रत्न प्रनाये, शुभ्र शांति होवे वडवावे ॥११॥ ज्वर वमन शूजादिक रोग,
 ते ए मणिने संयोग ॥ सवि कष्ट ते दूरे आवे, जिम रवि तेजे तम जावे ॥१२॥ एहनो प्र
 त्यय तुमे देखो, सुविशेष थकी तुमे पैखो ॥ महोदो एक थाल मंगावो, शुभ्र शालि क
 लेखी जरावो ॥१३॥ मध्यस्थाने ए मणि मूको, पठे निरखंतां मत चूको ॥ कोइ पंखी
 जात न खाशे, तो ए मणि परिहा थशे ॥१४॥ राजाये ततक्षण कीधो, कोइ पंखीये
 कश नवि लीधो ॥ मणि लीधो आजधो जाम, कण खाया पंखीए ताम ॥१५॥ सुणो
 स्वामी रत्ननो एह, प्रत्यक्ष प्रताप भठेइ ॥ थाल पाले प्रमण खगे कीधो, कण मात्र

क्रियो नवि लीधो ॥१६॥ तिम ए मणि जहनी पाले, बैरी गढ़ इति ते नासे ॥ श्रुतादिक
 तेहने नवि कोपे, एह मणिने कोय न लोपे ॥१७॥ सुणी राजा प्रत्यय पाम्यो, मन हर
 ख्यो जे हुवो कामो ॥ धन्नाने देखे सनमान, परख्यो ए बुद्धि निधान ॥१८॥ जोतां मि
 ल्यो जुगते जमाइ, पुत्रीनी पूरण पुन्याइ ॥ त्रीजि उद्धाले सवाइ, ढाल त्रीजी जिन
 इम गाइ ॥१९॥

॥ दोहा. ॥ राजाये तव धन प्रते, करी उन्भव श्रीकार ॥ पुत्री परणावी तुरत, सौ
 न्नायमंजरि सार ॥१॥ ग्राम पंचशत सौंपियां, तिम ह्य गय शत पंच ॥ बीजो पिण
 दीधो बहुल, वस्त्रादिक सवि संच ॥१॥ सुख विलसे दंपति सुखे, चक्रवर्ति सम भूर ॥
 बुद्धि तेज बलवंत तस, जिम गयणांगण सूर ॥३॥ कोठांबीथी बाहिर, वाशो धनपुर गा
 म ॥ गढ मढ पोल प्रसादथी, सुंदर अति शुज ठाम ॥४॥ जिनमंदिर महोटां रब्यां, आ
 प्या श्री जिनराज ॥ पूजा सत्तर प्रकारथी, दिन दिन अधिके साज ॥५॥ चोराशी चहु
 टां सुन्नग, बिसरी तिहां बजार ॥ वरण अढार विशेषथी, करे विविध रोजगार ॥६॥ सु
 ख सयलो तिहां लोकने, पिण नहि नदिय निवाण ॥ तियो अतुर धनो रहे, जल विण
 शो अहिगाण ॥७॥ इम चिंतीने ततकणे, सर करवा सुविलास ॥ स्थानक निरखीने ॥७

रस, आरंज्यो आयास ॥७॥ शुभ्र बेला अवलोकने, मांड्यो कार्य महंत ॥ महेनतिया म
हेनत करे, उच्चक पणे अत्यंत ॥८॥ एक कर्ष अवला प्रते, पुरुषने श्रेय दिनार ॥ जोजन
चेला तैलशी, टंक श्रेय व्यवहार ॥९॥ यत्रो राजगृही थकी, नीसरियो तिणिवार ॥
जे जे कारण नीपन्यो, ते निसुषो अधिकार ॥१०॥

॥ बाल ४ श्री. ॥ (कल लाखीणी रे जाय. ए देशी.)

धनोशाह जव नीतस्थो जी, ठंढी नारी प्रसंग ॥ नारी त्रिण्ये ततकणे जी, नवि दे
खे पियु संगरे ॥ प्रीतम, किदां गया अमने रे ठोडि ॥ हांसीनी बेला नहीं जी, आवो
यातम दोडि रे ॥ प्रीणा १ ॥ ए आंकणी. ॥ अमे तुम पालव वांधिया जी, तुमे अमचा न
रतार ॥ तुम आधार वालेशरू जी, जीव जीवन निरथार रे ॥ प्रीणा २ ॥ मात पिताये तुम
प्रते जी, सौप्यां पंचनी साख ॥ केड न ठोडूं जीवतां जी, ते निश्चय मन साख रे ॥ प्री ०
॥ ३ ॥ ए मंदिर ए मालियां जी, ए सुखसेज सुवास ॥ सरवे वद्वन्न तिहां लगे जी, जिहां
लगे तुं पियु पास रे ॥ प्रीणा ४ ॥ इम कहेती त्रिण्ये सती जी, जोया सयल आवास ॥ न
वि दीगे वद्वन्न तदा जी, आवी साख पास रे ॥ प्रीणा ५ ॥ अम प्रायेश दीसे नहीं जी,
अम मंदिर इणिवार ॥ बाइजी तुम जाया पखे जी, अवर कवण आभार रे ॥ प्री ० ॥ ६ ॥

इम कहती रडती अकी जी, ते त्रिण्ये तिणिवार ॥ विरह विलाप करे घणा जी, कहतां
 नाचे पार रे ॥ प्रीणा ७ ॥ शीलवती पिया सांजली जी, घरणी ठळी ततखेव ॥ वारंवार ए
 पुत्रनो जी, विरह दिचे कां दैव रे ॥ प्रीणा ८ ॥ तुं मुज आंधा लाकडी जी, कुलमंरुण कुल
 ज्ञाण ॥ पर छपगारी परगडो जी, पैतृक दुःखनो जाण रे ॥ प्रीणा ९ ॥ वय पाकी हवे अ
 म तणी जी, तूं किम मूकी रे जाय ॥ वडपणमें सेवा तणोजी, फल अधिको कहिवाय रे
 ॥ प्रीणा १० ॥ यतः ॥ अनुषुवृत्तम् ॥ पतिताः पितरस्त्याज्याः, माता नैव कदाचन ॥ गर्भ
 धारण पोषात्र्यां, नवेन्माता गरीयसी ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—पतित अएवा पिता त्याग करवा
 योग्ये, परंतु माता तो कदि पण त्याग करवा योग्य नथी; कारण के, गर्भधारण अने
 पोषण करवाथी माता वधारे मान्ये ॥ १ ॥ इम निष्ठुर मन तुम तणोजी, किम थायेडे
 रे पूत ॥ तुज विण कणमां अम तणोजी, विणसे ठे घरसूत्र रे ॥ प्रीणा ११ ॥ धनसारे पि
 ण सांजली जी, पुत्र गमननी रे वात ॥ शोकातुर विलवे घणुं जी, करे अशेष अश्रुपात रे
 ॥ प्रीणा १२ ॥ जोजाई त्रिण्ये तिहां जी, आवी ते समकाल ॥ धन्ना गुणथी गोरडी जी, जू
 रे हृदय विचाल रे ॥ देवण १३ ॥ अमने तुमे सुखीया कियां जी, वारंवार पवित्र ॥ ज्ञा
 र्यहीन तुं अति अमे जी, तुमे देवर सुचरित्र रे ॥ देण १४ ॥ यतः ॥ आर्यावृत्तम् ॥ साय

तुझ न बोसो, बोसो महाशा पुबकम्पार्ण ॥ रयणायरंमि पत्ते, सालूरो हृष्ट मे लग्गो ॥३॥
 जावार्थः—हं समुद्र! आमां तारो कांइ पण कोप नथी, दोष तो अमारा पूर्व कर्मनोज ठे.
 केमके, रत्ननी खाण एवो तुं मड्यां वतां, मारा हाथमां तो पठरज भाव्यो! ॥३॥ दोष
 नथी इहां तुम तलो जी, ठे अम दोष सुजाण ॥ पिण शुं कीजे तेहशुं जी, कोइ भं च ले
 प्राण रे ॥ वेण ॥ ५ ॥ अम अवगुण जो देखशो जी, तो अम कोय न गाय ॥ सज्जन कडपडु
 म कहा जी, डुडव्या फल देइ जाय रे ॥ वेण ॥ ६ ॥ यतः ॥ सोठ सज्जन अं व सम, अवगु
 ण तजी गुण लेय ॥ उन्न तंथे पठर हणे, उन्न तंथे फल देय ॥ ३ ॥ जावार्थः—तेज सज्जन के,
 जे आंवाला वृद्ध जेवा होय ठे. केमके, कोइ माणस जो तेने, पथरो मारे ठे, तो ते आंवा
 नो वृद्ध उलटो तेने फल आपे ठे. ! ॥ ३ ॥ रात्रि सकल सवि सयणने जी, रुदन करंतां
 विहाय ॥ प्रत्यूषे नृप प्रमुखने जी, सवि विरतांत जणाय रे ॥ पूताण ॥ १ ॥ ठाम ठाम नुरि
 दोडव्या जी, मूक्या प्रेष्य अनेक ॥ पिण धत्राशाहनी तिहां जी, खवर न लाव्यो एकरे ॥
 पूताण ॥ ७ ॥ त्रिस्मय सवि पामी रहा जी, देखी धत्र चरित्र ॥ त्रीजे उड्ढासे जिने कही
 जी, चोयी ढाल पवित्र रे ॥ पूताण ॥ ८ ॥

॥ दोडा. ॥ राय कोपी धनसारने, कहे रे सांजल शेव ॥ अम जंमाड चपर अधिक,

राखी विरुद्ध देव ॥१॥ अम जमाइ जातें थके, अमे मूजाणा आज ॥ बुद्धिवंत नहि अवर
 को, जेह चलावे काज ॥१॥ अत्रय कुमरना विरह्या, दाऊया हूता पूर ॥ ऊपर लूण अ
 यो इहां, विरह धनानो भूर ॥३॥ अम पुत्री दुःखणी अइ, पति वियोगथी प्राय ॥ एह स
 यल अस्वास्थिनो, कारण तूं हि कहाय ॥४॥ तव बोडयो धनसार इम, नृपने करी प्रणा
 म ॥ धनपति मुज वल्लभ घणो, आशानो विश्राम ॥५॥ मुजथी दुःख पाय्यो नथी,
 पिए अत्रज वेण ॥ निसुणी रात्रे नीकडयो, बंदी सखलो सेण ॥६॥ यतः अत्रुष्टुवृत्तम् ॥
 रेजिहे कुरु मर्यादां, नोजने वचने तथा ॥ वचने प्राण संदेहो, नोजने च अजाणता ॥१॥
 ज्ञावार्थः—हे जीज ! तुं नोजन करवाने विषे अने वचन बोलवाने विषे मर्यादा राख; कर
 णके, जो वचनने विषे मर्यादा नहि राखे तो, कोइ वखत जीव जइ अने नोजनने वि
 षे मर्यादा नहि राखे तो अजीर्ण थइ. ॥१॥ सुणि भूपति ते त्रिण्यने, दंभी लीधो दाम ॥
 ग्राम प्रमुख खोंची लियां, पाडी सघली माम ॥२॥ धन हीणो धनसारजी, थयो ते थोडे
 काल ॥ न मिले असन व्यसन प्रमुख, दुःख पामे असराल ॥३॥ धन हीणो शोभे नहीं,
 ज्युं आवलनो फूल ॥ धनवंतो आदर लहे, चंपा फूज अमूल ॥४॥ यतः ॥ धनमर्ज्य का
 कुरथ, धनमूलमिदंजगत् ॥ अंतरं नैव पश्यामि, निर्धनस्य शवस्य च ॥१॥ ज्ञावार्थः—हे

तुम्हने शोचने पेश कर. कारण के, भाग्यु जगत धनना उपर आधार राखनारं ठे. केमके जायार्प मन निर्जोय एवुं मडडं, तेने विये डे कांइ फेर देखतो नथी. अर्थात् जो पास घन भोय, तोज सह मान आपेठे; परंतु कोइ मडदानी पेठे निर्वनना सामु जोतुं नथी. ॥१॥

॥ दाल ए मी. ॥ (त्रिपदीनी देशी.)

धन उद्धित धनसाररे, चित्तमें चित्तवे ॥ इहां रहेयो जुगतो नदीं ए ॥ महोटाशुं संघरे, सगपणतो सदा ॥ तिले करी लाजीजे सही ए ॥१॥ घना विण घरसूत्ररे, घूना झिली गयो ॥ आज गइ सवि माहरी ए ॥ तिले करी हवे परदेशरे, पिंरुने पालशुं ॥ मूल मजूरीने करी ए ॥१॥ घनाशाहनी नाररे, त्रिये तेडीने ॥ सुपरं सुसरोजी कहे ए ॥ पीनर जान पुत्ररे, सुखमें तिहां रह्ये ॥ तुम पति डःख अमने देहे ए ॥३॥ अमे जाशुं परदेशरे, घनाशाह जली ॥ गति करीने लावशुं ए ॥ जो भिलशे ए पुत्ररे, तो तेहने इ हां ॥ तेडी वेहेला आवशुं ए ॥४॥ सोमथ्री कुसुमथ्री रे, सुसराइा थकी ॥ प्रणमीने पी यर गड ए ॥ कहे सुजज्ञ तामरे, साशु लोचन करी ॥ विनय थकी अवनत थई ए ॥५॥ हूं आशीश तुम सायरे, निश्चयथी करी ॥ तुम सेवा करती थकी ए ॥ खीने रहेवो सास रे, प्रतिपके सदा ॥ शाले पिणठे ए वकी ए ॥६॥ खीने पीयर जेमरे, तिम नर सासरे ॥

धिरवासे मुनिने सही ए ॥ तेग रहित नृप तेमरे, मंत्री मति विना ॥ एटला सुयस लहे
 नहीं ए ॥७॥ यतः ॥ स्त्री पीयर नर सासरे, संयमिया सहवास ॥ एता होय अलखाम
 णा, जो मंके धिरवास ॥१॥ ज्ञावार्थः—स्त्री पीयर, पुरुष सासरे अने मुनि एक उपाश्र
 यमा, ए त्रणे पूर्वोक्त स्थानकमां घणा दिवस रहे, तो जरूर अलखामणा शाय. ॥१॥
 जिण दिन घन होय पासरे, पति संगे होवे ॥ ते दिन पीयर रूयडो ए ॥ पिण लही आ
 पद योगरे, ठंढी सासरो ॥ पीयर जावो कूयडो ए ॥७॥ सुख दुःख सवि तुम साथ रे,
 जोगविशुं सदा ॥ धीर धरो तुमे तातजी ए ॥ जो मिलशे पियु योगरे, तो पीयर हवे ॥
 आवशुं सयल संपद ज्ञजी ए ॥७॥ सुधी हरख्यो धनसार रे, धन धन ए वहु ॥ सहमे ए
 आधारडे ए ॥ मात तातने ज्ञात रे, सासरियां थकी ॥ लेखवीया सयजा पठे ए ॥१७॥
 चाड्यो हवे धनसार रे, राजगृही थकी ॥ अंगज स्त्री वधु परिवख्यो ए ॥ वल्ल विभूषण
 हीन रे, दीनपणा थकी ॥ जंमोपगण शिरे घख्यां ए ॥११॥ अष्ट करमथी जीवरे, जिम
 संसारमां ॥ परिभ्रमणां करे परगडो ए ॥ तिम धनसार तिवाररे, आवे जन थकी ॥ देश
 विदेश फिरे वडो ए ॥११॥ जोतां वन आरामरे, ग्राम घणां जमे ॥ पिण थिरता न लहे
 किहां ए ॥ कोशंबीपुरि पासरे, आवे अन्यदा ॥ वार्ता वृत्तिनी लहे ए ॥१३॥ धनपुरमे

धनशेठरे, शर खानत जणी ॥ आपे प्रबल आजीविका ए ॥ स्त्रीने एक दिनाररे, मुग्म पुरुष प्रते ॥ तेल चोलादि हितप्रकी ए ॥१४॥ सुणी हरख्यो धनसाररे, सार उपाय ए॥ उदर चरण करवा जणी ए ॥ ढाल पांचमी एहरे, त्रीजा उड्ढासनी ॥ कही जिनवि जेये सोहामणी ए ॥१५॥

॥ दोडा. ॥ आब्यो धनपुरमें नुरत, पतिवृत ते धनसार ॥ देखे व्यापारी तिहां, जां ति जांति तिणिवार ॥१॥ नाणावटी दोशी तिमज, पारेखने मणिहार ॥ सौक्तिक मुक्ता फल ऋयिक, धृत तैलादि विचार ॥२॥ सोनी गांधी सामटा, फडीया ने तांडूल ॥ साथ रिया सुखनदिका, कारक तिहां करे मूढ ॥३॥ देखी व्यापारी सकल, पूठे तव धनसार ॥ व्यापारीने वशिजना, धननो कवण दातार ॥४॥ तव ते कहे अम नगरनो, स्वामी ठे धनशेठ ॥ ते धन आपे व्याज विण, भाग्यंत लही डेव ॥५॥ निर्धनने पिण शर खनन, कीधोठे आधार ॥ सांजलिने हरखित श्रयो, परिकर सुत धनसार ॥६॥

॥ ढाल ६ छी. ॥ (नदी यमुनाके तीर उडे वोय पंखीयां. ए देखी.)

पुत्र सहित धनसार सरोवरमें तदा, करे तिहां खनननुं कार्य धरी मनमें मुवा ॥ बांधी कवोटा तंग सुरंग पणे करी, कोश कोषाली तेम खणे ते करे धरी ॥१॥ शीलवती

"साथ वहू चारे तिहां, माटी वहे चरी पात्र ते खात्र खणे जिहां ॥ खिष्ट कार्य करी
 एम दिवस सवि निर्गमे, नोजन चोला तैल प्रजात संध्या समे ॥१॥ एहेवे धनपतिशाह
 सरोवर देखवा, आवे धरीय जमाह कारीगर पेखवा ॥ साथे सवि सामंत मंत्रीश्वर नृप
 तशा, शैठ सेनापति वृंद सेवक पिण अति घया ॥३॥ शिरपर सोवन ठत्र सूरज परे जग
 मगे, याचक नोजक जाट अनेक ते नलगे ॥ जय जयतूं चिरंजीवतुं डस्थित डुःख हरु,
 आश्रित जन आधार सयणने सुखकरु ॥४॥ आवी सरोवर पाल जोवे चिहुं दिशि फिरी,
 सरोवर केरो काम ते नद्यम मन धरी ॥ देखो तातने मात बांधव जानी वहु, चिते चित्त
 मजार ए किम आव्यांसहु ॥५॥ जोईने निरधार करी मन चितेवे, मात पिताने ज्ञात प्र
 मुख सवि संनवे ॥ पिण मुज कामिनी एह सुजज्ञ जामिनी, माटी वहे सहे कष्ट देखो
 गति कर्मनी ॥६॥ यतः ॥ अनुष्टुबृत्तम्. ॥ कृतकर्म क्षयो नास्ति, कल्पकोटीशतैरपि ॥
 अवश्यमेव नोक्तव्यं, कृतकर्म शुभाशुभं ॥१॥ जावार्थः—अजोना अजो कल्प (युग)
 जाय, तो पण करेला कर्मनो क्षय थलो नथी. केमके, सारु अथवा नरतुं, जे कर्म कळुं
 होय, ते अवश्य भोगवुंज पडे ठे. ॥१॥ कर्मवशे दमयंती नल प्रियां डुःख लहे, राम
 धरणी तिम सीत लंकागढ डुःख सहे ॥ कजावतीने कर्म अदय आव्यां यदा, शंख नृपे

धरी रोय ठेवाव्या कर तदा ॥७॥ सुरसुंदरीने कंत वने मेली गयो, झोपदीने वनवासमें
 दुःख बहुलो अयो ॥ प्रधावतीने कंत वियोग अयो वली, मृगावतीनो कष्ट ते जाणे के
 वली ॥८॥ नृप पयनजय नारी लहे दुःख भंजना, नर्मदासुंदरी तेम करी पति रंजना ॥
 मयणरेढा सती कष्ट लही ते सहू कहे, अचंकारी तेम अतूल पीडा सहे ॥९॥ चंद्रनचाल
 विशाल गुणेशी वखाणीए, कर्मोदयथी तेह वेचाणी जाणीए ॥ हरिचंद्रायने पुत्र स्त्री
 तारा लोचना, वेचाणां परतकशी करवी लोचना ॥१०॥ देखो कर्मनी वात आधी वनी
 एहने, भोगीभ्रमर शालिभ्रम्र वांधवठे जेहने ॥ गौभ्रम्र सम तात मात नडा सती, मुज
 सरिखो भरतार ने सुख न लहे रती ॥११॥ जुन जुन मात ने तात अनेक विपद सहे,
 उदरभरणे काज उपल मस्तके वहे ॥ जगमें डुर्जर पेट कह्योठे शास्त्रमें, कुण कुण न
 करे अकाज जुन ते अनुक्रमे ॥१२॥ यतः ॥ सवैयो तेवीशो ॥ भूख कुलीन करे अकुली
 नके भूख बरो घर नीख मगावे, नीचकी चाकरी भूख करावे रु निर्मल वंशकु मेल लगा
 वे ॥ भूख भ्रमावे विदेश विपत्तिमें दीन दुःखी मसकीन कहावे, भूख समो नही दुःख
 जसा कोड पापिणी भूख अन्नक नखावे ॥१३॥ देखो धनावह शेर अन्नक भक्षण कख्यो, सु
 समा पुत्री मांस नखी तनु निज धख्यो ॥ उदरार्थे नवराय सुभारपणो कीयो, घर घर

मुंज नरेश मांगी टूकडो लीयो ॥१३॥ आषाढभूती आहार निमित्ते विद्या करी, नव
 नव रूप बनाय मोदक लिया फिरी ॥ राय यशोधर मांस प्रख्यो नयनावली,
 डुन्नर नुदरने काज अकाज करे क्ली ॥१४॥ कर्मतयो वश भ्रात एडुःख बहूलां सहे, ल
 क्स्मी गृह सुखवास तिहां एडुःख लहे ॥ न लहे विनय विवेक विचार आचार ह, मान मगन
 रहे मस्त न धर्म विचार ए ॥१५॥ एहना संगथी मात अशात घणी सहे, तिम क्ली तात
 विख्यात विटंबनता लेहे ॥ जोजाई पिय भ्रानृथी आपदमें पडी, मुज रामा इण साथ
 लहे डुःख बापडी ॥१६॥ यतः ॥ अनुष्टुबवृत्तम् ॥ कुसंगा संग दोषेण, साधवो यांति वि
 क्रियां ॥ एकरात्रि प्रसंगेन, काष्ठधंटा विटंबना ॥३॥ प्रार्थार्थः—खराब माणसनी सोब
 तथी सारा माणसो पण विक्रिया पामे ठे. कारण के, हराइ गायनी साथे (सारी गायने)
 एक रात सोबत रहेवाथी बे पग वच्चे लाकडुं अने गलामां घंटडीनी विटंबना थइ. ॥३॥
 हवे हुं मातने तात प्रिया प्रतिपालशुं, ए बांधवने दूर करी रखवालशुं ॥ इम आलोची
 वात धन्ने धीरज धरी, त्रीजे उडहासे ढाल बधी जिन जयवरी ॥१७॥

॥ दोहा. ॥ तात प्रते पूंवे तुरत, धनपतिशाह सुजाण ॥ कवण तुमे कोण ग्रामथी,
 आव्यागे इण गाय ॥१॥ तव लजाथी गोपवी, अवर कळो अधिकार ॥ पिय धन्ने नि

अप क्रियो, एह मर्दा। निरधार ॥१॥ धन्नाशाह चित चितवे, धन विण लाजे एह ॥
तिले करी निज कुन गोपेवे, तिरामे नही सँदेह ॥३॥ ऊपरवाडने कहे, मोसो मोसी
बूढ ॥ एहने घृत गुड अन्न शुन, देजो तुमे अबिरुह ॥४॥ सर्व 'मृत्यमां बूढ ए, आपे
करी आवेश ॥ तव धनसार खुशी थयो, तूयो मुज इन्धेश ॥५॥

॥ ह्यल उ मी. ॥ (सीता तो रूपे रुंडी. ए देशी.)

हवे बीजे दिन धन्नो, आवे तिहां अति सुप्रसन्नो हो ॥ सुकृत फल एहवां ॥ ए मां
कणी ॥ बोलावे हित आणी, धनसार नणी शुन वाली हो ॥ सुणा ॥ तांजुलादिक तस
आपे, तव हर्ष घणो तस व्यापे हो ॥ सुणा ॥ बीजे दिन तिम हेव, धनपति आवे घरी टेव
हो ॥ सुणा ॥ वस्त्र अनेक अणावे, सवि मृत्य प्रत्ये तेडावे हो ॥ सुणा ॥ वस्त्र दिये तस
ताम, अति दरख्या मृत्य सुकाम हो ॥ सुणा ॥ पढे बूढ प्रते तेडावे, अंतर उन्नम प
हिरावे हो ॥ सुणा ॥ माता प्रते पटकूल, दिये हर्ष घरी बहु मूढ्य हो ॥ सुणा ॥ ॥ ॥ ॥
सम परिणामे, दिये सुंदर वस्त्र सुकामे हो ॥ सुणा ॥ 'आतृजाया पिण आवे, साडी तस
शुन पहिरावे हो ॥ सुणा ॥ एक चीर अमूलिक तार, आपे कांताने तिणिवार हो ॥ सुणा

चाकमां, ५ वस्त्र. १ जीनाश्यो.

॥ सवि परिकरने संतोषी, धनसार प्रते, कहे पोषी हो ॥ सु०॥६॥ सुणो तुमे गा वृद्ध सु
 जात, तुम गुण अम चिच सुहात हो ॥ सु०॥ क्विशी वाते छःखी मत आजो, जे जोइए
 ते मंगजो हो ॥ सु०॥७॥ ए अम घर ठे सवि तुमचा, तुमे तात स्थानक ठो अमचा हो
 ॥ सु०॥ तुम 'तनुये गरमी दीसि, अमे जाणीए विसवावीसे हो ॥ सु०॥८॥ तियो 'तक्र प्र
 मुख अम घरथी, लीयो बांडी त्रपानवि परथी हो ॥ सु०॥ ए तुम 'वधुने तुमे कहेजो,
 सुखे काल इहां निरवहेजो हो ॥ सु०॥९॥ देइ आसासना तियो ठामे, मंदिर चे रहेवा कामे
 हो ॥ सु०॥ इम प्रति दिन खबर ते लेवे, जे जोइए तेतसु देवे हो ॥ सु०॥१०॥ घेर आवी
 कहे धनशाह, प्रिये सांजल मन उढाह हो ॥ सु०॥ परदेशी उत्तम प्राणी, इहां आव्या
 ठे अम जाणी हो ॥ सु०॥११॥ तेहने ठे वधु चार, गुणवंती अति मनुहार हो ॥ सु०॥ ले
 वा ते तक्र जौ आवे, तुमे देजो तव जले जावे हो ॥ सु०॥१२॥ पण तेहमां लघु ठे जेह,
 घरजो तुमे तेहशुं नेह हो ॥ सु०॥ तस देजो आदरमान, वली देजो फोफल पान हो ॥ सु०
 ॥१३॥ तिम शाक प्रमुख सुविचित्र, देजो तुमे पुण्य पवित्र हो ॥ सु०॥ अति गोरस सर
 स सवाद, देजो दिल घरी आढ्हाद हो ॥ सु०॥१४॥ इम शीख देई मनरंगे, धनपति पि

? शरीरे. ३ वाश. ३ वहुने.

ए रहे सुखसंगे हो ॥ सु० ॥ 'द्वारपाल प्रमुखने जाख्यो, सह सेवकने पिण दाख्यो हो ॥
सु० ॥ १५ ॥ हवे शेठ तिहां घनसार, कहे बहु प्रते सकल विचार हो ॥ सु० ॥ तुमे जाउ
घनपति गेह, तक्रादिक लावो ये जेह हो ॥ सु० ॥ १६ ॥ तव ते बहु निसुणी वाणी, वारू
कडे मनमां जाणी हो ॥ सु० ॥ त्रिजे उब्हासे गवाणी, ढाल सातमी जिन गुणखा
णी हो ॥ सु० ॥ १७ ॥

॥ दोहा. ॥ हवे ते त्रिये वधु तिहां, लेवा आवे तक ॥ स्वह दिये जल सारिखी,
नयन वदन करी वक्र ॥ १ ॥ चोथे दिन ते लाजथी, आवे सुभ्रश जाम ॥ सौभाग्यमंज
रिए तिहां, वेसाडी शुभ्र गम ॥ २ ॥ भावर देह अति घणो, भापे गोरस सार ॥ कहे
वाइ तूं भावजे, नित प्रते मुज भायर ॥ ३ ॥ तक्रादिक पिण अति अचल, लेइने ततखेव
॥ भावी ते निज स्थानके, साखुने ये हेव ॥ ४ ॥ तव सुसरो साखू कहे, देखो पुण्य प्रका
र ॥ घनपति वधु प्रशिपति करे, जाग्य प्रचल मनोहार ॥ ५ ॥ निसुणी खीजी ते त्रिणे,
कहे सुणो साखू वात ॥ नित प्रते पुत्र वखासते, हाथथी गयो विख्यात ॥ ६ ॥ वली तेद
नी वधुने तुमे, परसंसो परगट ॥ ते प्रिण घनानी परे, जाओ कोशक वट ॥ ७ ॥ दिवसे

माटी शिर बहे, रात्रे पडे झूपीठ ॥ देखो देराणी जाग्यबल, कंत विरह अति
धीठ ॥ ८ ॥ सुणी सुन्नश ते वचन, दाजी दिलमें दीन ॥ नयलेशी आंसू ऊरे, विर
ह व्यथा लयलीन ॥ ए ॥

॥ ढाल ८ मी. ॥ (रतनशी गुण मीठडारे. ए देशी.)

एक दिवस सुन्नश सती रे, आवे ते लेवा बाश ॥ सौजाग्यमंजरीए तिहां रे ॥ बे
साडी लेइ पास ॥ बहिन कहो छःख मुज प्रते रे ॥१॥ ए आंकणी ॥ तुमे गो चतुर सु
जाण ॥ प्रीति बंधायी ठे माहरे रे, तुमथी जीवनप्राण ॥ बण॥१॥ आंख अरूण दीसे
ताहरी रे, मुख ठवी अति दिलगीर ॥ नीसासा पिण एवडा रे, नयणे ऊरे बहु नीर ॥
बण॥३॥ सुसरो सासू ठे ताहरे रे, जेठाणीने जेठ ॥ वर वारू दशे ताहरे रे. पीयर पिण
हुशे नेठ ॥ बण॥४॥ के पीयर छःख सांमस्थो रे, के डहवी तुज कंत ॥ शी चिंता तुज
एवडी रे, कहे मुजने मतवंत ॥ बण॥५॥ मुजथी अंतर एवडो रे, तूं किम राखे मु.६ ॥
कहे अवदात तूं ताहरो रे, जिम हुं जाणुं शु.६ ॥ बण॥६॥ 'आनन वल्ले' आवादती रे, 'अ
घो'मुखथी कहे ताम ॥ बहिन कहुं शी कर्मनी रे, गति विपरीत विराम ॥ बहिन सुणो

१ सुख. २ दांकती. ३ नीचुं मुख राणी.

दुःख माहुरं रे ॥३॥ ए आंकणी ॥ यतः ॥ शार्दूलविक्रीडीतवृत्तम् ॥ ब्रह्मायेनकुशालयन्नि
यमितौ ब्रह्मान्नाम्नोदरे, विश्रुयेनवशावतारगहनैक्षितोमहासंकटे ॥ रुद्रयेनकपालपाणि
पुटकेन्निद्राटनंकारितः, सूर्योब्राम्ह्यतिनित्यमेवगने तस्मैनमःकर्मणे ॥१॥ प्रावार्थः—जे
कर्मवडे ब्रह्मा कुंभारना चाकनी पेंठे ब्रह्मान् रूप घडाना पेटमां कवजे रखायो, विश्नु
दश अवतारथी जयंकर एवा महोटा संकटमां नंखायो, शिव द्वाथमां काचली लेइने
न्निका मागे ठे अने सूर्य इमेशां गगनने विषे जेनावडे जमे ठे; ते कर्मने नमस्कार थाउ.
॥१॥ गौज्जशेवनी अंगजा रे, जश उर अवतार ॥ बांधव शालिकुमार ठे रे, इंत्तणे अ
नुहार ॥वणा॥ तातजी पूजना स्नेहश्री रे, पूरे वंभित जोग ॥ बत्रीश बधू अने पुत्रने
रे, आपे वंभित योग ॥वणा॥ तुज पति नामै माहरे रे, ठे जत्तार सुरंग ॥ दानी मानी
ग्यानी जलो रे, धरतो प्रीति अजंग ॥वणा॥ श्री श्रेणिक नृप पुत्रिकारे, सोमश्री वि
ख्यात ॥ कुसुमपाल तनया तिसी रे, कुसुमश्री शुचि गात ॥वणा॥१॥ ते परणयो तिहां
प्रेमश्री रे, उन्नम गुणनो पात्र ॥ कांता त्रिण्येथी कीडतो रे, सुगुण सुरूप सुगात्र ॥व०
॥११॥ वंधव वयण विशेषश्री रे, ठंभी सवि परिवार ॥ एकाकी कोइ देशडे रे, पहोल्पो
ठे निरघार ॥वणा॥१॥ ते जाते लक्ष्मी गई रे, सतीय परे ते साथ ॥ सुतरादिक सवि

नीसंख्यारे, परदेशे विण आथ ॥बण॥१४॥ नीर विना जिम कमलिनी रे, खरोवरमं सू
 काय ॥ तिम धन हीन मनुष्यने रे, मान नही किण गय ॥बण॥ १५॥ करवा उदर आ
 जीविकारे, इहां आव्यां इणिवार ॥ सर खणीए बीए तुम तणुं रे, तुमचो ठे आधार ॥
 बण॥१६॥ यतः॥ किं किं न कियं किं किं न कायधं, कह कह न नामियं सीसं ॥ उप्र उअ
 रसस नरणे, किं न कियं किं न कायधं ॥१॥ ज्ञावार्थः—शुं शुं न कखुं, शुं शुं नहि करवा
 योग्य ठे अने कोने कोने शीशनथी नमावुं? अपितु आ उःखे नरवा योग्य एवा पेटने
 मांटे शुं न कखुं अने शुं न करवा योग्य ठे अर्थात् सर्वे कखुं अने सर्वे करवा योग्य ठे!
 ॥१॥ धनपतिशाह पटंतरे रे, नोजन करते वात ॥ सांनलीने बिच चितवे रे, धन्य धन्य
 एह सुजात ॥बण॥१७॥ सुधि थइ ताम सिंहासने रे, बेवो थइ उजमाल ॥ त्रीजे उडहा
 से आवमीरे, कही जिनविजये ढाल ॥बण॥१८॥

॥ दोहा. ॥ कहे धन्नो रे जामिनी, तुं पति हीणी दीन ॥ प्राण धरे प्राणेश विण,
 किण रीति उःख लीन ॥१॥ फाटे काली जूमिका, जल विरहे तत्काल ॥ प्राण धरे पति
 विरहथी, ए अचरिज इण काल ॥ २॥ सा कहे तव लज्जा करी, आशाथी अहो शेष ॥
 आशा पासे बांधीया, जीव करे ठे वेठ ॥ ३॥ यतः ॥ अनुष्टुबृत्तम् ॥ इयमशा म

द्वाराजन्, विपरीता वि शृंखला ॥ येनवन्वः प्रथावन्ति, मुक्ता स्तिष्ठति पंगुवत् ॥ १ ॥
 ज्ञानार्थः—ह महाराजा! आ आशारूपी सांकल बहु तरेहवार ठे. केमके, ते सांकलवडे
 बंधाएना पुरुयो दोडे ठे भने तेनाथी बूटा थएला पांगलानी पेठे बेसी रहे ठे. अर्थात् सा
 मान्य सांकलथी बंधाएना माएसो हाली चाली शकता नथी, पण तेथी बूटा इरीफरी
 अके ठे. परंतु आ आशारूपी साकल तो एवी तरेहवार ठे के, एना पासमां पडेला माए
 सो दोडदोड करे ठे भने तेथी मुक्त थएला पांगलानी पेठे निरांते बेसी रहे ठे. ॥ १ ॥
 तत्र वन्नो कंइ सुंदरी, ते तुं किहां लहेश ॥ भोगव भोग भला इहां, वयण प्रमाण
 करेश ॥ ४ ॥ ए यौवन ए वसन सुख, ए भोजन ए वास ॥ पामीने जे हारये, पस
 ताचो पडे तास ॥ ५ ॥

॥ ढाल ए मी. ॥ (हो कोइ भाणी मिलावे साजना. ए देखी.)

हो वयण सुणी विप्र सारिखां, घन्नानां तिणिवार हो॥ दृढ मन करी धीरज धरी,
 बोले सुभ्रज्ञ बाल हो ॥ वयण विमासी बोलीए ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ जिम रहे जगमां
 माम हो ॥ अपकीरति भलगी इवे, परजव पिण सुख ठाम हो ॥ वणाश ॥ पश्चिम सूरज
 नगमे, घग्णी रसातल जाय हो ॥ मेरु महिधर जो चले, अगनि ते झीतल थाय हो ॥

वण॥३॥ उग्र तपे सशि सूर ज्युं, जो ध्रुव चंचल होय हो ॥ तो पिण सती चूके नही,
 हृदय विमासी जोय हो ॥वण॥४॥ सतीनो सत्व मूकाववा, कीघा जेणे उपाय हो ॥ ते
 उःखीया अया देखतां, पाम्या मरण सहाय हो ॥वण॥५॥ रावण सीता मोहीयो, तो
 खोयां दश शीश हो ॥ लंका लूटावी तिहां, राम तणीते रीस हो ॥वण॥६॥ पदमोत्तर
 परनारथी, राब्यो झौपदी रूप हो ॥ केशव कोप करी तिहां, टाळ्यो तिहांशी झूप हो ॥
 वण॥७॥ परनारीनी संगते, जुन ललितानंग कुमार हो ॥ विष्टा मंदिरमां वशो, शब शम
 अयो तिलिवार हो ॥वण॥८॥ जुन मणिरथे अनरथ कियो, मयणरेहाने काज हो ॥ तो
 ते नरके गयो तडा, संक दियो अहिराज हो ॥वण॥९॥ इत्यादिक अवदात ते, शुं नथी
 जाणता स्वाम हो ॥ श्रावक कुल पामी करी, राखो निज मन ठाम हो ॥वण॥१०॥ अग
 नि प्रवेश करुं अमे, वलि करुं ऊंपापात हो ॥ विष नक्षण जल आगमे, रसना ठेवून
 घात हो ॥वण॥११॥ पिण अणघटता कामनो, वयण न सांभलुं कान हो ॥ इंड चंड ना
 गेंड्री, न चलुं शीयलनुं ध्यान हो ॥वण॥१२॥ यतः ॥ केसरि केश झूयंग मणि, शरणाग
 य सुहृडाथ ॥ सतीय पयोधर कृपण धन, चढसि हठ मुआह ॥१॥ ज्ञावार्थः—केसरीसि

१ ध्रुवनो तारो. २ सर्प. ३ जीन.

इना केश, सापने माथे रहेलो मणी, वीर पुरुषोने शरले गएलो माणस, सती स्त्रीनां स्तन एक कृपणतुं धन; ए सर्वे तेमना जीवतां तो हाथ नज लागे, परंतु मृत्यु शरण मंत्रे. ॥१॥ वयण सुणी वनिता तणां, हरख्यो धनपति ताम हो ॥ ए सुखुलीन महान ती, शिबल रयण गुणधाम हो ॥ वण ॥ ३ ॥ कहे धत्रो मं ताहरो, मन जोयो अनिराम हो ॥ शिबल सुरंगो हूं धरं, न गमे परखी नाम हो ॥ वण ॥ ४ ॥ पिण पूढुं तुजने हवे, किम जाणीव निज नाह हो ॥ दीगथी शूं जाणशो, के प्रत्यय निरवाह हो ॥ वण ॥ ५ ॥ तव बोली सा सुंदरी, जे कहेजे 'प्राचीन हो ॥ वारता जे जे जोगवी, सुख डःखनी लयली न हो ॥ वण ॥ ६ ॥ ते जरतार हुशे सही, 'तदनंतर आकार हो ॥ दाल ए व्रीजा उड्ढास नी, नवमी जिन कहे मार हो ॥ वण ॥ ७ ॥

॥ दोहा. ॥ धनपति कहे सुणरे सती, प्रतिष्ठानपुर धाम ॥ धनसारेभ्य वखाणीए, शी जवती सती ताम ॥ १ ॥ चार पुत्रमां लघु तनुज, धत्रो बुद्धि निधान ॥ बंधव केश श्री नीसखो, पिण तस पुण्य निदान ॥ २ ॥ उड्ढायिनी आव्यो वही, पान्यो नृपनो मान ॥ मात पिता बांधव सवि, ते आव्या तिण गाण ॥ ३ ॥ सन्मानी राख्या निकट, पिण

१. हुनी. २. त्पारपडी.

मञ्जर तस देख ॥ धन्वोशाह वली नीसख्यो, सयली रुफि उवेख ॥ ४ ॥ राजगृहीए रंग
 शं, आव्यो धरी उदहास ॥ कुसुमपालनो वन फड्यो, पुत्री दीधी खास ॥ ५ ॥ सेचानक
 गज रायनो, आयो आलानथंन ॥ पुत्री आपी श्रेणिके, देखी अतुल अचंन ॥ ६ ॥ का
 णानो ऊयडो पड्यो, गौमद् शेठने जाम ॥ तेहक्षे फेड्यो ततद्वेषो, तुजने परणी ताम
 ॥ ७ ॥ मात पिता आता वली, आव्या विपद उपाय ॥ देखी आनंवर थकी, आया आप
 रो ठाय ॥ ८ ॥ पुनरपि कजह ते केलवे, बंधव राखी छेष ॥ तव धनपति तुजने तजी, इ
 हां आव्यो शुन देख ॥ ९ ॥ प्रत्यय ए तुजने कह्यो, वली सुज 'वदन निहाल ॥ आंति म
 राखीश जामिनी, चिंतो चित्त विचाल ॥ १० ॥

॥ ढाल १० मी. ॥ (मुजरो ड्योने जालिम जाटडी. ए देशी.)

वयण सुणी निज नाहनां, प्रत्यय पामी तिवार ॥ नाम थकी रे निश्चय थयो, पे
 ख्यो प्रगट आकार ॥ तोरी बलिहारी प्रीतम माहारा रे ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ 'धूघटमें रे
 अनन धरी, लाजि करी कहे वेण ॥ प्राणप्रिय पियु माहरा, तुमे वल्लभ सुज सेण ॥
 तोण ॥ १ ॥ तुज धिरेहे में परिहखां, वखानरण विशेष ॥ जोजन सरस सेवे तज्यां, तांबू

१. मुल. १ धूघटामां मुल थाली.

लादि मंडीय ॥तो०॥३॥ स्नान श्रुत्या शरीरनी, में बांडी पियु एह ॥ तुमे तो अमने रे
 मचगुणां, जाणयो पियु तुम स्नेह ॥तो०॥४॥ एतजा दिन लगे अमतणी, कंत न कीधी
 जी सार ॥ नृत्यपणे अमने गणां, नाली अरस लिगार ॥तो०॥५॥ पुरुष सदा कपटी
 दुधे, पूर्वप्रियाथी विरक्त ॥ अवर प्रिया रसमें रहे, तेह नदीव आसक्त ॥तो०॥६॥ सांज
 ली मौजागधमंजरी, प्रियपत्निनां वेष ॥ हर्ष धरीने हेजे केहे, तूं तो दीने ठे रेण ॥तो०
 ॥७॥ स्नान करावे रे स्नेहथी, पहिरावे शुचि वेष ॥ आज्ञाधरथी नृषित करे, मान दिये
 सुविडोय ॥तो०॥८॥ धनो कहें धण सांजलो, तुमे ठे नवन नमान ॥ तन मनथी सुज प्रिय
 धर्णी, विदमो सुख सुप्रमाण ॥तो०॥९॥ हवे धनसार चित्त चिंतवे, ए सुकुलीन सुरीत ॥
 कण एक मात्र रहे नही, शुंथयुं ए धिपरीत ॥ ते हजु नावी बहुअर माहरी रे ॥ १० ॥ ए
 आंकली ॥ धनपतिगाह तणे वर, गड हती लेवा ठाण ॥ आवी नही हजी आंगणे, अंका
 रण हुडो तान ॥ तो०॥११॥ कड्यडुम मम ए अडे, धनपतिगाह पवित्र ॥ तेहथी तो जय
 नधि हुये, दीनि यात विचित्र ॥ तो०॥ १२ ॥ बूढ वधूने बोलाधिने, मूकी तेडंग काज ॥ ते
 आवी धनपति गूढे, देखी पामी रे लाज ॥ तो०॥१३॥ प्राजन तकनो लेडने, आवी स्या

१ याकरपणे, २ गुनी लीथो. ३ स्वाधीनो जीनां पटले जांनयनां.

नक ताम ॥ वात कही सुसरा प्रते, जे गइ आपणी माम ॥ तेण॥१४॥ सुणी धनसार अ
 पार ते, रुदन करे ततकाल ॥ हा हा कुलने कलंकियो, खोयो शील विशाल ॥ तेण॥१५॥
 देशाटन धन क्षय पणो, ए बे दुःख हतां मूल ॥ ए अपवाद ते ऊपरे, ए महोदो मुज
 शूल ॥ तेण॥ १६ ॥ किहां जाळं केहने कहुं, शो करुं वलि प्रतिकार ॥ धन विण कोय न
 उलखे, कोय न माने जीकार ॥ तेण॥ १७ ॥ यतः ॥ सवैयो त्रेवीशो. ॥ चाह करे जिनकी
 जगमें सब आथके पाय नमे जलजैया, मातकुं तातकुं लागत वद्धन प्रामिनी ब्हेन रुले
 त बजैया ॥ वात जुठी सब साचहि मानत लोक गुनी यश वास कहैया, केशवदास कहे सुण
 सज्जन सोही बडो जागी गांठ रुपैया ॥१॥ तो पिण नातिने आगले, कहुं सविवात विचार ॥
 नाति अक्री सवि नीपजे, कार्य अनोपम सार ॥ तेण॥१८॥ आवी नातिने आगले, पोका
 ख्यो धनसार ॥ त्रीजा उडहासनी ढाल ए, जिन कहे दशमी उदार ॥ तेण॥१९॥

॥ दोहा. ॥ इत्य प्रमुख सवि इम कहे, सांजरे धनसार ॥ धनपति शेठ तशो
 सहु, यश जाणे संसार ॥१॥ परनारीने नवि नजे; न लिये वली पर ड्य ॥ जीवघात नवि
 आचरे, अजक तजे ए सर्व ॥२॥ तूं पिण जूठो नवि कहे, ते नवि करे अन्याय ॥ इणि दि
 शि व्याघ्र इहां नदी, आवी बन्यो ए न्याय ॥ ३ ॥ तो पिण ताहरे कारणे, करशुं नुद्यम

आज ॥ बहु तुमारी तुरतमें, लाबेशुं महाराज ॥४॥ इम कर्हा सवि जेला अर, लेर नज
राणो सार ॥ धनपतिशाहने आगले, भावी करे जुहार ॥५॥ सन्माने सवि शेवने, वैई
फोफन पान ॥ पूवे शे कारण तुमे, आव्या पुरुष प्रवान ॥६॥

॥ बाल ? ? मी. ॥ (करजोडी वेदया कहे हो लाल, जेले रे प्रयाख्या आज. ए देशी.)
करजोडी सवि इम कहे हो लाल, सुणो रे सोजागी ॥ वीनतडी महाराज हो ध
नाशाह, सुणो रे सोजागी ॥ ए आंकणी ॥ धनपुर नगर ए धने जखो हो लाल, सुण ॥
भमरपुरी सम आज हो ॥४॥ इंड सटश तुमे उपता हो लाल, सुण ॥ निरुपम
रूप नियान हो ॥४॥ सामानिक सामंत ठे हो लाल, सुण ॥ दिन दिन चढते वान
हो ॥४॥ देव सरीखा दीपता हो लाल, सुण ॥ इश्य अठे धनवंत हो ॥४॥ सुण
॥ सकल प्रजा परयद जली हो लाल, सुण ॥ तुमची ए मतिवंत हो ॥४॥ सुण ॥ इंडा
णी सम शोभती हो लाल, सुण ॥ सौभाग्यमंजरी नार हो ॥४॥ सुण ॥ दय गव रथ पा
यक घणा हो लाल, सुण ॥ बली कोगर भंफार हो ॥४॥ सुण ॥ धा ॥ तुम यश जगमें वि
स्तखो हो लाल, सुण ॥ परली बंधव नाम हो ॥४॥ सुण ॥ परडुःख भंजन परगडा हो
लाल, सुण ॥ इस्थित जन विश्राम हो ॥४॥ सुण ॥ पिण निमुणो एक भमतणी हो

लाल, सुण॥ वात्त जे थइ विपरीत हो ॥ धण॥ सुण॥ परदेशी धनसारनी हो लाल, सुण॥
 बहु हुती सुविनीत हो ॥ धण॥ सुण॥ ६॥ तक्र लेवा तुम मंदिरे हो लाल, सुण॥ आवी हुती
 सुविवेक हो ॥ धण॥ सुण॥ कोइक कार्य उदेशिने हो लाल, सुण॥ बेवी हुशे धरी टेक हो ॥
 धण॥ सुण॥ ७॥ खबर करावी तेहनी हो लाल, सुण॥ सोंपावो ते सदीश हो ॥ धण॥ सुण॥
 फूरे सुसरो एहनो हो लाल, सुण॥ आस्फाले निज शीश हो ॥ धण॥ सुण॥ ८॥ इन्ध्यादिकनां
 एहवां हो लाल, सुण॥ वचन न धाखां कान हो ॥ धण॥ सुण॥ तव चमक्या ते वायिया हो
 लाल, सुण॥ अन्योन्ये करे सान हो ॥ धण॥ सुण॥ ९॥ करी प्रणाम ऊठी गया हो लाल, सुण॥
 ॥ सहु को निज आगार हो ॥ धण॥ सुण॥ धनपति मंदिर आगले हो लाल, सुण॥ पोकारे ध
 नसार हो ॥ धण॥ सुण॥ १०॥ रे धनशंठ तुं माहरी हो लाल, सुण॥ आपो वधु इली वार हो
 ॥ धण॥ सुण॥ ए अन्याय तुम नवि घटे हो लाल, सुण॥ जुर्जने हृदय विचार हो ॥ धण॥ सुण॥
 ॥ ११॥ अमे परदेशी प्राहुणा हो लाल, सुण॥ दुस्थित जनमां लीह हो ॥ धण॥ सुण॥ तूं प
 रःख मंजक अठे हो लाल, सुण॥ सा पुरिसामां सिंह हो ॥ धण॥ सुण॥ १२॥ यतः—
 ॥ आर्यावृत्तम् ॥ विरला जाणंति गुणा, विरला पालंति निष्णा नेहा ॥ विरला परकज्ज
 परा, परड्ढेके दुस्त्रिया विरला ॥ १ ॥ भावार्थः—गुणना जाणनार, निर्धननो स्नेह पा

लनार प्रेने परनां कार्य करवामां तन्वरः एवा पुरुषो विरला होय वे, परंतु ते करतां पण
 पारका छःखे दुःखीआ तो, तेथी पण विरला होय वे. ॥१॥ तत्र धनसार तैडविने हो
 लाल, सु०॥ अन्नौ प्रणमे पाय हो ॥ध०॥सू०॥ अविनय खमख्यो तातजी हो लाल, सु०॥
 मुजथी करी सुपसाय हो ॥ध०॥सू०॥ १३॥ देवी पुत्रने उन्नख्यो हो लाल, सु०॥ हर
 ख्यो तन मन ताम हो ॥ध०॥सू०॥ पूनम चंड्यी उदधिनी हो लाल, सु०॥ जिम कल्लो
 ल उदाम हो ॥ध०॥सू०॥ १४॥ स्नान प्रमुख सवि साचवी हो लाल, सु०॥ भूषण वख
 उदर हो ॥ध०॥सू०॥ भोजन जगति करी चत्री हो लाल, सु०॥ थाप्या गूतागार हो ॥ध०
 ॥सू०॥ १५॥ एहवे शीलवती सती हो लाल, सु०॥ पति प्रेमे तिणिवार हो ॥ध०॥सू०॥
 आवी धनपति मंदिर हो लाल, सु०॥ करे आकुंड पोकार हो ॥ध०॥सू०॥ १६॥ रे पापी मु
 ज वधु जणी हो लाल, सु०॥ राखी कीध अन्याय हो ॥ध०॥सू०॥ वली जट्ट पाले माह
 रो हो लाल, सु०॥ कंत ग्रहाब्यो शे न्याय हो ॥ध०॥सू०॥ १७॥ न्याय न दीसे गाममां हो
 लाल, सु०॥ एक घरे एह राज्य हो ॥ध०॥सू०॥ वसते गामे बालियो हो लाल, सु०॥ ए
 वडो करे अक्राज हो ॥ध०॥सू०॥ १८॥ वर वधु एवे मुज प्रते हो लाल, सु०॥ दो कडुं
 गोद विवाय हो ॥ध०॥सू०॥ नहितर पिण मुज कंतने हो लाल, सु०॥ मूकंतां शं जाय हो

॥ ध० ॥ सु० ॥ १ ए ॥ जीर्णं जरायुं जाजरो हो लाल, सु० ॥ चिंताश्री 'कृष गात्र हो ॥ ध० ॥
 सु० ॥ एहवो पितृ पति माहरो हो लाल, सु० ॥ मूकने तुं गुणपात्र हो ॥ ध० ॥ सु० ॥ १० ॥
 तव धनो माता नशी हो लाल, सु० ॥ तेडावे ततकाल हो ॥ ध० ॥ सु० ॥ अविनय खमज्यो
 मातजी हो लाल, सु० ॥ हूं तुमचो लघु बाल हो ॥ ध० ॥ सु० ॥ ११ ॥ माता मनमें उल्लसी
 हो लाल, सु० ॥ देखी पुत्र दीदार हो ॥ ध० ॥ सु० ॥ हरखे हैडं नीडियो हो लाल, सु० ॥ नि
 रखे वारंवार हो ॥ ध० ॥ सु० ॥ १२ ॥ वस्त्रान्नरणे ततकरणे हो लाल, सु० ॥ संतोष्या सुवि
 लास हो ॥ ध० ॥ सु० ॥ त्रीजे बड्हासे इग्यारसी हो लाल, सु० ॥ जिन कहे ढाल प्रकाश
 हो ॥ ध० ॥ सु० ॥ १३ ॥

॥ दोहा. ॥ हवे ते धनदत्तादि त्रय, आता करे विचार ॥ जइने धनपतिने गृहे, की
 जे प्रबल पोकार ॥ १ ॥ मात पिता ने लघु वहु, एणे राख्यां एकांत ॥ बल बलथी जो ली
 जीए, तो आपण मतिवंत ॥ २ ॥ इम चिंती त्रिण्ये तुरत, आव्या धनपति गेह ॥ उच्च
 स्वरथी ईम कहे, देय देय रे देह ॥ ३ ॥ अम माता ने तातने, ग्रही राख्या शे काज ॥
 आतवधू पिण जोलवी, ए वात्ते तुज लाज ॥ ४ ॥ सांजली धने तुरतमें, तेडाव्या आवा

१. सुकाई गणना शरीरखाली.

स ॥ बलाजराण विशेषधी, आपे धरि उद्धास ॥५॥ मात पिता बांधव बहु, मन्त्रियां मे
 धिर मांड ॥ धनपतिनी गुण वर्णना, करे ते भति उद्याह ॥६॥ इवे ते पावल त्रिएष बहु,
 चिते चित्त मऊर ॥ बल करी धनपतिये सवि, लीयो अम परिचार ॥ ७ ॥ एक बधुने
 कारणे, थे ठे सहने दुःख ॥ देखो ए ग्रामे इहां, अन्यायेथ्री सुख ॥ ८ ॥ जइए धनपति
 मंदिरे, कहिये गोव विठाय ॥ पति अम पकड्या शा झणी, मूक तुं करि सुपसाय ॥९॥

॥ ढाल १९ मी. ॥ (वीण म वाइसरे, विबल वाहं तुजने. ए देशी)
 करिय विचारने त्रिएये अबला, आवी धन आवासे ॥ चाररकके हांकी काढी, वि
 लखी अश्य विमाले ॥ देखो देवे रे, ए दिन अमने दीघा ॥१॥ ए आंकणी ॥ सांज पडी
 ने पति पिण न मिड्या, न मिड्या सुसरो सामू ॥ देराणी पण दूरे नाठी, फेरो पडी
 यो फासू ॥ देण ॥ १ ॥ हा! हा! घने अथम ए कीयो, वसते गामे वणीके ॥ बहार न पहांचे
 कोरनी एहने, चंडगुप्त जिम चणिके ॥ देण ॥ ३ ॥ इम बिलवंती ते निज स्थानक, रात्रि स
 मय तिहां आवे ॥ विरह बिलूधी व्याकुल थावे, पाणी अन्न न जावे ॥ देण ॥ ४ ॥ सुसरा
 सासु कंत विना ते, सूनो स्थानक लागे ॥ रात्रि गले तेम रोचे अबला, विरह विशेष जा

गे ॥ देण ॥ ए ॥ शुं अंभे वनमां रुषि संताप्या, माख्या मृगने मरडी ॥ के इंडां पंखीनां
 फोड्यां, के ईमालने नरडी ॥ देण ॥ ६ ॥ कंतने वश करवाने कारण, कामण्डां में कीधां ॥
 के शोकलडी गर्न गलाव्या, सातन पातन कीधां ॥ देण ॥ ७ ॥ के जलचारी जीवने माख्या,
 नांखी जाल ते जलमां ॥ वृषन्न प्रमुखने सकटे जोडी, मार वहाव्या थलमां ॥ देण ॥ ८ ॥
 के संग्राम कखां शूरतन, माखां माणस होडे ॥ के बल करीने वाट पडावी, धन ली
 धां मन कोडे ॥ देण ॥ ए ॥ अणगल पाणी पीधां अह निशि, पूरा प्रमुख न राख्या ॥
 *पालर वाकलना भगवंते, दोष अंतता दाख्या ॥ देण ॥ १० ॥ यतः ॥ अनुष्टुब्वृत्तम्. ॥
 संवहरेणयत्पापं, कैवर्त्तस्थेह जायते ॥ एकाह नितदाप्तोति, अपुतजलसंग्रही ॥ १ ॥
 ज्ञावार्थः—आ लोकने विषे निह्न माणसने जेटलुं पाप एक वर्षमां लागे बे, तेटलुं पाप
 अपवित्र (अणगल) पाणीना संग्रह करनारने मात्र एक दिवसमां लागे बे. ॥ १ ॥
 पंच थावरनी पग पग हिंसा, करतां महेर न आणी ॥ त्रसने पिण हणतां कोइ वेला,

* पालर एटले आकाशधी पडेलुं पाणी अने वाकल एटले भूमिधी नीकलेलुं पाणी; आ बने जात
 ना पाणीना पूराने एक बीजामां जेलसेल करे अर्थात् पालरना पाणीना पूराने वाकलना पाणीमां नांखे
 अने वाकलना पाणीना पूराने पालरना पाणीमां नांखे; आ रीते करवायी घणुंज पाप लागे बे.

अनुकंपा चित्त नागी ॥ देणार १॥ क्रोध लोभ जय हांसीने वश, कूडां आल जे दीयां ॥
 फल तेहनां भोगवयां निश्रे, धनवतिनी परे सीयां ॥ देणार २॥ चोरी कीची परधन लेवा,
 चोरने संवज दीयो ॥ भेल संभेल करीनि आप्यां, विसवासी धन लीयो ॥ देणार ३ ॥
 रूपवंत परनारी देखी, लीची मद्रथी उलाडी ॥ कामिनी कंत विठोहो कीयो, हृदय न
 जोयो झाली ॥ देणार ४॥ नंदराय परे परिग्रह सवला, लेई कीया भेजा ॥ ममताने वश
 कांड न जाणयो, जे वांडवा मरणनी वेला ॥ देणार ५॥ निशिभोजन जिजाने स्वादे, जांति
 जांति निपजाव्यां ॥ तेहना दोष प्रगट शिचशास्त्रे, जिनमतमें पिए आब्या ॥ देणार ६ ॥ यतः ॥
 चत्वारि नरकद्वारा, प्रथमं रात्रिभोजनं ॥ परस्त्रीगमनं चैव, संधानानंतकायके ॥ ७ ॥
 जावार्थः—रात्रिभोजन, परस्त्रीगमन, बोलअथाणुं अने अनंतकायनुं भक्षण; ए चार
 नरकनां वारणां ठे. ॥७॥ इत्यादिक जे पाप करमने, कीयां हशे कोई वेला ॥ तेहनां फल
 उदये इहां आब्यां, भोगविये सहु चेलां ॥ देणार १७ ॥ कहो किहां जडए क्किणि विधि क
 रीए, केहने उरले रहीं ॥ कोड न नाथ अमारे इहां कणे, जेहने सुख उःख कहीं ॥
 देणार १८ ॥ इम विलंबते रात्रि विहाणी, ते त्रिणयेनी तिवारे ॥ त्रीजे उद्धासे ठाल ए वा
 र्मी, कहि जिन श्रुत अनुमारे ॥ देणार १९ ॥

॥ दोहा. ॥ अथ प्रान्ते ते काञ्चिनी, त्रिण्ये अिली तेवार ॥ कोशंबीधे ततकणे, प
 होती नृप दरवार ॥ १ ॥ पोकारी परगट पणे, मांखे नृपने नाम ॥ देवयोग दुःखीयां
 अमे, करिये परनां काम ॥ १ ॥ सर खणतां धन्नातणो, करतां दुप्री पूर ॥ चूक्यो धन्नो
 चित्त थकी, देखी देराणी नूर ॥ ३ ॥ लालच दीधी लंपटे, सुसराने धरी स्नेह ॥ मूकजो
 तक्रादिक न्नाणी, लघु वधुने धरी नेह ॥ ४ ॥ इम ललचावी प्रति दिने, ललनां लीधी आ
 ज ॥ वारस पिण पकड्या वहो, अम विसासाड्यो काज ॥ ५ ॥ सुसरा सासूने वडु, त्रिण्ये
 नशंदना वीर ॥ धन्ने सरवे संग्रह्यां, धरिये क्लिण विधि धीर ॥ ६ ॥ तुमे न्यायी नरपाल
 ठो, पृथ्वीना पति शाह ॥ वहार करो वेगे हवे, करी कृपा सोह्राह ॥ ७ ॥ एक देराणी
 कारणे, पंचने धे पंचत्व ॥ एह अधम तुम राज्यमें, ते किम करे निसत्व ॥ ८ ॥ ते म
 दांध शामज थयो, करे अत्युग्र उत्पात ॥ तुमे ठो केसरी तस शिरे, अहो नृपति अम
 तात ॥ ९ ॥ यतः ॥ उपजातिवृत्तम्. ॥ दुष्टस्यदंरुःस्वजनस्यपूजा, न्यायेनकोशस्य च संप्र
 वृद्धिः ॥ अपकृपातोनिजराष्ट्रचिंता, पंचापिधर्माःनृपपुंगवानां ॥ १ ॥ भावार्थः—दुष्ट माण
 एसनो दंरु करवो, स्वजननो सत्कार करवो, नायवडे धन (तिजोरी) नी वृद्धि क
 रवी, अपकृपातपणुं, राखतुं अने प्रोताना देशनी चिंता राखवी; ए पांचे धर्म उत्तम

राजादना दे. ॥ १ ॥

॥ बाल १३ मी. ॥ (राग बंगाली. राजा महि नमे. ए देशी.)

निमुणी अवनना वयण विचार, राय चित्तें चित्तें त्तिणिवार ॥ राजा कोपथी ॥
अम त्रामत ए निपुण सुजाण, किम एद्वंवा करे कार्य मजाण ॥ राजा कोपथी ॥ १ ॥
ए अंकणी ॥ विकसित वदन ए बुद्धि निधान, एह तो निर्मल गंग समान ॥ राण ॥ न्याय
मार्गे ए वनें धीर, मह एदनी नरे रुडी प्रीर ॥ राण ॥ २ ॥ परनारीधी एदने न्याग, एता
धिन हुतो सबल सोजाग ॥ राण ॥ किम कीबू हडो एह अकाज, शुं खोशे ए मूलगी द्वाज
॥ राण ॥ ३ ॥ चित्तीने सामंत निवार, सूके नृप धन्ना आगार ॥ राण ॥ ते आन्व्या धरी मनमें
धीर, प्रणमी वेण धन्नाने तीर ॥ राण ॥ ४ ॥ केह सुणो अंग सुगुण गुणवंत, तुमे ठो चतुर
विचक्षण संत ॥ राण ॥ आश्रित जन आवार अनूप, तुमे बुहे रंज्या सवि नृप ॥ राण ॥ ५ ॥
कार्यवंशे तुमे निज भावात, राख्या हुजे परदेशी दाम ॥ राण ॥ मूको एहने स्वामी स
धीर. तुमे ठो परनारीना वीर ॥ राण ॥ ६ ॥ ए अत्रला अकुलाय आंम, पति विण एदने न
सुके काम ॥ राण ॥ उत्तन नर अवलानी सार, करतां कांड न लावे वार ॥ राण ॥ ७ ॥ तव
बोले धन्ना श्र धीर, सांचलोने तुमे माहम धीर ॥ राण ॥ अमे अन्याय न राखुं चित्त,

चालुं न्याय थकी अमे नित ॥ राण ॥ ७ ॥ अम माणस ठे अम आगार, नृपने एहनो शो
 ठे विचार ॥ राण ॥ राखे जो बल मनमें राय, नामे संतानिक नाम कहाय ॥ राण ॥ ए ॥
 लक्षानिक जे ताहु समर्थ, ए शो घरे अत्रिमान निरर्थ ॥ राण ॥ जो संग्राम करण घरे हों
 श, जो नावे तो ठे तुज सौंस ॥ राण ॥ १ ॥ सांजली धना केरां वैण, नृप पासे पहेल्या ते
 सेंश ॥ राण ॥ वात विचार सुणी ततकाल, नृप कोपे अयो काल कराल ॥ राण ॥ १ ॥ वज
 डावी रखनेर तिवार, निखुणी सज थया सुभट कूजार ॥ राण ॥ हय गय रथ पायक न
 हि पार, सैन्य अयो संग्राममें त्यार ॥ राण ॥ २ ॥ धने पिण निज सैन्य उदाम, सज्ज की
 धो तिहां युद्धने काम ॥ राण ॥ बिरुद ज्ञेसे तिहां चारण जाट, चिहुं दिशि सैन्य तखो
 बन्यो आट ॥ राण ॥ ३ ॥ जय पामे सवि पौरक लोक, सैन्योपड्व थकी घरे शोक ॥ राण
 ॥ आ अणजाणयो किम अयो काज, *जामाताशूं युद्ध अकाज ॥ राण ॥ ४ ॥ परदेशी माटे
 कुश आप, पेट चोर्तने उपावे संताप ॥ राण ॥ परिजन केहे इम जिन सुविदास, हाल ए
 तेरमी त्रीजे उडहास ॥ राण ॥ ५ ॥

॥ दोहा. ॥ युद्ध मंराणो जोरथी, अन्योन्ये असमानाते देखी कायर मरे, राखे + प्रल

* जमाइथी. + नासी जवानु.

पुन ध्यान ॥ ? ॥ राय संतानिक सैन्यमें, मामंत सत्रि सैनीर ॥ यत्राज्ञाहना कट हमें,
एक पत्र बडवीर ॥ २ ॥ धनपुर कोसंबी विंचे, रणनों कोरे संभाल ॥ मयज लोक जोना
मिड्या, मूही निज निज ठाण ॥ ३ ॥

॥ इत्य १५ मी. ॥ (देही कडखानी.)

सत्तल दल प्रवल रण रंग वेगे चढ्यो, नृप सतानिक तणो मान धरतो ॥ गुहिर
निशाण सुप्रमाण रणनूर तिल, धन घटा सयन आवाज करतो ॥ सणा ? ॥ ए आंकणी ॥
गज घणा मत्त उन्मत्त नूटा चले, शीघ्र सिंहूरथी करीव जोना ॥ अमर गुजारवे पूर्ण
रोझे नखा, वंत मूमल करीय दुर्ग खोच्या ॥ लणा ? ॥ कच कंयोज केकाण काडिमरना,
पाणिपंथा खुरासाणि कडीए ॥ नृप सतानिक तणा सैन्यमें हंसिता, ते सेवे जातिना
तुरिय लहीए ॥ सणा ? ॥ घणण घंटावली वृषभ कंठे बली, अति घणा तूर रथमांहे गा
जे ॥ रथ घणा एहवा सज कत्या समरमें, शस्त्र ठत्रीगाथी अधिक राजे ॥ सणा ? ॥ शिर
धरी छोपे कोपे करी चालता, मावता समरमें अति उवांहे ॥ वीर रमथी चड्या शीघ्र
जोगा घख्या, सुजट एहवा सदा सैन्यमांहे ॥ सणा ? ॥ नृप सतानिक तणो लहिय आदेश
वर, प्रहिय डिग्याव सामंत शूर ॥ युद्ध करवा जणी आवीया कमही, गाणीए जल

धि कञ्चोल पूरा ॥स०॥ ६ ॥ ताम धनशेठनो. सैन्य पिण सनमुखे, चालीयो देइ निशाण
 मंका ॥ अश्व रथ वीर गज धनघटा घणघणो, जाणीए राम चढ्यो लेण लंका ॥स०॥ ७ ॥
 नाल गोला घणा शब्द बहु तेह तणा, सांजली शेष पिण होत्र पावे ॥ तीर तरवार ना
 लातणा तेजश्री, अंबरे तरणि ते सन्नय थावे ॥स०॥ ८ ॥ चिंतवे शेठ ए युद्ध करते अके,
 रखे इहां माहरो मान गाले ॥ सैन्य दल प्रबल ठे ए सत्तानिक तणो, ताम सुरमणि प्रते
 ते निहाले ॥ स०॥ ९ ॥ निरखतां वेंत सेन्या वधी शेठनी, जाणीए जलधिनी पूर आयो
 ॥ सैन्य राजातणो सयल नासी गयो, यश थयो शेठनो अति सवायो ॥स०॥ १० ॥ नृपतणा
 सुन्नटने नासता देखिने, कामिनी तव कहे कां लजावो ॥ शूर तजी तूर हथियारने
 नांखिने, बधिक आगें तुमे केम आवो ॥ स० ॥ ११ ॥ मरणना ज्ञय अकी
 ज्ञागिया कां मुधा, मातने तात जाया लजावी ॥ पंचमे बेसि किम मूठ वल
 घालशो, एहवी कुबुद्धि तुज केस आवी ॥स०॥ १२ ॥ निसुणी नृप कोपियो सैन्य
 मुज लोपियो, बुपियो दाव ए आप केरो ॥ युद्ध कीधा विना माम खोई मुधा, ए सेन्या
 नी मुज अति अंधेरो ॥स०॥ १३ ॥ इम कही नृप चढ्यो कवच तनुधी जढ्यो, शिर धर्यो

मुगट अति तेज करतो ॥ प्रही करवाल विकराल निज जुजवले, पुनरपि सैन्यत्री शैर्ष
धरतो ॥ म० ॥ १४ ॥ आश्रियो ग्राम निज घामपर नरपति, ताम धनशेठ पिण शूर श्रोत्रे
॥ भागमि मरण एक शरण अरिहंतनो, फूजवा काज तिहां शेठ जावे ॥ स० ॥ १५ ॥
चित्ते ताम नृप सचिव सवि सामटा, एकटा एह सुसरो जमाई ॥ करिय संग्राम आ
राम को नवि लेहे, एक घरमें किस्ती ए कमाई ॥ स० ॥ १६ ॥ वारिये तो जनुं आय सुख
जुजनुं, लाज रडे नृपतणी अति विलासे ॥ ठाल ए चौदमी जाति कडखे कडी, विबुध
जिनविजय त्रीजे छड्हासे ॥ स० ॥ १७ ॥

॥ दोहा ॥ इम चिंतीने सचिव सवि, भाव्या नृपते पास ॥ करजोडी आगल
रही, एम करे अरदास ॥ १ ॥ स्वामीजी शो कोष ए, जामाताथी जोर ॥ करयो घटशे
किशिपरे, निज मन भाणो जोर ॥ २ ॥ दास्याथी अपजश हुवे, जीत्या पण जंजाल ॥
स्वच्छ अई जुठ चित्तमें, ए सवि तुमचा बाल ॥ ३ ॥ ए बालक अई बूढशे, पिण तुमे वडा
नारिंद ॥ बाबी हाथे वृहने, कुण वेदे मतिमंद ॥ ४ ॥ ए धने निज बुद्धिची, राखा हुजे नि
संसंक ॥ ते अमे जईने पूढिये, ते माणसतो वंक ॥ ५ ॥ इम कही नृप समजाविने, तेडा
वी ते नार ॥ कही वाई तुम कुल प्रमुख, मूल अकी अधिकार ॥ ६ ॥ तव ते लजाथी

करी, साश्रुपात दक्ष ताम ॥ स्वामीजी अमचो हुतो, प्रतिष्ठानपुर गाम ॥ ७ ॥ व्यवहारी धनसार वर, शीलवती घर नार ॥ पुत्र चार तस शोभता, धनइत्तादि उदार ॥ ८ ॥ इत्यादिक सघली कथा, निरविशेष कही जाम ॥ निसुणी मंत्री चमकिया, ए धनो अग्नि राम ॥ ९ ॥ मात तातने उलखी, यतन कराव्यां खास ॥ वस्त्रानरण गोरस प्रमुख, दीघां मन उडहास ॥ १० ॥ आकर्षी आवासमें, राखी खी सुकुलीन ॥ मात तात जाता प्रते, कीघा निज आधीन ॥ ११ ॥ कहेो बाइ ते धन प्रते, किम उलखशो ठीक ॥ शे कार एथी एहनो, निश्चय हुशे नजीक ॥ १२ ॥

॥ ढाल १५ मी. ॥ (गढडामें जूले सहियां हाथणी. ए देखी.)

सचिव कह्या ते सांभली बोलडा, कांइक धैर्य धरी मनसांह ॥ अमचे देवरिये स ही तो कौतुक केलव्युं ॥ ए आंकणी ॥ कहे ईम मंत्रीने मनरंगशुं, निसुणेने अमची वात उभांह ॥ अ० ॥ १ ॥ करतल लक्षण बत्रीशे नळां, वली पगे पदम अठे सुविचित्र ॥ अ० ॥ ते सहिनाण थकी अमे उलखुं, देवर अमचो पुण्य पवित्र ॥ अ० ॥ १ ॥ ताम ते मंत्री त्रिण्ये नारिने, तेडीने पहेत्या धनपति पास ॥ अ० ॥ करोय जूहारने वेठा यत्तथी, अ न्योन्ये विरचे वात विलास ॥ अ० ॥ ३ ॥ ए त्रिण्ये जामिनी धनपति देखिने, उलख्यो नि

अथ श्री आकार ॥ प्र० ॥ कहे धन देण कां दोलो नही, ममचा तुंमे जीवन प्राणाधार ॥
 प्र० ॥ ४ ॥ तव धनो दोलो कहौ तुंमे कोण ठो, जाडेन साधो नरोवर काम ॥ प्र० ॥ धनाने
 नामे धे जगमें वणा, सधदाने गजलो देवर ठाम ॥ अ० ॥ १ ॥ तव हस्ती भोजाइ कडे तेज
 शुं, तुंमे अम देवर ठो निरथा ॥ अ० ॥ गज नृती तुजचां चण पयावले, प्रत्येक धरठुं
 पदम दिदार ॥ प्र० ॥ ३ ॥ धनो कहे परस्तीने फरसुं नही, तो किम धोवरावीजे पाय ॥
 अ० ॥ प्रमे तो तुं आवक वतधारी सदा, डीयल पालुं मन वच काय ॥ अ० ॥ २ ॥ तव तेड
 सचीवि हठ कीवो धणो, शुं तुंमे गुप्त कने निज जाति ॥ अ० ॥ जाण्यो में कुल वंशादिक
 तुम तणो, ए तुम जोजाडे सादात ॥ अ० ॥ ५ ॥ तव हस्ती कहे धनो जानी तुंमे, खमज्यो
 सवि प्रमचो अयराध ॥ अ० ॥ हुं तुम देवर तुम परसादधी, सुख ए पासुं तुं निरावाध ॥
 अ० ॥ ६ ॥ स्नान शुशुंवा करवा कारणे, मूत्र्यां माताजी पाले ताम ॥ अ० ॥ हस्ती मली
 कुंडुं व सवि चेलो थयो, सडु कोने उपन्यो तव आराम ॥ अ० ॥ ७ ॥ वात जशाधी सची
 वे नृपतली, ए सति धनानो परिवार ॥ अ० ॥ एह्ये अणघटती वात न को हुंवे, एहनो
 तो उजस वे आचार ॥ अ० ॥ ८ ॥ राजा मन राजी थयो ते सांतली, धनो पिण अवि
 तेली वार ॥ अ० ॥ अर्थ सिंहासन वेनण आपियो, उर्वनि कीवो राय सुहाम ॥ अ० ॥ ९ ॥

पत्नी सुखप्रश्न करे इक वीनती, कहौ तुम सात पितादिक सर्व ॥अ०॥ हलवै हलवै क
 रिनै मंदिर मेलीया, नोजाइशुं एवढो शो तुम गर्व ॥अ०॥ १३॥ तव बोले धनपति नृप
 तुमे सांचलो, एहने हुतो कांइक मन अहंकार ॥अ०॥ स्त्रीधी अकार्य सदा बहु नीपजे,
 कलहनो मंदिर ए निरधार ॥अ०॥ १४॥ यतः ॥ अनुष्टुब्धुत्तम्. ॥ सुवंशो योप्यकृत्यानि,
 कुरुते प्रेरितःस्त्रिया ॥ स्नेहलं इधि मञ्जाति, पश्य मंथानको न किं ॥१॥ ज्ञावार्थः—जू
 डके, सारा वांसमां रहेलो एवो जे मंथानक (रवैयो) ते पण स्त्रीनी परणाए करीने
 स्नेहवाला इधने शुं नशी वलोवी नांखतो ? अपितु वलोवी नांखे बे ! तेम सारा वंश
 मां उत्पन्न अएलो एवो जे पुरुष, ते पण स्त्रीनी प्रेरणाशी शुं अकृत्यो न करे ? अपितु
 करेज ! ॥ १ ॥ तेह जणी एटलो जेइ देखाडियो, जे जणी न घरे मनमें मान ॥अ०॥
 लाखे वेचाणी तो पिण भोजडी, स्त्रीने बे तेह तयो उपमान ॥अ०॥ १५॥ यतः ॥
 माननितो मानज करे, जीत्यो कंत सुहाय ॥ जइ लाखीणी वाहिनी, तो पहिरीजे
 पाय ॥ १ ॥ बंधव स्नेह तिहां लगें जाणीए, जिहां लगें कामिनी वात न कान ॥अ०॥
 कोणिक राये हद्व विहद्वशुं, कीधो संग्राम ते स्त्री वच मान ॥अ०॥ १६॥ सुणी राजा
 धना वयण सुहामणां, मनमांही हरखे अतिही विशाल ॥अ०॥ त्रीजे उदहसि प्रेम प्र

काशनी, जांवी जिनविजये पत्ररमी ढाल ॥अण्णा?३॥

॥ बोहा. ॥ नूप पद्दोत्थो निज मंडिरे, करि बहुलो सत्कार ॥ धन्नो पिण भाव्यो घरे, परिचुत बहु परिवार ॥१॥ सहु को जन जयरव बवे, गाम गाम मिली थट्ट ॥ धन धन धनाशाहने, राख्यो वयण निपट्ट ॥२॥ मात तातने मोदथी, सोंपि सवि गृह सार ॥ कांताने कोमल पणे, संतोये सुप्रकार ॥३॥ सन्मान्या बांधव प्रते, वीधां सदन विशाल ॥ असन वसन आभूयणे, सुपरे करे संजाल ॥४॥ पिण ते त्रिण्ये निर्गुणी, जीत्र न रा खे गाम ॥ एक दिवस तस वचनिका, निसुणी चित्ते आम ॥५॥ मुज रहेतां एहने असु ख, कारण थाए भत्र ॥ तेह चणी दयिता सहित, दू जांनं अन्यत्र ॥ ६ ॥ इम चिंती ते प्रामने, वेंहंची वीधां त्रात ॥ हय गय पिण वेंहंची दीया, एह करी अखियात ॥७॥ मं दिर माल जंनार सवि, वीए तातने ताम ॥ राजगुडि जणी रंगशुं, मन राखे गुणधाम ॥८॥

॥ ढाल १६ मी. ॥ (महरि आंगणे हो राज, सेला मारु वावडी. ए देशी.)

हवे धन्नो हो राज नूपति प्रते इम वीनवे जी, करी विनव विवेकथी सार ॥ सुणो राजा जी ॥ अम आशा हो राज विसराम तुमे अणे, घणी शी करीए मनुहार ॥ सुण ॥ अम वीजे हो राज, कृपा करी शीखडी जी ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ मुज तातज हो राज,

आता सह. इहां अठे जी, तुम चरणे सुगुण निधान ॥ सु० ॥ एहनी स्वामी हो राज ख
 बर घणी राखजो, घशुंशुं कहीए तुम निधान ॥ सु० ॥ अ० ॥ १ ॥ नृप श्रेणिक हो राज जेवे
 ठे वाटडी जी, बली प्रतिदिन प्रेवे ठे पत्र ॥ सु० ॥ तेहनी पण हो राज माया ठे प्रति घ
 णी जी, तिये जावुं पढे ठे तत्र ॥ सु० ॥ अ० ॥ ३ ॥ शैठ शालिज्र हो राज गौज्रइनो सुत
 अठे जी, बलि कुसुमपालादि अनेक ॥ सु० ॥ ते पिय प्रेमे हो राज लिखे ठे प्रतिदिने,
 तेढावे ठे धरिय विवेक ॥ सु० ॥ अ० ॥ ४ ॥ तव नृपति हो राज आखे घनाशाह प्रते जी, शी
 वात कही तुमे एह ॥ गुणवंता जी ॥ अमे तुमशुं हो राज करी खरी प्रीतडी जी, पिय
 तुम मनमें नही तेह ॥ गु० ॥ किम दीजे हो राज कृपा करी शीखडी जी ॥ ए आंकणी
 ॥ ५ ॥ इहां बेठा हो राज लीला सुख भोगवोजी, अमने ठे जी तुमचो आधार ॥ गु० ॥
 तुम सरिखा हो राज मिले किहांथी सगा जी, सवि सुविहित जन शिणगार ॥ गु० ॥ कि०
 ॥ ६ ॥ तव धनो हो राज नृधव प्रते इम नरणे जी, तुम साहिब शुं कहे एम ॥ सु० ॥ अम
 ने जाणजो हो राज सेवक करी दूकडा जी, तुमचो केम विसरे प्रेम ॥ सु० ॥ अ० ॥ ७ ॥
 धरणीधव हो राज धनाने तव दिये जी, अति सुंदर तरल तुखार ॥ गु० ॥ गज घोडा हो
 राज सुखासन रथ नजा जी, बलि मणि माणिकमय हार ॥ गु० ॥ कि० ॥ ८ ॥ शीख लेइ

ने हो राज चाल्या राजगृहि जणी जी, दयिता दीय लेई संग ॥ गुण ॥ शुभ्र शुक्रने हो
 राज बहुल परिवारश्री जी, मन धरता अति उठरंग ॥ गुण ॥ अण्डाण्डाण्डा ॥ दीन केते हो राज
 लक्ष्मीपुर आवीया जी, तिहां राय जितारी सुविशेष ॥ गुण ॥ खाग त्यागे हो राज सब
 ल मनि नृपथकी जी, अरि नासी गया परदेस ॥ गुण ॥ अवि लुणजो हो राज प्रबल फल
 पुण्यनो जी ॥ ए आंकणी ॥ १० ॥ तस कांता हो राज गुणाबली गुणनीली जी, सती स
 कल मंदि शिरवार ॥ गुण ॥ पुत्रि रूप्यडी हो राज कला गुण वेदडी जी, नाम गीतकजा
 तस सार ॥ गुण ॥ ११ ॥ कला चोशठ हो राज श्रंगे आवी वसी जी, बली नाम तिसो
 परिणाम ॥ गुण ॥ एक दिवसे हो राज सखीश्री परिचरी जी, कांइ पद्दोती उद्यान सुगम
 ॥ गुण ॥ १२ ॥ स्नान कीथो हो राज पुष्करणीथी तिहां जी, देखे पुण्यादिक मनोहार
 ॥ गुण ॥ लेई वीणा हो राज गावे शुभ्र स्वरथकी जी, आम रागमें त्रिविध प्रकार ॥ गुण ॥
 १३ ॥ स्वर लीना हो राज कुरंग आव्या बही जी, बलि नाग प्रमुख बहु जीव ॥
 गुण ॥ स्वर रुडो हो राज अष्टुट ए निधि कक्षो जी, बली आणंड करण सदैव ॥ गुण ॥ १४ ॥
 १५ ॥ यतः ॥ मात्तिनीवृत्तम् ॥ सुखिनिसुख निधानो दुःखितानां विनोदः, अथण हृद
 यहारी मन्मथस्याग्रतूतः ॥ अति चतुर सुगन्धो बद्धजः कामिनीनां, जयति जगति

नादः पंचमश्रोपवेदः ॥ ? ॥ आवायः—सुखी पुरुषने सुखनो निधान, दुःखी पुरुषोने
विनोद कारक, कान तथा मनने हरण करनार, कामदेवनो अश्रुत, चतुर पुरुषने सह
लाइथी समजाय तेवो, स्त्रीने वद्वज अने चार वेद उपर जाये पांचमो उपवेदज होय
नहि ! एवो जे सुस्वर, ते जगत्ने विषे जयवंतो वर्त्तो ॥ ? ॥ एक आवी हो राज मृगी
स्वरथी तिहां जी, लयलीन थई रही ताम ॥ गुण ॥ तत्त कंठे हो राज ठवे निज कंठथी,
नृप पुत्री हार उद्दाम ॥ गुण ॥ करी क्रीडा हो राज आवी निज मंदिरे, तेह गीतकला
गुणधाम ॥ गुण ॥ निज तातने हो राज नमीने वीनवे जी, सुषो तातजी निज हित का
म ॥ गुण ॥ नृप ॥ ? ६ ॥ स्वर नोदे हो राज कुरंगी वश करी जी, कंठकी लावे हार ॥ गुण
॥ आ नवमें हो राज जे मिलझे एहवो, ते वरवो में प्ररतार ॥ गुण ॥ ? ७ ॥ तेह वार्त्ता
हो राज थई सवि थानके जी, जिम जलमें तैल प्रचार ॥ गुण ॥ ढाल सोलमी हो राज
त्रीजा उद्धासनी जी, कही जिनविजये सुविचार ॥ गुण ॥ ? ८ ॥

॥ दोहा. ॥ ते वार्त्ता धमने तुरत, सांभली सेवक पाल ॥ सुजग वेश पेशी चढयो,
राजसनाये खास ॥ ? ॥ कहे धनो धूनाथ सुण, वनमें मृगनो भेल ॥ सुलज अठे स्वरवं
तेने, पिण एक सांभल खेल ॥ ? ॥ वनमेंथी स्वरथी खरी, लावूं नगर मजार ॥ ते मृ

गिने कहे तो बली, भाणुं सनामें सार ॥ ३ ॥ ताल कंताल मृदंग ध्वनि, तेहथी न जेहे
 वीक ॥ जय नवि पामे कोथथी, रहे मुज पास नजीक ॥ ४ ॥ सुणि नृपति हरखित अई,
 शीनो तस अरोड ॥ तव धत्रो वीणा प्रही, भाव्यो ते वन देश ॥ ५ ॥ वाई वीणा वेगथी,
 स्वरथी गीत सुग्यान ॥ सस स्वर त्रिण ग्रामथी, उगणपचास ते तान ॥ ६ ॥ राग आला
 पे पट रली, रागिणी बलि ठत्रीश ॥ मिश्रित पट पट तेहनी, उपरागिणी सुजगीश ॥
 ७ ॥ ते नाडे लीना तुरत, आवे मृगना वृंद ॥ व्याघ्र व्याल सवि वश अथा, निसुणी गीत
 अमंद ॥ ८ ॥ हारालंकृत ते मृगी, भावी अति अनिराम ॥ घोषवतीना स्वर अकी, जय
 पामी तिले ठाम ॥ ९ ॥ धत्रो वीणा वजावतो, ते मृगी लेई संग ॥ चाड्यो लक्ष्मीपुर
 जणी, करतो क्रीडा रंग ॥ १० ॥ नगर मांडी ते संचल्यो, मृगीयुत नृप दरवार ॥ पदोत्यो
 ते देखी नृपति, कौतुक लडे अपार ॥ ११ ॥ नगर लोक विस्मय लहे, देखी मृगिनो पट ॥
 ए शू वीसे देवता, नर रूपे परगट ॥ १२ ॥

॥ बाल १७ मी. ॥ (राजूल वेठी मालीए. ए देशी.)

गीतकला गुण सांजली, मन हरखी हे अतिही आणंद के ॥ पूर्ण प्रतिज्ञा माहरी,
 एणे कीधी हे ए पूरण अंद के ॥ पुण्य संयोगे साजन मालि ॥ ११ ॥ ए आंकणी ॥ अजगां

टले हे वली कष्ट वियोग के ॥ मनवंवित सफलां फले, वली रूडा हे दिन पूरण जोग के
 ॥ पू॥१॥ राजा ५मात्य सेनापति, शोगदिक हो सवि करे परसंस के ॥ धन धन गीतक
 ला सती, पति पायो हे उत्तम भवतंस के ॥ पु॥३॥ हार लियो मृगी कंठधी, तव कन्या
 हे वरमाल उदार के ॥ धनाने कंठे ठवे, सडु नांखे हे मुख जय जयकार के ॥ पु॥ ४ ॥
 लग्न बेला साथी करी, परणावी हे नृपे कन्या तेह के ॥ दीधो बहुलो दायजो, वली दीधां
 हे अति सुंदर गेह के ॥ पु॥५॥ नृप आग्रहे धनशाह जी, रडे रंगे हे स्त्री त्रिणये साथ के
 ॥ विलसे जोग जली परें, नृप पूरे हे तस बहुली आय के ॥ पु॥ ६ ॥ अथ नृप मंत्री सु
 गुप्तनी, पुत्री रूडी हे सरस्वति अग्निधान के ॥ विद्यागुणायथी सरस्वती, कजा कोविद हे
 वली रूप निधान के ॥ पु॥ ७ ॥ बुद्धि परीक्षण कारण, गूढार्थो हे प्रहेलिका कडे एक
 के ॥ एहनो अर्थ कहे जिके, ते वरवो हे वर मननी टेके के ॥ पु॥ ८ ॥ प्रहेलिका यथा
 ॥ अनुष्ठुत्वृत्तम् ॥ गंगायं दीयते दानं, एक चित्तेन ज्ञाविना ॥ दातारो नरकं यांति,
 प्रतिग्राही न जीवति ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—एक चित्ते अइने गंगानदी उपर दान अपाय
 ठे, परंतु ते दान आपनारो मरीने नरकमां जाय ठे अने दान लेनारो मरण पासे
 ठे! एवुंशुं हशे ? ॥ १ ॥ जण जण अर्थ करे जूआ, नवि बेसे हे कोई अर्थ विशुद्ध के ॥

धने पिण सुषि अन्यथा, तस भर्त्सनो हे लिखे श्लोक सुशुष के ॥ पु० ॥ ७ ॥ श्लोक यथा ॥
 मीनोप्राही पलं देयं, कन्ये दातात्र धीवरः ॥ फलं यज्ञायत तत्र, स्तयोः तद्विदितं जिनैः
 ॥ १ ॥ नावार्थः—धनमुमेरे पाठना श्लोकना उचरमां कहुं के, हे कन्या! इहां दान लेनार
 माठनां, पायथा योग्य दान ते गल (पल) भने दान आपनारो पारधी जाएवो. तेमां दान
 लेनारने अने आपनारने जे फल आय ठे, ते फल जिनेश्वरे जाण्युं ठे. अर्थान् दान आप
 नारो पारधी नरके जाय ठे अने दान लेनारं माठनां मरण पामे ठे! ॥ १ ॥ श्लोक जि
 खी एक पत्रमें, पाठल लिखे हे गुताधिक पद्य के ॥ अर्थ विचारी एहनो, तुमे लिख्यो
 हे जामिनी मुज सद्य के ॥ पु० ॥ १ ॥ न लगेनाग नारिंगे, भिंवे तुंवे पुनद्धंगे ॥ कान्क्यु
 के लगेनैवं, मामेव्युके पुनद्धंगे ॥ ३ ॥ नावार्थः—नाग अने नारंगीमां जेगा न आय, पण
 निंवे मने तुंवमां जेगा थाय! तेमज वली काक बोले ठे जेगा न थाय, परंतु मामा एम
 बोले ठे जेगा थाय! हे कन्या! एवुं शुं इशे? ॥ १ ॥ न तस्यादौ न तस्यांते, मध्येयश्च
 व्यवस्थितः ॥ तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति, यदि जानासि तद्वदः ॥ ४ ॥ नावार्थः—जे चीज
 भादिमां नशी रहेती, तेम अंतमां पण नधी रहेती; परंतु वचमांज रहे ठे. वनी ते ची
 ज तारे पण ठे अने सारे पण ठे! तो, हे कन्या! ते शी चीज? ते तुं जाणती होय तो कहे!

॥ ४ ॥ कन्या बांकी पत्रमें, निज मननो हे ते पामी अर्थ के ॥ पिण धनोक्त सुश्लोकना,
 जाव न लहे हे उद्यम थयो व्यर्थ के ॥ पुण ॥ १ ॥ तव बेसीने सुखारसेने, सखी साथे हे
 गई धना गेह के ॥ लाज अकी कहे श्लोकना, नवि पामी हे हु अर्थ ठे जेह के ॥ पुण
 ॥ १ ॥ तव धनो कहे *उष्ट ए, शब्द शास्त्रे हे अठे एह विचारके ॥ अष्ट स्थानक ठे वरी
 ना, सोधी लेजो हे हवे अर्थ उदार के ॥ पुण ॥ ३ ॥ यतः ॥ अष्टौ स्थानानि वर्णाना—मुरः
 कंठः शिरस्तथा ॥ जिह्वामूलं च दंताश्च, नासिकोष्ठौ च तालु च ॥ १ ॥ जावार्थः—ठाती,
 कंठ, माथुं, जिह्वामूल, दांत, नासिका, होठ अने तालुं. ए आठ वर्ण एटले अक्षरोनां
 स्थानक ठे. अर्थात् ए आठ स्थानको वडे अक्षरोना उचार आय ठे. ॥ १ ॥ बीजे पद्ये नेत्र
 ठे, तव सरस्वती हे सुणी अर्थ सुजाण के ॥ एहना पद्यना अर्थने, नवि पामी हे तिले
 नियति प्रमाण के ॥ पुण ॥ ४ ॥ तव मंत्री पुत्री प्रते, कहे ताहरी हे अई पूर्ण प्रतिज्ञ के ॥
 वर वरो ए मन होंशथी, बुद्धिंतो हे सुंदर अति सुज्ञ के ॥ पुण ॥ ५ ॥ चिच हरखे ते सर
 स्वती, निज तातनुं हे करे वचन प्रमाण के ॥ शुभ दिवसे मंत्री तदा, परणावे हे ते अ
 वसर जाण के ॥ पुण ॥ ६ ॥ विचव दिये बहु ज्ञांतथी, सुख विलसे हे चारे खी संग के ॥

* हेष.

प्रीति उद्वृत्तसे शोभती, उल्लस गनगम्भी हे कक्षी जिन मन रंग के ॥ पुष्पा १७ ॥
 ॥ शौहा ॥ राजा माने अनियगुं, देवी वृद्धि प्रकार ॥ मंत्री विण कार्याधिक, पूरे
 मान विचार ॥१॥ बुद्धिचंत देखी बहुल, पूरे नय नय नेत्र ॥ यत्रोडाह उत्तर सुरत, आंग
 परी उमेर ॥२॥ चारे बुद्धिची चतुर, चंतन लहे सुग सार ॥ निम चारे नारी अकी, सुव
 निवसे श्रीकार ॥ ३ ॥

॥ डाल १७ मी. ॥ (चारे चव्याणी राणी चेलणा जी. ए देशी.)
 पदेथ ते लक्ष्मीपुरे जी, पत्रामल नामे छदार ॥ कोडि चत्रीश सौचनतणो जी, अ
 विपति ठे शाहकार ॥ देखो देखो बुद्धिचल मोडको जी ॥१॥ ए आंकणी ॥ डोटको नदी
 जतलेज ॥ सुख दिये जेह आपद पडे जी, बश करे देश परदेश ॥ देखो ॥२॥ मुंदरी नामे
 तम महिनी जी, पुत्र शुभ लक्षणा चार ॥ राम ने काम गुणधाम ठे जी, दयाम चोथो सुव
 कार ॥ देखो ॥३॥ प्रन्नर रूपथ्री उपती जी, शोभती लक्ष्मी प्रनिरूप ॥ लक्ष्मी नामा तल
 ऊचरे जी, पुत्री उपनिषद स्वरूप ॥ देखो ॥४॥ दान यात्रादि शुभ स्थानके जी, वन व्यय
 करे पत्रामल ॥ तप जप देवपूजा सदा जी, आचरे तेह अग्रह ॥ देखो ॥५॥ अंत वय
 आची तप ऊपत्यो जी, रोग ते विविध प्रकार ॥ मरण जाणी तव मायणे जी, नेक्या

तिहां पुत्र ते चार ॥ देखो ॥६॥ सांचलो पुत्र सुपुत्र ठो जी, माहरा जीवनप्राण ॥ मानजो
 शीख एक अमत्तणी जी, तुमे ठो अति चतुर सुजाण ॥ देखो ॥७॥ बांधव कोइ कारण
 थकी जी, द्वेष मत धारजो धीर ॥ बांधव सम कोइ ठे नही जी, प्रेमनो पात्र सधीर
 ॥ देखो ॥८॥ कंचन कामिनी सुलभ ठे जी, सुलभ ठे मंदिर वात ॥ सुलभ पुत्रादि सवि
 पामवा जी, सुलभ ठे मातनो जात ॥ देखो ॥९॥ यतः ॥ कहुन होए लींबडो, पिण तस
 ताढी बांह ॥ बंधव होए अबोलणां, तोहि पोतानी बांह ॥१॥ धनतणो ध्यान नवि धारि
 ये जी, धन सदा अनरथ मूल ॥ अंगनो मेल ए जाणवो जी, धनथकी सयण प्रतिकूल
 ॥ देखो ॥२॥ सातखेत्रे धन वाक्खो जी, ते थयो आपणो सार ॥ शेष धन पाप कारण
 सही जी, जाणजो चित्त मज्जार ॥ देखो ॥३॥ पिण एह समय धनवंतने जी, मान
 आपे सहु लोक ॥ धनथकी लाज जगमें रहे जी, धन विण माणस फोक ॥ देखो ॥४॥
 धनथकी धर्म साधन हुवे जी, धनथकी दान देवाय ॥ धनथकी जीवरक्षा हुवे जी, धन
 थकी सुजस सवाय ॥ देखो ॥५॥ निर्धन आदर नवि लहे जी, निर्धन शब सम होय ॥
 धन विण कोय धीरे नही जी, प्रत्यय न धरे तस कोय ॥ देखो ॥६॥ तेह प्रणी धन
 तुमे राखजो जी, पिण मत करजो क्लेश ॥ क्लेशी दुःख लहेसो घणो जी, इह परभव

सुविदार ॥ देवो ॥ १ ॥ यतः ॥ अन्तुवृत्तम् ॥ प्रतापो गौरधं पूजा, श्रीयगः मुगलंपदा ॥
 कुवतागप्रमल्ले, यावन्नोपयते कलि ॥ २ ॥ ज्ञानार्थः—प्रताप, महोदाह, पूजा, जग्मा,
 जज्ञा, अने न्यसंपादा; ए सर्वे ज्यां म्ही कुलने निय हेरा न नृत्त आय, त्यां नृयो वने,
 ॥३॥ कुटुंबे हेरा कते धके जी, ज्ञान मर्पाद सनि जाय ॥ लघुता लक्षिये निज नाति
 मां जी, चिंतित कार्ये ननि श्राय ॥ देवो ॥ ४ ॥ बांधव हेरा बहु दुःख वीये जी, जगत
 वाचनवी जेम ॥ कोणिके हल्ल विहल्लयुं जी, न गणयो एणे बांधव प्रेम ॥ देवो ॥ ५ ॥
 पांश्व कौश्व कृष्तां जी, कुल क्व भयो नवि तास ॥ ते ज्ञणी बांधवयुं तुमे जी, गखजो
 स्नेह सुप्रकान ॥ देवो ॥ ६ ॥ बांधव स्नेहशी तुम प्रते जी, को न गजे इणे गम ॥ कंठक
 वाडना वसधकी जी, चुठ अगंजी इए गाम ॥ इखो ॥ ७ ॥ निर्येन बांधवे पस्वियो जी,
 इए वसयंत सदैव ॥ तंतुयोगे पट नीपन्यो जी, वल खमे अत्रिक तथैव ॥ देवो ॥ ८ ॥
 झीण अमची अत्रे ए घणी जी, कलह मत करजो तुमे पूत्र ॥ दात्र अदागमी जिने कधी
 जी, गावत्रो अम घरसूत्र ॥ देवो ॥ ९ ॥

॥ दाहा ॥ जेदा रहेजो जावयुं, चारे तुमे गुपात्र ॥ प्रीति जत्री पेरे पावजो,
 अन्वयेचे शुनि गात्र ॥ १ ॥ अन्वयेमे पौत्रादिक बांध, न रहेवाये एकत्र ॥ तो तुमे प्राजो

जूजूआ, द्वेष न धरशो तत्र ॥१॥ तुम चारे नामे करी, कलश चार धन पूर्ण ॥ चारे दिशि
 थाप्या अबे, में समकाले तूर्ण ॥३॥ ते लेजो तुमे उलखी, धनथी सरिखा चार ॥ खाजो
 पीजो खरचजो, वलि करजो व्यापार ॥४॥ शीख देई इम पुत्रने, पचखे चारे आहार ॥
 चार शरण शुभ्र ज्ञावथी, धारे चिच मजार ॥ ५ ॥ चोराशीलख जोनिने, खमे खमवे
 आप ॥ अणसण आराधन करी, बडे पापनो व्याप ॥६॥ नवपद ध्यान संनारते, पहेत्यो
 ते परलोक ॥ प्रेतकार्य करी अनुक्रमे, पुत्रे बांढ्यो शोक ॥७॥

॥ ढाल १ ए मी. ॥ (केसर वरयो हो, काढ कसुंबो महारा लाल. ए देशी)

तेहवे आता हो सुगुण विख्याता मारा लाल, उत्तम दाता हो कुलना त्राता मारा
 लाल ॥ अनुक्रमे तेहने हो संतति थावे माण, बहुलपणाथी हो कलह जगवे माण ॥१॥
 तव ते चिते हो तातनी वाणी माण, कलहथी दुःखिया हो थाये प्राणी माण ॥ ते ज्ञानी
 जोजन हो जूजूआं कीजे माण, निज नामांकित हो कलश ग्रहीजे माण ॥१॥ चित्तमें चि
 ते हो ते समकाले माण, भूमिथी काढी हो कुंभ निहाले माण ॥ प्रथम कलशमें हो ले
 खण खडियो माण, वलि वलि मोटो हो कागल दडियो माण ॥ शीबीजे कलशे हो दृषदने
 माढी माण, ते पिण देखी हो रखा जेराटी माण ॥ त्रीजे कलशे हो हाड ते बीसे माण

अथाशिकतां हो देखी गीसि मा० ॥४॥ तनु कथने हो कलवा संशने मा०, भाय तो
 नानी हो कौडी कमाने मा० ॥ ते तो राजी हो धयो निज मनमें मा०, ताते दीया हो गु
 ल मुज तनमें मा० ॥ १ ॥ नाम ते धियाये हो धनन देखी मा०, चाले बडवड हो आज
 न देखी मा० ॥ कयडा परंतां हो तात बरांतो मा०, कुटिलपणाधी हो कीनां हांतो मा० ॥ ३ ॥
 ए धन सयबो हो फिरी गंधीजे मा० ॥ गहनी वाते हो बिलंब न कीजे मा० ॥ नातना
 पैसां हो सजेने सरियो मा०, पुत्रमें अधिको हो कोय न परखयो मा० ॥ ३ ॥ तय अनु बो
 ल हो ताते मुजने मा०, ए निधि आधी हो दुजे तुजन मा० ॥ तुमंच जागे हो लेखण
 पाटी मा०, वनि अस्वपादिक हो उपलने माटी मा० ॥ ४ ॥ कतह ते जाग्यो हो धनयो
 घरमें मा०, वात ते चाली हो बयती पुग्में मा० ॥ नाति जातिथी हो समजण नांच
 मा०, तय न चढता हो दुराये जांच मा० ॥ ५ ॥ नृपति सुगीने हो चिन विचारे मा०, ता
 त तनुजेन हो किम इम थारे मा० ॥ मंत्रिने नेडी हो ममजत कीधी मा०, गिणते वाना
 हो कांड न मीधी मा० ॥ ६ ॥ तेहचे धनाति हो मुजरे आवे मा०, आरु देजेन हो नृप
 ति चोलावे मा० ॥ दाने मसजी हो वात ते बीनी मा०, न्याय करतां हो असमति नीनी
 मा० ॥ ७ ॥ तय केहे बन्ना हो चिन विचारी मा०, नातते एहनो हो हुडो अधिकारी मा० ॥

स्वामी एहने हो इहां कएते डो माण, तुम देखतां हो करीश निवेडो माण।१३। सुणी
 नृप हरख्यो हो तेह बोलाया माण, बंधव चारे हो ततकए आया माण। कहे तव धनो
 हो तुमने जाणी माण, ताते दीधी हो सदश कमाणी माण।१३। जेहने दीधो हो नामे
 पोढो माण, देवे देवे हो सहुथी दोढो माण। तेहने दीधो हो लेहयो लेखो माण, वांची व
 हिमें हो हृदयमें देखो माण।१४। व्यापारीने हो मनमें जाणी माण, गृह क्षेत्रादिक हो
 नृमि कमाणी माण। धान्य प्रमुख पिण हो तेहने दीधो माण, मृत्पाषाणे हो निश्चय की
 धा माण।१५। पशु व्यापारी हो जाण्यो जेहने माण, गज अश्वादिक हो दीधा तेहने माण।
 वली गो गोकुल हो ते पिण कहिये माण, अस्थी देखी हो ते सदहिये माण।१६। लघु सु
 त जाणी हो तात प्रमाणी माण, मन हित आणी हो सकल कमाणी माण। मंद अ
 ज्यासी हो ए न कमासी माण, ते नशनी दीधो हो धन सुविलासी माण।१७। एकेका
 न हो धन सुविशेषे माण, अड अड माने हो कोडि ते लेखे माण। जोशो लेखो हो क
 र्तिने जेहमें, उठो अधिको हो कांइन एहमें माण।१८। तव ते बेग हो करवा लेखो माण,
 दफतर काढी हो सयलो पेल्यो माण। व्याजने मेले हो धन सरवालो माण, आव कोडी
 नो हो शयो हवालो माण।१९। घर आपणने हो क्षेत्रने वाडी माण, धान्यना कोवा हो

रंक्षने गारी मा० ॥ लेनो तेहनो हो कौयो जाणी मा०, भठ कोडी वननी हो बहिन
 तिनगणी मा० ॥२०॥ एक अत हाथी हो भयुत ते रोडा मा०, एक अत गोमुच हो न
 चत गजोडा मा० ॥ अष्टादिक तिमज हो मैल ते कौयो मा०, अड कोडी मन हो ते थयो
 नौयो मा० ॥२१॥ हरक्या तव चोर हो वंश्च मनमें मा०, नूक्यो जोजन हो तिम जोहे
 वनमें मा० ॥ नृपने प्रणमी हो मंदिर जाने मा०, वनाना गुण हो मनमें ध्याने मा० ॥
 ॥२२॥ गुणना रागी हो मरु हो जगमें मा०, रुडा गुणिन हो ग्रहिये नगमें मा० ॥ वीजे
 उडशमें हो डान रमीली मा०, ए ओगणीशमी हो जिनने रंगीली मा० ॥२३॥

॥ दोहा. ॥ चारे चांधव चिंतये, एडनी गुण असमान ॥ ऊगण थडण क्लिण निंधे,
 एहठे नाग्य निधान ॥२॥ लटमी मम लटमी अत्रे, बहिन आपणे एक ॥ वीजे एहने
 दिन धरी, ए आयणो निवेक ॥३॥ चिंतनि वनशाहने, शुभ वेला शुच योग ॥ परणाने
 नगिनी प्रते, जाणी सट्टा संयोग ॥ ३ ॥ तेहशुं विविध संसार सुण, जोगेने धरि बडु प्रे
 म ॥ पंचित्री लीनो रहे, पंच मुमनि मुनि जेम ॥ ४ ॥

॥ डाल २० मी. ॥ (प्रणमुं गिरजानंदना. ए देशी.)

एहने ते लटमीपुरे, कृपिक तणो वे शेठ ॥ वनपान्नालिय नामथी, वननी करे

नित वेठ ॥१॥ खावे नपीवे नवि देवे, लेवणनी करे वात्त ॥ सुंबमांही शिरदार ते, अह
 निशि करे पर तात ॥ २ ॥ एहवे एक कोइ याचक, याचवा आव्यो तास ॥ मीठे वचने
 बोलाविने, बेसाख्यो लेइ पास ॥ ३ ॥ कहे याचक सुणो शेठजी, कीजे न दान विलंब ॥
 आयुतणी गति अशिर ठे, तेह ज्ञणी अबिलंब ॥४॥ तत्र बोळ्यो याचक प्रते, देशुं प्रजाते
 दान ॥ जोजन व्यंजन जावतां, तांबूलादि प्रधान ॥५॥ ऊठी गयो तव याचक, आव्यो
 प्रजाते गेह ॥ कवित गूढार्थ गाहा तस, गुण वर्णन करे तेह ॥६॥ कहे तव सुंब शिरोम
 णी, तूं आवे परजात ॥ देशुं जोजन जावतां, तांबूळ युत विख्याता॥७॥ तिम त्रीजे दिन
 आविने, बोले याचक एम ॥ शूरे कृपण नथी आपतो, जोजन व्यंजन तेम ॥८॥ ज
 गमें यश रहेशे पिण, नहि रहे तन धन मान ॥ रावण सरिखा राजवी, ते पिण चाळ्या
 निदान ॥ ए ॥ नंदराय धन मेलिने, जेळ्यो समुद्र मजार ॥ मम्मणशेठने सागर, पहे
 त्या नरकागार ॥१०॥ दीधुं रहे अविचल अइ, खाधुं खूटी जाय ॥ सापुरिसानुं जीवित,
 दानथी सफल गणाय ॥११॥ देतां देतां पात्रने, धननी थाये वृद्धि ॥ मूलदेव परे ततक
 णे, पासै सकल समृद्धि ॥१२॥ यतः ॥ शार्दूलविक्रीडितवृत्तम्. ॥ श्री नाजियजिनेश्वरो ध
 नप्रवे श्रेयःश्रियामाश्रयः श्रेयांसश्च स मूलदेववृत्तपतिः सा चंदनानंदना ॥ धन्योसौकृत

पुण्यसौगतत्वः श्री शान्तिनवनिधेः सर्वपुण्यसमयानमानविधिना जाताजगद्विश्रुता ॥१॥
 मानार्थः—प्रथम तोश्रीहर श्री हरचर्येयस्यामी, ते चनलार्थोद्दना जयमां (पुनर्नृदान
 देवाधी) कष्टपाण रूप लक्ष्मीना घर ठता, ते, श्रेयांसकुमर, मन्त्रेय राजा, चन्दनचाला,
 तथा पूर्वजने निवे कर्मुंठे पुण्य जेमाणे एवा आ वज्रकुमर अने शान्तिनवकुमर; ते सर्वे
 पाण उजम दान भने सम्माने करी जगतने चिरे बिल्यात भयो ठे. ॥ १ ॥ तत्र चोद्दो
 अशक्तो, धीमे आ तूं वीर ॥ आज र्मोडं न नीपनी, कार्ये विशेषश्री वीर ॥१३॥ इम
 करने कत्ते तसु, मास भयो इक नाम ॥ तान ते याचक चित्तवे, सुवनी पादुं माम
 ॥१४॥ इम निताने जैरनी, देहेरे वेत्रो तेद ॥ श्रुते विद्यानो सायन, साथे शुचि करी देह
 ॥१५॥ कुंन करी पट कोणनो, हयन करे तिहां ग्याम ॥ जप जपतां इकवीश ते, तास भया
 वरयास ॥१६॥ नंदिहा ताम प्रगट थर्ड, केहे तुं नञ्च नर माग ॥ हूं तूडी तुज ध्यानयी,
 ताहगे महोदो ज्ञाप्य ॥१७॥ तत्र चोद्दयो ते याचक, पय प्रणमी सुविचार ॥ रूप परात्र
 जंक मुज, ये विद्या सुबकार ॥१८॥ देवीधि दीधी ततक्षणे, विद्या तेद प्रयान ॥ ते तेदे
 ते याचक, उद्यो थडं सावधान ॥१९॥ एहेवे ते वनकामिक, ग्रामांतर गयो ठीक ॥ जा
 णीने घनपाशनो, रूप कखो निग्नीक ॥ २० ॥ माव्यो कुर्यातथे धरे, ते याचक वरी

रूप ॥ पूठे पाठा किम वड्या, तुरत तुमे धरि चूप ॥११॥ तव कहे शुकन थया अति,
 मुज मध्यम जिणि वार ॥ तियो तिहांथी पाठो वड्यो, विचमें मिळया अणगर ॥ १२ ॥
 देशना देता देखिने, हुं वेवो सुनि पास ॥ अमृत वाणी अति जली, सांजली थयो उडहा
 स ॥ १३ ॥ आयु अशिर अंजली जल, ऊपम एहने थाय ॥ धन पिण नदीय प्रवाह ठे,
 कोयथी राख्यो न जाय ॥१४॥ योवन संध्या रंगे ठे, सुपन सदृश संयोग ॥ रमणी रंग
 पतंग ते, विष सम विषय संगोग ॥ १५ ॥ रोगे करिने पूरित, काया अशुचि प्रंगार ॥
 तेहमें दानादिक करे, तेहनो धन्य अवतार ॥१६॥ यतः ॥ शार्दूलविक्रीडितवृत्तम् ॥ आयु
 वीरितरंग जंगुरतरं श्रीस्तूलतुड्यस्थिति, स्तारुण्यं करिकर्ण चंचलतरं स्वभ्रूपमाः संग
 माः ॥ यच्यान्यड्मणीमणी प्रभृतिकं वस्तुंचतच्चास्थिरं, विज्ञायिति विधीयतामसुमता
 धर्मस्सदा शाश्वतः ॥१॥ ज्ञावार्थः—आजखुं पाणीना तरंगनी पेठे अतिशे नाशवंत, ल
 द्दमी वणकरना कांठलानी पेठे चपल स्थितिवाली, तरुणपणुं हाथीना काननी पेठे अ
 तिशे चंचल, कुटुंबीनो मिलाप स्वप्न तुड्य, तेमज ल्ही, मणि अने मायेक विगेरे जे
 कांई पदार्थ, ते सर्वे पण अस्थिर ठे, एम जाणीने प्राणीए शाश्वत एवो धर्म करवो जो
 इएः ॥१॥ सांजलिने मुज चित्तमें, उपन्यो सबल संवेग ॥ कृपणपणो हवे बांडवो, मां

इतो शान्तुं नग ॥२३॥ ते जगती भाजत्री कौयने, मत कंठ जो नाकार ॥ जे मांगे ते ते
 हने, जे जो वान उदार ॥ २७ ॥ तुमे जो बुद्ध तात्प्रामणा, तात वचन प्रतिपाल ॥ वेता
 धन गुंटे नदी, जगजो चित्त विचाल ॥२७॥ पाठ कोडि धन भाषणो, ठे नृमिगत जे
 ॥ ते पिण काढी दीर्जीए, लीजीए लाज अंबद ॥३७॥ यतः ॥ अनुदुबुधनम् ॥ मा भं
 स्या शीयते विनं, दीयमानं कदाचनः ॥ कृपागम गवादीनां, इदतामेव संपदः ॥ ३ ॥
 जगार्थः—हं पुत्र ! भयानुं धन कश्चि पण क्रीण आयंते एम तुं न मान. कारण के कृया
 मांथी जेम जेम पाणी काढीए ठीए, तेम तेम पाणी वृद्धि पांमे ठे, वर्गीचामांथी जेम
 जेम फूलो लेंडए ठीए, तेम तेम नवां फूलो आयंते अने गायने जेम जेम दोद्विरे ठीए,
 तेम तेम ननुं दूर उत्पन्न आयंते ते कारण मटे जेम जेम दान आयीए, तेम तेम धन
 नी वृद्धि आयंते. ए तात्पर्यः ॥३॥ तथ ते कपट भजाणना, वचन कर सुप्रमाण ॥ दान
 विषे अन्न निशि मुदा, गावना चित्त शुन ध्यान ॥ ३ ? ॥ भसन वसन आभूरण, आय
 निविष प्रकार ॥ नाकारो जूनी गया, मांढो ये अे कार ॥३३॥ केवने काट जे जालिने,
 ते गेने सुर नर धीर ॥ पिण कोडं तेहने नवि लोहे, जिम जेठ्यो जल ग्नीर ॥ ३३ ॥
 काट न कीर्तन कौयत्री, इम केहे जिन मुक्तिदांस ॥ दान अड ए वीदामी, शुन वीजे

उडहारा ॥ ३४ ॥

॥ दोहा । ॥ इम दिन आव लगे तिले, दीधो अइ निशि दान ॥ नाति जाति पोखी
प्रली, लीधो यश असमान ॥१॥ ते वार्त्ता वधती अई, नगर देश पुर गाम ॥ सुंवे ते पि
ए सांनली, थयो वित्रम तिले राम ॥२॥ आव्यो अति उतावलो, निज गृहांगण जाम
॥ दीधो प्रतिलूपी तिहां, बेगो छे बहु दाम ॥३॥ बोड्यो सुंव रोशो करी, तुं कुण ठे चंमा
ल ॥ मुज मंदिरो पति थइ, बेगो इहां चोसाल ॥४॥ धन सयलो तें माहरो, विणसाड्यो
शे माट ॥ ऊठ ऊठ जा इहां थकी, पकडी कोईक वाट ॥५॥

॥ ढाल ११ मी. ॥ (धन धन जननी बे लाल. ए देशी.)

तव ते बोले बे लाल, धूर्त्त कला करी ॥ माहरे सुवने बे लाल, इं रहुं दिल धरी
॥१॥ तुटक० दिल धरी इं रहुं दान देतो, नथी लेतो केहनूं ॥ धन माल मिलकत माह
री जे, भोगवुं सुख तेहनूं ॥ तूं कवण कपटी इहां आयो, धायो स्वानपरे अई ॥ कुल
जाति हीणो अठे दीणो, अकल बुद्धि दीसे गई ॥२॥ चाल-सुंवने कपटी बे लाल, बिहुं
प्रेला लडे ॥ पुत्रादिकने बे लाल, शुद्धि न को पडे ॥३॥ तुण न पडे शुद्धि ते सयण सड
ने, तब ते बिहुंने काढिया ॥ ते कलह करता मान धरता, वचन बोले गांढिया ॥ तिहां

पांशु नेत्रा मिदया संभंगा, पिण अमान न को पंडे ॥ बहु प्राम लोकौ परित्या त, गान
 रगोर नडे ॥ ॥ ॥ बाल-मजा देवी ने लाल, मुग्धदे गयो ॥ सचिचने पहना वे जाल,
 द्याग तरंगो कयो ॥ ॥ ॥ तुं कयो पहनो न्याय करिये, तो तुम चुडि सोडामर्णा ॥ तव
 अग्नि रंगे प्रन करटनी सुत्र, गवर न पंडे अनि धर्णा ॥ महादेवन वलिगय सगिया,
 राम पिण तनुमे पह्या ॥ सुभो करुट करीने उंड ते पिण, अष्टिद्वयाडुं प्रायत्या ॥ ६ ॥
 नान-पुष्टे यत्रो वे जाल, परिजनं परित्या ॥ नुपने देवी वे लाल, आदर अति करयो
 ॥ ७ ॥ तुं अनि कृत्या आदर लही यत्रो, मनामे नुर सासिगो ॥ ऊनउंता देवी ते विहुने,
 कियो ननरुण पासियो ॥ तव माय बोले अति अमृजिक, कृत्या वे धनपालनी ॥ जे
 न्याय कग्नि सन्य दाले, ते वरे गुणमासिनी ॥ ७ ॥ बाल-सव कहे यत्रो वे लाल, एलमा
 तुं अठे ॥ एतेने निवेडी वे जाल, त्रिमयुं उर पत्रे ॥ ७ ॥ तुं पत्रे त्रिमयुं ए निवेडी,
 कही कमन प्रणार्थीयो ॥ ने नुरजिगंधे अनिहि सुंदर, देवी सहु मन नार्थीयो ॥ ए क
 हन सुगची पैसिने जे, नीसरे नाले धरे ॥ धनपाल ते सही जालनो उम, गान पत्रे सु
 म कही ॥ ८ ॥ बाल-नव ते करटी वे लाल, विद्या बल अही ॥ पैनी सुगधीने नाल,
 नीसग्यो उत्र अही ॥ ९ ॥ तुं बलकही नीसगतो अहो तम, बांधीया बंधन करी ॥ क

हे कपट एतो केम कीधो, विद्या ताहरी ठे खरी ॥ तव कहे याचक सुंब मुजने,
कडे जोजन नापतो ॥ परजाते जोजन आपशुं मुज, उत्तर एहवा आपतो
॥ १९ ॥ यतः ॥ अनुष्टुब्धम् ॥ प्रगेदास्ये प्रगेदास्ये, जोजनं जोस्तवेत्यहं ॥ मा
सं प्रतारितोऽनेन, कृपणेन महीपते ॥१॥ जावार्थः—हे राजन् ! काल सवारे जोजन आ
पीश, काल सवारे जोजन आपीश, एम कही कही एक महिना सूधी धक्का खवरावी
ए कृपणे मने ठग्यो, तेथी मारे आबुं करबुं पड्युं ॥ १ ॥ चाल—तव में कोपे बे लाल,
सार्धा नैरवी ॥ तिणे मुज दीधी बे लाल, विद्या अजिनवी ॥१३॥ तु० अजिनवी विद्या
ताम साधी, रूप कीधो एहनो ॥ में दान दीधो लान लीधो, काज सीधो देहनो ॥ सुणी
लोक संघळो कहे सारो, काम कीधो इह नवे ॥ साबाश तुजने अहो बांधव, सुख लहि
श वळी परनवे ॥१४॥ चाल—निसुणी धन्ने बे लाल, बंधन ठोडियो ॥ कहे नृप तेहने बे
लाण, काम नलो कीयो ॥१५॥ तु० कियो नलो तें काम जाई, इम कही सनमानीयो ॥
नमि नूपने धन्ना प्रते तव, प्रयाणो तेणे कीयो ॥ धनपाल तव संतोष पाम्यो, वाम्यो छःख
दिलथी सवे ॥ घर रुद्धि सारी सबळी वधारीश, जीवतो तुं जो हवे ॥१६॥ चाल—परिज
न साथे बे लाण, परिवृत आवियो ॥ स्त्री सुत सहने बे लाण, मनमें जावियो ॥१७॥ तु०

प्रावीयो ते कहे सुणो संजनो, धन्ने उपकृति मुज करी।।माहरी ए सयल लीला, एहथी में
 अनुसरी ॥ ते ज्ञानी एहने दिउं पुत्री, राये पिण भ्रांख्यो अबे ॥ नवि दीज्जिये तो बल क
 रीन, राय देवरावे पठे ॥ १८ ॥ चाल-इम चिंती बे लाण, धन्नाने तदा ॥ दीधी कन्या बे
 लाण, धरी मनमें मुदा ॥ १९ ॥ तु० धरी मनमां हर्ष अधिके, परणावी गुणमालिका ॥
 लकणे रूडी नही कूडी, सासती कुलबालिका ॥ उन्नाह रूडा ते सजोडा, हुआ अधिका
 हेजथी ॥ शामा सुरंगी दृगकुरंगी, शोनती पियु तेजथी ॥२०॥ चाल-पूरव पुण्ये बे लाल,
 धन्नो सुख वरे ॥ राजा मंत्री बे लाण, हित अधिको धरे ॥ २१ ॥ तु० हित धरे अधिको
 स्नेह साचो, काचो नही कोइ वातथी ॥ एक कनकने वलि सुरजिवासे, ते लहे यश
 जातिथी ॥ तिम बुद्धि पाइ वली जमाई, गुणे गौरवता लहे ॥ त्रीजे उब्हासे वीशने
 इक, ढाल ते जिन इम कहे ॥ २२ ॥

॥ दोहा. ॥ हवे धन्नो सुख जोगवे, षट कामिनीथी खांति ॥ धरणेंजदिकने जिंसी,
 षट इंद्राणी पांति ॥१॥ चिंते चित्तमें तव चतुर, जइए मगध मजार ॥ मिलिये श्रेणि
 क रायने, रहिये निज आगार ॥२॥ ग्राम सकल संजालिये, गज अश्वादिक तेम ॥ सरवे
 सीदाता हुशे, कंत विना खी जेम ॥३॥ कुसुमपांलादि सयण सवि, जोता हुशे बहु वा

ट ॥ दयिता वे दिलीर ते, करती हुशे उचाट ॥ ४ ॥ इम चिंतीने नृपतणी, मागे धनो
शीख ॥ नृप सचिवादिक ताम ते, बोले सवि सरीख ॥ ५ ॥

॥ ढाल ११ मी. ॥ (ऋत नृप ऋावशुं ए. ए देशी.)

करजोडी धनपति प्रते ए, राजादिक केहे एम ॥ सुणो तुमे शुन मतिये ॥ अमने
अवहेली करी ए, प्रीत उतारो ठो केम ॥ सुण १ ॥ ए आंकली. ॥ प्रीति बंधायी तुम थ
की ए, जेहवी जवने मीन ॥ सुण ॥ तुम गुण अम मनडे वश्या ए, पंकज जिम जल ली
न ॥ सुण ॥ १ ॥ अम ऋाग्ये आवी सिड्या ए, तुमे बुद्धिपात्र सुजाण ॥ सुण ॥ शीख अमे
किम आपीए ए, तुम अम जीवन प्राण ॥ सुण ॥ ३ ॥ धनो केहे स्वामी सुणो ए, अमे
व्यापारी लोक ॥ सुण ॥ काम घणो अम मंदिरे ए, लेहणां देहणां रोक ॥ सुण ॥ ४ ॥ ते की
घा विए किम चले ए, जोवो हृदय विचार ॥ सुण ॥ वलि मिलवाने आवशुं ए, जो ठे तु
मचो प्यार ॥ सुण ॥ ५ ॥ तव नृप प्रमुख धनाप्रते ए, आपे बहुली आश्र ॥ सुण ॥ वहेल सुखा
सन पालखी ए, गज रथ घोडा साश्र ॥ सुण ॥ ६ ॥ चाड्या धनोशाहजी ए, सहुशुं करीने
शीख ॥ सुण ॥ वोलावी साजन वड्या ए, साश्रुत लोचन सरीख ॥ सुण ॥ ७ ॥ सबल से
नाशुं परवखो ए, कामिनी षट संयुच ॥ सुण ॥ अनुक्रमे राजगृही प्रते ए, सुख विलसंतां

पृहत् ॥ सु० ॥ ५ ॥ राजा श्रेणिक हरखिया ए, करे उहव अति चंग ॥ सु० ॥ सेना शिणगा
 री करी ए, नेजा नव नव रंग ॥ सु० ॥ ए ॥ आरुंवरथी आणीया ए, धन्नाने आवास ॥
 सु० ॥ सुसरा सासु सवि मिड्या ए, सहुनी पूगी आश ॥ सु० ॥ १ ॥ सोमश्री नृप पुत्रिका
 ए, कुसुमश्री तेषीवार ॥ सु० ॥ प्राणेश्वर प्रीतम प्रते ए, आवी करे मनोहार ॥ सु० ॥ १ ॥
 सुकुलीणी सोहामणी ए, सतियोमें शिरदार ॥ सु० ॥ आपद आवे सासरो ए, बांड्यो न
 हीय लिगार ॥ सु० ॥ १ ॥ पारखे पहोती पदमिणी ए, तेगुण चित्तमें धारि ॥ सु० ॥ आवे
 मां अधिकारिणी ए, आपी सुन्नडा नारि ॥ सु० ॥ १ ॥ आवे कामिनी उपति ए, कमला
 सम गुणखाण ॥ सु० ॥ कोमल मुखी कोमल वदे ए, पामी पुण्य प्रमाण ॥ सु० ॥ १ ४ ॥
 जित कासी धनो अयो ए, बुद्धितो भंजार ॥ सु० ॥ देव तरां सुख भोगवे ए, मानवने
 अवतार ॥ सु० ॥ १ ५ ॥ दान दिये दोलत करी ए, परिघल परमानंद ॥ सु० ॥ शील यथाशक्त
 करी ए, पाले ते सुखकंद ॥ सु० ॥ १ ६ ॥ देवार्चन करे दिल धरी ए, राखे रूयडो नाव ॥
 सु० ॥ द्वेष न राखे कोयथी ए, सहुथी सरल स्वनाव ॥ सु० ॥ १ ७ ॥ यतः ॥ आर्यावृत्तम् ॥
 जिनपूजनं विवेकः, सत्यं शौचं सुपात्रदानं च ॥ महिमाक्रीडागारं, शृंगारः श्रावकत्वस्यः
 ॥ १ ॥ नावार्थः—जिनपूजनं, विवेक, सत्य, पवित्राङ्गणं, सुपात्रदानं दान आप्तुं अने म

हिमा एटले प्रतिष्ठा एज जेने क्रिडानुं धरठे, तेज श्रावकपणानो शशगार ठे ॥१॥ दान
 कडपडुम रासनो ए, ए त्रीजो नड्हास ॥ सुण ॥ बावीशो ढाले करी ए, विरच्यो ए सुप्रका
 स ॥ सुण ॥ १७ ॥ श्री विजयसिंहसूरीशना ए, सकल विबुध शिरदार ॥ सुण ॥ गजविजया
 निघ गुण निलो ए, आगस अर्थ जंमार ॥ सुण ॥ १८ ॥ तस सेवक पंक्ति नला ए, तार्किक
 शास्त्र प्रवीण ॥ सुण ॥ हितविजय गुरु गुण वखा ए, समता रस लयलीन ॥ सुण ॥ १९ ॥
 तास चरण प्रसादथी ए, ए कीधो अत्र्यास ॥ सुण ॥ जिनविजय कहे युगतिशुं ए, पुण्ये
 लील विलास ॥ सुण ॥ २० ॥

इति श्रीधनशालिचरित्रपाकृतप्रबंधदानकडपडुमाख्येतृतीयशाखारूपधनशाहसकलार्थ
 सिद्धिसाधनवर्णनोनामतृतीयोऽष्टाहसः समाप्तम् ॥ अस्मिनोऽष्टाहसिऽष्टाल ॥ २१ ॥

॥ दोहा. ॥ श्री संखेश्वर समरते, लहिये लखमी जोग ॥ कामित सवि आवी मिले, सयल सिद्धि संयोग ॥१॥ शारद श्री गुरु संघने, प्रेमे करुं प्रथाम ॥ वचनामृतनी वांढना, पूरो मुज हित काम ॥२॥ चोथो चतुरपणे करी, रचुं उब्ढहास रसाल ॥ एक चित अइ सांजलो, श्रोता सवि उजमाल ॥३॥ धनोशाह राजगृहे, रहे ते आणंद पूर ॥ हवे ते अन्नयकुमारनो, कहुं संबंध सनूर ॥४॥ वेदया कपट प्रयोगथी, चंरुप्रद्योतन पास ॥ रहे अन्नय निर्जय थकी, मासीने आवास ॥५॥

॥ ढाल १ ली. ॥ (देखी रसियानी.)

चंरुप्रद्योतन मालव महिपती, रुद्धि समृद्धि रे पूर्ण ॥ विराजे ॥ खागे त्यागे जोगे आगलो, दीसे दूजो रे कर्ण ॥ दिवाजे ॥ सुणजो साजन, कौतुकनी कथा ॥१॥ ए आंकणी ॥ सांजलतां सुख आय ॥ सवाई ॥ समकित पिण निर्मल वधतो हुवे, डुरित तिमिर मिट जाय ॥ जलाई ॥ सुण ॥२॥ चार रतन तेहने स्वाधीने ठे, पुण्यबले परधान ॥ सदाई ॥ राणी शिवादेवी चेटक पुत्रिका, शिथलनी परम निधान ॥ सखाई ॥ सुण ॥३॥ लोहजंघा नामे तस इक प्रेष्य ठे, गमन करे शत कोषा ॥ मंही तेण ॥ अग्निजिरु रथ अग्निये नवि बले, चाले ते निर्दोष ॥ सही तेण ॥ सुण ॥४॥ अनलगिरी नामा गज उपतो, ए चारे तस रत्न ॥ सनूर ॥ राज्य

मंत्राण ए चारे जाशीने, करे तस सुपरै रे यत्न ॥ ते पूरांण ॥ सुण ॥ ५ ॥ एक दिन लोहजंघो दू
 ताग्रणी, पहोत्यो प्ररुअच ठाम ॥ सवाई ॥ तव तिहांना नूपादिक चिंतवे, एह बिगडे ठे
 काम ॥ सदाई ॥ सुण ॥ ६ ॥ एहने विष देईने मारीए, तो हुवे शांति संयोग ते ॥ अमने ॥ इम
 चिंती विषमिश्रित लाडूआ, चार दिया करी योग ते ॥ तेहने ॥ सुण ॥ ७ ॥ लेख लेई लोह
 जंघो चाखीयो, प्रहरमें कोष पचास ॥ प्रयाणे ॥ खावा बेवो लाडू जेहवे, शुकरन करे तस
 रीस ॥ ते जाणे ॥ सुण ॥ ८ ॥ विण खाधे वलि कोष पचास ते, चाखीने कोइ ठाम ॥ तिवारे ॥
 खावे लाडू तव शुकरने वली, वज्यो चाख्यो ते ताम ॥ विचारे ॥ सुण ॥ ९ ॥ इम चारे लाडू
 खाते थके, शुकरन थया नही तस ॥ किंवारे ॥ संध्या समये नुळ्ळयिनी प्रते, पहोत्यो तेह
 आवास ॥ तिवारे ॥ सुण ॥ १० ॥ प्रत्युषे नूपतिने जेटीने, नांभ्यां कार्य अशेष ॥ ते पूरां ॥
 मोदक देखाड्या मन मोदशु, अति सुंदर सुविशेष ॥ सनूरां ॥ सुण ॥ ११ ॥ स्वामी मुजने
 मोदक नकते, शुकरन थया अति हीन ॥ तिवारे ॥ तेहनो कारण शो हुशे ते कहो, बुद्धि
 बले सुप्रवीन ॥ श्वारे ॥ सुण ॥ १२ ॥ चंरुप्रद्योत ते मोदक लेयने, पूढ्यो अन्नयकुमार ॥
 सोढोहे ॥ निरखी अन्नय कहे एहमें थयो, दृगविष सर्प प्रचार ॥ ए मांहे ॥ सुण ॥ १३ ॥ तेह परी
 का करवा कारणे, मूको वनमें रे एह ॥ ते लेई ॥ आतप योगे रे नाग प्रगट हुशे, दृष्टे द

हरो रे तेह ॥ सर्वेश ॥ सुण ॥ १४ ॥ जिम कह्यो तिम करते सहि तिम थयो, हरख्यो चंमप्र
द्योत ॥ तिवारे ॥ कहे तूं मोचन विण वर जे रुचे, माग तूं मनमें उद्योत ॥ इवारे ॥ सुण
॥ १५ ॥ अन्नय कहे वर ए अंमरमें, राखो संप्रति काल ॥ राजेसर ॥ ढाल ए पहिली चो
था उड्डहासनी, कही जिनविजये रसाव ॥ वल्लेसर ॥ सुण ॥ १७ ॥

॥ बोहा. ॥ हवे ते चंमप्रद्योतनी, कुमरी रूप निधान ॥ वासवदत्ता नामश्री, नृ
पति तणो बहु मान ॥ १ ॥ कलाभ्यास कीधो घणो, अध्यापकने पास ॥ गीत नृत्य शी
खाववा, अवरनी करे तलास ॥ २ ॥ पूढ्यां मंत्रीने तदा, कोइ न जांखे जाम ॥ अन्नयकु
मर कहे रायने, जो तुम विद्या काम ॥ ३ ॥ उदयन कुमर कया निलो, राय सत्तानिक
नंद ॥ शीत नृत्य वाजिंत्रमें, कोविद जिम नम्र चंद ॥ ४ ॥ घोषवतीना घोषथी, वश की
घा वननाग ॥ ते आवे जो इहां कणे, तो सही पातक लाग ॥ ५ ॥ सांचली चंमप्रद्योत
तव, लोहजंघने हेव ॥ लेख लिखीने पाठवे, कोशंबी ततखेव ॥ ६ ॥ उदयनेने कागल
द्वियो, वांची ग्रहो उदंत ॥ पुत्रीने पाठण ज्ञानी, तेडावे मुज संत ॥ ७ ॥ सचिव कहे स्वा

१ वनमां जई मोदक उपर पाणी रेड्युं एटले थोडी वारमां समूर्द्धिस नाम मगट थयो. २ मूक्या
विना. ३ वचन. ४ हालमां. ५ वांसलीना. ६ स्वरथी

मी सुणो, तुमने जावो तत्र ॥ न घटे ते ऋषि कन्यका, तेडावो तुमे अत्र ॥७॥ ऋधवने
 पर मंदिरे, रहेतां लघुता होय ॥ तेज हीन जिम शशि हुवे, रवि मरुज्जमें जोय ॥ ए ॥
 यतः ॥ मालिनीवृत्तम् ॥ उडुगण परिवारो नायकोप्योषधीनां, अमृतमय शरीरः कांति
 नाढ्योपिचंडः ॥ भवति विकलमूर्तिर्मरुलं प्राप्यज्ञानोः, परसदन निविष्टः को न धत्ते ल
 घुत्वं ॥१॥ नावार्थः—साराञ्जनो समूह ठे परिवार जेनो, औषधियोनो नायक, अमृतमय
 ठे शरीर जेनुं अने कांतिवेडे नरेलो एवो य चंड पण, सूर्य मंरुलने पामीने विकलमूर्ति
 एटले तेजहीन थाय ठे. ते कारण माटे, हे कुमर ! पर धरने विषे रहेला कोण कोण
 लघुताने नथी पामता ? अर्थात् सर्वे पामे ठे. ॥१॥

॥ ढाल १ जी. ॥ (देखी मोतीडानी.)

उदयन कहे ते दूतने वाणी, चंद्रप्रद्योतनी वात में जाणी ॥ सांजदो गुण रागी
 हमारा, सोहना सुखसंगी ॥ ए आंकणी ॥ वासवदत्ता पुत्री तुमारी, नशवा मूकजो अ
 म धर सारी ॥सां॥१॥ नीशाले नशवा सहु आवे, पिय पाठक पर धर नवि जावे ॥सां॥
 वाढ्यो ते दूत ततकाल, पहेत्यो तुरत उज्जयिनी विचाल ॥सां॥१॥ चंद्रप्रद्योतन आगल
 प्रासे, उदयन कुमरनी वात प्रकासे ॥सां०॥ निसुणी खीज्यो मालव राय, अनयकुमरने

पेछे नपाय ॥सां०॥३॥ उदयन किण रीते इहां आवे, अन्नकुमार नपाय बतावे ॥सां०॥
 वस्तुतः एक हाथी कीजे, पट्टादिक तस बांधी लीजे ॥सां०॥ ४॥ अत्रंतर तस पुरुष
 रखावो, वात सकल तेहने समजावो ॥सां०॥ वनमांहे गज रूपे फिरशे, तव ते गज ग्रहि
 वा चित्त धरशे ॥सां०॥५॥ वीण वजाडतो आवे जिवारे, आणजो ग्रहीने तेह तिवारे ॥
 ॥सां०॥ सांजली चंरुप्रद्योतन हरख्यो, अन्नकुमरने कोविड परख्यो ॥सां०॥६॥ विषद
 पुरुषने काज नलायो, जिम कखो तिम गज रूप बनायो ॥सां०॥ वनमांही फिरे क्रीडा
 करतो, देखी वनचर मन सुख धरतो ॥सां०॥७॥ उदयनने गज वात जशावे, ते पण अ
 हिवा वनमां आवे ॥सां०॥ वाई वीण विशेष कराने, तव गज चाले कपट धरीने ॥सां०॥
 ॥८॥ एकलो उदयन वांसे आवे, गजरूपथी *नट नीसरी धावे ॥ सां० ॥ ग्रही उदयनने
 अर्वाती आण्यो, चंरुप्रद्योते अन्नय वखाण्यो ॥सां०॥९॥ तेडी उदयनने केहे राय, में तु
 जने ग्रहो करिय नपाय ॥सां०॥ माहरे चैर विरोध न तुजशुं, द्वेष म धारे मनथी सुजशुं
 ॥सां०॥१०॥ माहरे तो तूं पुत्रने तोले, मृगावतीए सोंप्यो ठे खोलि ॥सां०॥ पिण तूं तेडां
 व्यो नवि आण्यो, तव में एहवो दाव नपायो ॥सां०॥११॥ वासवदत्ता ठे सुजबेटी, सक

* सुप्रद.

ल कला गुणनी ते पेटी ॥सां०॥ तेहने गीत कला देखावो, सुपरे घोषवती शीखावो ॥
 ॥सां०॥ १२॥ मासी तुमारी शिवादेवी राणी, रहेजो तिहां निर्जय सुख जाथी ॥ सां० ॥
 इम आलिंगन देई जांखे, उदयनशुं हित नृप बहु राखे ॥सां०॥ १३॥ बल मांही कहे न
 दयन सुणजे, एक वचन मुज साचो गणजे ॥सां०॥ कन्या काणी ठे ते माटे, वदन वि
 लोकन करतां न खाटे ॥सां०॥ १४॥ परियच अंतर राखी ज्ञाणावो, वीणा नाद सुपरे ज
 यावो ॥सां०॥ बेटीने कहे पाठक कोठी, तूं जणजे मुखे अंबर ओढी ॥सां०॥ १५॥ जो
 तेहनूं मुख देखीश बाई, तो तुजने रोग विसगरो घाई ॥ सां० ॥ इम अन्योन्धे शीखे
 भूप, बंधावे परियच धरी चूप ॥ सां० ॥ १६॥ उदयन उद्यमथी शीखावे, वीणा प्रमुख
 कला वडदावे ॥सां०॥ बीजी ढाल ए चोथे उड्ढासैं, कहे जिन दान कडपडुम रासे ॥सां०॥ १७॥

॥ दोहा. ॥ वासवदत्ता विनयथी, पठन करे नितभेव ॥ शिखे वीणानी कला,
 होंश धरीनि हेव ॥१॥ एक दिवस पठते थके, चूकी वार बे चार ॥ तव रोषे उदयन कहे,
 काणी फिरी संजार ॥२॥ सांभल्लिने मन चिंतवे, काणी मुज कहे केम ॥ फिरी जव
 काणी ते कहे, तव बोली सा एम ॥३॥ रे रे कुष्टी मुज ज्ञाणी, कडो आल म जांख ॥
 हुं हुं नयन सुलोचना, कठिन वचन मत दाख ॥४॥ उदयन कहे तें शावती, कुष्टी जांखो

मूज ॥ पिण एतो ताहरे पिता, कपट देखाढ्यो गूज ॥५॥

॥ ढाल ३ जी ॥ (पीढोळारी पाल, आंबा दोइ रावला मारा लाल. ए देशी.)
 वासवदत्ता वस्त्र करे तव वेगलो मारा लाल, दीठो रूप अनूप कुमरनो अति प्रलो
 ॥मारा लाल ॥ अन्योन्ये थइ प्रीति नयनथी निरखतां मा०, जाणीए दंपति दोय सदा
 आर्गे हतां मा० ॥१॥ यतः ॥ नयन पदारथ नयन रस, नयने नयन मिलंत ॥ अशजाएया
 शुं प्रीतडी, पहिली नयन करंत ॥१॥ आपिणने अन्धोन्य रखे अंतर पडे मा०, करीये गु
 त्त विचार रखे कोइ मुख चडे मा० ॥ वासवदत्ता वेग कहे तव कुमरने मा०, माहरे तूं न
 रतार वरुं नही अचरने मा० ॥१॥ चार कलश धरी चंग वस्थां ते दंपती मा०, ते बे सुख
 मय काल गमावे शुभ्र मती मा० ॥ गुप्तपणे सुख भोग संयोग सेवे रली मा०, पूरव पुण्य
 संयोग वंभित आशा फली मा० ॥ ३ ॥ एहवे अनलगिरी तोडी आलान मदे करी मा०,
 विफल्हो करे विनाश हसो नरने तुरी मा० ॥ सागरमें जिम पोत भ्रमे पवने चढ्यो मा०,
 तिम ढोडी निज ठाम जई वनमें पढ्यो मा० ॥४॥ चंद्रप्रद्योतन वात वेगे जव सांचली
 मा०, बूढ्यो अनलगिरी आज ग्रहे कहे कुश वली मा० ॥ माहारा राज्यनो सार जीवन सम
 ए अढे मा०, गज अश्वदि अनेक सेवे इणशी पढे मा० ॥ ५ ॥ पूढे अस्तयने ताम प्रद्यो

त पालव धरी माण, कहो कोइ अखल उपाय ज्युं वहा आवे तरी माण ॥ अजय कहे
 १ वहराज वीणाना नादधी माण, वासवदत्ता संग धरी शुभ्र स दधी माण ॥६॥ ए वश्य
 आणशे १ नाग ते भागपरे ग्रही माण, दीक्षो नृप आदेश कुमर १ तव वही माण ॥ २ ॥
 तीए वेग चढ्यां दोयदीपतां माण, नटनी तीरे ताम गयां ते जीपतां माण ॥७॥ वाई वीण
 विशेष अशेष कला करी माण, गावे सरले साद आलापे फिरी फिरी माण ॥ नादे मोह्या
 कुरंग सुरंगे सांभले माण, भोगी पिए स्वर विद् अनेक आवी मिले माण ॥८॥ तेह अनल
 गजराज सुणी स्वर वीणानो माण, भृगपरे आव्यो तत्र सुखे थइ इक मनो माण ॥ वश्य
 करी वहराज ग्रहो मृगनी परे माण, वेगवतीने केडे फिरावे त्युं फिरे माण ॥९॥ गातो
 गीत सुरंग वजाडतो वीणने माण, लेइ आव्यो गजराज ते प्रद्योतन कने माण ॥ बांध्यो
 आलानथंज अचंज ते ऊपन्थो मा०, अजय थकी गुण राग वध्यो तव नूपनो माण ॥ १० ॥
 मक्या विण वर माग मालवपति कहे हसी माण, देखी बुद्धि अनूप थयो हुं अति खुशी
 माण ॥ अजय कहे जंभार ए वर बीजो थयो माण, उदयन पिए प्रस्ताव लही स्त्री लेइ ग

१ हाथी. २ वडदेशना राजा मंतानिकनो पुत्र उदयन कुमर. ३ हाथी. ४ हाथणी ऊपर ५ वेगवती
 हाथणीनी पूंजे.

यो माण॥१॥ एहेवे अवंतीमांही अनल जय ऊपन्यो माण, प्रतिदिन बाले गेह ए अनरथ नीपन्यो मा०॥ पूढयो अजयकुमार उपाय कहे वही माण, अग्निनो औषध अग्नि कह्यो ठे ते सही माण॥१५॥ साहस्यी करवी अग्निये अग्नि हुवे यदा माण, अजयनो वचन प्रमाण करी 'कीधी तदा माण॥ उजाशी ते आग लागी नही तेदथी माण, बुद्धि वखाणी राय दि यो वर नेहथी माण॥१३॥ मूक्या विश ते जाणी जंभार ते तव धख्यो माण, त्रीजो वर तिखे ठाय अजयकुमरे वख्यो माण ॥ दैवप्रकोपे रोग अवंतीमें थयो माण, पूढयो अजयकुमार तिवारे नुत्तर लह्यो माण॥१४॥ जे स्त्रीथी तुम नेत्र गले अवलोकतां माण, तेहने हाथे पिरु देवारो वलि बतां माण ॥ राजाये स्त्री सातसे सवि जेळी करी माण, मांडी जोवे दृष्टि सह्यी फिरी फिरी माण ॥ १५ ॥ अनमिष नयन विकार रह्यो नही केहनो माण, चेडा पुत्री ताम शिवा नाम जेहनो माण॥ सतीयोमें शिरदार वीरे जे मुखे कही माण, अन मिष नयनथी तेह आगल ऊज्जी रही माण ॥१६॥ राजानी गली दृष्टि ते रामा आगले माण, तव कहे ए बलिपिरु दियो जइ 'जागले माण॥ दीधो बलिततकाल उपडव सवि गयो माण, सतीयना शीयल प्रजापथी सहने सुख थयो माण ॥१७॥ माग माग वर मुज मू

क्या विया तूं हवे साण, तव ते अन्नयकुमार विचार ते संभवे साण॥ त्रीजी ढाल रसाल
ए चोथा उढहासनी साण, कही जिनविजये जोय कळपडुम रासनी साण ॥१८॥

॥ दोहा. ॥ कहे अन्नय बुद्धि केलवी, मेजवी चित्त विचाल ॥ चारे वरनुं सार ए,
कहुं ते सुणो झूपाल ॥ १ ॥ चय खडकावो चोकरमें, अग्निनीरू रथ त्रांजि ॥ अन्नल गजे
इहुं चहुं, शिषा उढंगे आज ॥२॥ तूं बेसे वसिे थद, अम उपर धरि बत्र ॥ चयमें जइने
लीजीए, अग्निदाघ एकत्र ॥३॥ झूधव शिर धूसी रह्यो, वयण न वाढ्यो जाय ॥ करजो
डी कुमर प्रते, हाख्यो हूं कहे राय ॥४॥ तव बोढ्यो धीरज धरी, अन्नय कहे सुण झूपा॥
धर्म उगाई तें करी, पकड्यो मुज धरी चूंप ॥५॥ जिनशासन मेळो कस्यो, लोपीने कुल
लाज ॥ आज पनी हवे एहवो, करवो नही अकाज ॥ ६ ॥ पिण मुज देख पटंतरो, त्रस
व्यो ठे इक वार ॥ पिण वली जोजे पारखुं, पकडूं बीजी वार ॥ ७ ॥ बांधी सुसके तुज
प्रते, देतो दंन प्रहार ॥ लेई जाळें सहुं देखतां, तो हुं अन्नयकुमार ॥ ८ ॥ शीख करी मा
सी प्रते, नृपशुं करी जुहार ॥ शुभ वेला साधी करी, चाढ्यो निज आगार ॥९॥

॥ ढाल ध शी. ॥ (ढेडो नांजी. ए देशी.)

अन्नयकुमार परिवारे परिबृत; मगधदेशमें आवे ॥ पुत्रागमन सुणीने श्रेणिक, हर

खे साहमो जावे॥ अचरिज देखो देखो, देखो रे अचरिज देखो ॥ एहने पुण्यतणो नहो ले
 खो, अचरिज देखो रे ॥ लखो जश जगमें सुविशेषो अण॥ तुमे ज्ञान नयनथी पेखो
 ॥ अण॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ अन्नयकुमर निज तात लहीने, हर्षोद्धसित तव आवे ॥ प्रण
 मी प्रेमे तात चरणने, विनय वचन संजलावे ॥ अण॥ १॥ ताते हृदय संग्राथे ज्रीडी, उठं
 गे बेसाख्यो ॥ एता दिननो विरह तणो छःख, कए एक मांही विसाख्यो ॥ अण॥ ३॥ आनं
 बरथी अन्नयकुमरने, नगर प्रवेश करावे ॥ श्रेणिक राजा अति मन हरखे, नंदा तिम
 सुख पावे ॥ अण॥ ४॥ नंदिषेण मेघादिक बांधव, आवी मिलिया वेगे ॥ शेर सेनापति स
 चिव सकल पिण, मिलवा आवे नेगे ॥ अण॥ ५ ॥ दिन केताइक विचमें गाबी, पूरव वात
 संजाले ॥ अन्नयकुमर बणजारो वेषे, पोठ लेइने चाले ॥ अण॥ ६॥ पांच सात घोडा अति
 ताता, उंट बे चार अटालो ॥ विमल नाम बणजारो अइने, आव्यो अति बुजमालो ॥
 अण॥ ७॥ आहे आहे करतो पोठे, गुण संजाली लेवे ॥ उज्जयिनीने चोके आवी, मेरा तंत्रु
 देवे ॥ अण॥ ८ ॥ नृपने जेट देइने मिलीयो, विनय थकी मन व्यथे ॥ राय प्रसन्न अर
 निज मंदिर, पासे स्थानक आये ॥ अण॥ ९ ॥ मेरा तंत्रु तिहां आरोप्या, मालना गंज ते

३ बाढानवोधवाला महोद्य चरित्रमां आ उकाएो अन्नयचंद्र बणजारो नाम ठे.

कीथा ॥ व्यापारीने देई क्रियाणां, वाम शोक तस लीधा ॥ अण ॥ १० ॥ 'विकलेन्द्रिय एक
 नर निपजाव्यो, पाठ ज्ञावावी ठामे ॥ ते कहे हूं मालवनो महिपति, चंरुप्रद्योतन नामे ॥
 अण ॥ ११ ॥ ए सघला ठे अमचा सेवक, राणी सर्व अमारी, ॥ हय गय रथ पायक सवि
 अमचा, प्रजा प्रमुख निधि सारी ॥ अण ॥ १२ ॥ तव ते बांधी मारे तेहने, रे मूरख शूंबो
 ले ॥ ते राजा मालवनो महिपति, तूं गदिलो तृण तोले ॥ अण ॥ १३ ॥ इम प्रतिदिन करतो
 ते नगरे, सघले ग्रथिल ते जाण्यो ॥ एक दिवस संध्या समये तव, नेद करण चिच आ
 एयो ॥ अण ॥ १४ ॥ गणिका बेने गुप्त जे आणी, इंशणी सम पोते ॥ ते पासे तव नृत्य
 करावे, चंरुप्रद्योतन जोबे ॥ अण ॥ १५ ॥ देखी रूप ते गणिका केरो, चंरुप्रद्योतन चूक्यो ॥
 दूती मेली वात करावी, लाहो ल्यो आजूको ॥ अण ॥ १६ ॥ तव ते बोडी अमे लो नावूं,
 खप होय तो इहां आवे ॥ पण अम स्वामी कार्य विशेषे, जव ते व हिर जावे ॥ अण
 ॥ १७ ॥ दूतीए जश वात जणावी, चंरुप्रद्योतन हरख्यो ॥ समय जोइने मेरे पेगो, अज
 यकुमारे निरख्यो ॥ अण ॥ १८ ॥ रात्रि प्रहर जाते तस बांधी, ऊपर मार ते देते ॥ रथमें
 घाली खेडी चाड्या, मुखथी शब्द कहे ते ॥ अण ॥ १९ ॥ चंरुप्रद्योतन कहे हूं राजा, मुजने

ए लेइ जावे ॥ शेर सामंत सवि सज्ज थइने, मूकावो वडदावे ॥अण॥१७॥ सहु को सांज
 की चिंते मनमें, एह तो गहिलो बोले ॥ कपट तणो तो कोय न जाणे, कपटे सधला
 मूले ॥अण॥११॥ ग्राम ग्रामधी अश्व पालटी, आव्या तुरत निज देशे ॥ श्रेणिकने वधा
 मणी पहेती, आव्या अजय सुवेषे ॥अण॥१२॥ अजयकुमार प्रद्योतनने तव, तातने पा
 य लगडे ॥ वचन कह्या माटे में तुजने, आयो इणे आ खाडे ॥अण॥१३॥ आज पठी
 कोइ राजा साथे, वैर म करशो जाई ॥ इम कही मालवपतिने वेगे, पद्दोचायो चित ला
 ई ॥अण॥१४॥ वैर विरोध सहूथी मंज्या, अजये बुद्धि प्रकारे ॥ चोथी ढाल चोथे उडहा
 से, कही जिन मति अनुसारे ॥अण॥१५॥

॥ दोहा. ॥ अजयकुमार वंजित फड्यो, बुद्धिकी सुप्रमाण ॥ श्रेणिकनी चिंता
 टली, दिन दिन कोडि कड्याण ॥१॥ कहे नृप सांजल अजय तुं, तुज विण सहु मूजाय
 ॥ न्याय नीति करवी पडे, पिण ते किलही न थाय ॥२॥ सेचन गज बूढ्यो हतो, पाड्यां
 घरने हाट ॥ वाट बिगाडी नगरनी, अमने थयो उचाट ॥३॥ पिण धम्मोशाह तेहेवे, आ
 व्या आपणे काम ॥ हाथी पकडी बांधीयो, मोटी राखी माम ॥४॥ कायाथी ऊचडो
 पड्यो, गौत्रशेवने हेव ॥ न्याय कियो नरपति परे, वग टाड्यो ततखेव ॥५॥ बीजां प

या बुद्धे करी, काम समाख्यां क्रीड ॥ अवर कोई आवे नही, जोतां एहनी जोड ॥ ६ ॥
 साहसिक सुकुलीन ए, भाग्यवंत नरपर ॥ जुजाबले सुख जोगवे, दिन दिन चडते नूर
 ॥ ४ ॥ तात वयण सुणी अन्नय तत्र, प्रीति धरे प्रति पूर्ण ॥ एक रंग तांबूलमें, जिम का
 षादिक चूर्ण ॥ ७ ॥ अह निशि तव रहे एकठा, धन्नने अन्नयकुमार ॥ प्रीति वधी प्रेमे
 करी, सुख विलसे श्रीकार ॥ ए ॥

॥ ढाल ५ मी. ॥ (शीतल जिन सुरंगा. ए देशी.)

एहवे धनाना जाई, करे ग्रामतणी ठकुराईरे ॥ सुगुणा ॥ न्याय धरम चित्त धारो
 ॥ जिम जगमें सुजश वधारोरे ॥ सुगुणा ॥ न्याय धरम चित्त धारो ॥ लोक जशी सं
 तापे, लोने करी अकरने आपेरे ॥ सुगुणा ॥ ए आंकशी ॥ जिम शनिनी दृष्टे वर्षा,
 नवि थाये अति उत्कर्षा रे ॥ सुगुणा ॥ तिम ते ग्रामाधिप-शाते, दुर्नेद थयो सवि वातेरे ॥
 सुगुणा १ ॥ लोक गया सवि प्रांजी, हाथे नरही कांइ बाजी रे ॥ सुगुणा ॥ तूण धान्यादिकने
 अनावे, गज अश्वादिक मरी जावे रे ॥ सुगुणा ३ ॥ एहवे अगनि प्रयोग ते दीठो, थयो ते
 हने प्रतिहि अनीठोरे ॥ सुगुणा ॥ नृपे पिण दंभी लीधा, अन्याय अिवारे कीधारे ॥ सु० ॥
 ॥ ४ ॥ चोरे पिण तिम संताप्या, दुःख पाभ्या दैव सराप्या रे ॥ सुगुणा ॥ ताततणो धन लेवे,

पिण पावो कदिय न देवे रे ॥ सु०॥५॥ इम करते तेह घात्रा, बहदेश अकी तव नाग रे
 ॥ सु०॥ त्रिणये मालवमें आवे, कृषिकर्म करे वडदेवे रे ॥ सु०॥६॥ बीज ज्ञात बलद हल
 खेवे, अनुचरेने पिण घन देवे रे ॥ सु०॥ कर्मवशे तस आवे, वृषजादिक पशु मरी जावे
 रे ॥ सु०॥७॥ तीड गयां कण खाई, नथई तस पेट जराई रे ॥ सु०॥ तव ते पोठी वाहे,
 जई मगधे चिच उमाहे रे ॥ सु०॥८॥ अन्य दिवस घनं लीधां, नरी पोठयो चाख्या धरी
 सीधा रे ॥ सु०॥ राजगृहीमं आवे, पोठयो सवि चहुटे ठावे रे ॥ सु०॥९॥ 'पाड जिवारे
 जोवे, तव मूलगी 'नीमी खोवे रे ॥ सु०॥ प्राग्य ते आगल चाले, तेहनो दुःख कहो कु
 ष टाले रे ॥ सु०॥१०॥ यतः ॥ पडिवन्नो गिरवातणो, पावीजे निरवाण ॥ तुमे देशांतर
 चालिया, अस्मे आगेवान ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—जेम महोटा माणसने हाथ जे चढे, तेने ते
 नकी पालेज. तेम इहां प्राग्य कहे ठे के, (अमने तमे मडया बो, तो अमे पण तमने
 बोडीशुं नही.) जो तमे देशांतर जशो, तो त्यां पण अमे आगेवान थइ साथे आवीशुं.
 ॥ १ ॥ सीत तापादिक सेवे, नुलंजा देवने देवे रे ॥ सु० ॥ धान्यना ढगला कीधा, त त्रि

१. ज्ञाव. १ अर्थो मूढी अर्थात् राजगृहीसां आवीने जूट तां घडंनो ज्ञाव अर्थो दीवो पडले अर्थो
 मूढी तो ज्ञावमांज जती रही !

एये तिहां रक्षा सीधारे ॥ सु० ॥ १ ॥ एहवे धन्नेद्राह, मन धरतो अतिहि जमाहरे ॥ सु० ॥
 ॥ राजसन्नाथी ऊवे, घणो परिकर चाले पूंठे रे ॥ सु० ॥ १२ ॥ ञट तिहां आगल चाले,
 कंवाथी लोकने पाले रे ॥ सु० ॥ धनदचादिक जेह, चहुटा विवे बेग तेह रे ॥ सु०
 ॥ १३ ॥ कंवा देइ तस ऊगाडे, पग पाटुए करीने पाडे रे ॥ सु० ॥ गुणयो पिय वली उप
 डोवे, राजमार्ग विधे समरावे रे ॥ सु० ॥ १४ ॥ आयास करंता डोठा, धन्ने निज बांधव घी
 ठारे ॥ सु० ॥ चिंते इहां ए किम आव्या, वणजारा नाम धराव्या रे ॥ सु० ॥ १५ ॥ गाम
 ने हय गय दीघा, ते किय नृपे पाडी लीघा रे ॥ सु० ॥ देखो ए किम छःख पावे, सुज
 बांधव निगुण स्वप्नावे रे ॥ सु० ॥ १६ ॥ इम चिंतीने तेडाव्या, तव ते पिय दोडी आव्या रे
 ॥ सु० ॥ निज मंदिर तेडो जावे, वस्त्रादिक शुच पहिरावे रे ॥ सु० ॥ १७ ॥ स्वस्थ करीने
 पूठे, निर्धनलुं कारण शुंठे रे ॥ सु० ॥ तव तेणे हृदय विमासी, तस सधली वात प्रकासी
 रे ॥ सु० ॥ १८ ॥ तुमे दीधो अम धन जेह, पिय पासि न रह्यो तेह रे ॥ सु० ॥ इरिइपणो
 रह्यो साये, अमे आदल्यो हाथो हाथे रे ॥ सु० ॥ १९ ॥ कोई तुमने दोप न देवो, पोतानो
 लेहणो लेवो रे ॥ सु० ॥ मात पिताने दारा, कोशंघी मांहे उदारा रे ॥ सु० ॥ २० ॥ अमे

इहां पोठयो खेडुं, हाये सवि काज निवेडुं रे ॥ सुण ॥ इह बोधे उडहासे दाखी, ढाल पां
चमी जिने इम जाखी रे ॥ सुण ॥ १ ॥

॥ दोहा. ॥ तव धन्नो कहे आतने, रहो ते माहरे पास ॥ खावो पीवो खांतिशुं,
विलसो लील विलास ॥ १ ॥ ते कहे तुम हेठे अमे, रहेतां लहीये लाज ॥ सूर्य शुक्र गृह
मां गये, नीच कहे कविराज ॥ १ ॥ तव धन्न बांधव प्रते, चौद चौद धन कोडि ॥ दीधी मन
दोलत करी, कुण करे एहनी तोडि ॥ ३ ॥ देखो तस दुर्जनपणो, धन्नानो तिम नेह ॥ अ
एतोडयां आवी मिडयां, सहज सुजावे एह ॥ ४ ॥ यतः ॥ अनुष्टुबृत्तम्. ॥ सज्जनाः स
ज्जना एव, दुर्ज्जना एव दुर्ज्जनाः ॥ नोभाः सुधांशुचिकिर्या, न शीतास्तिग्मरोषि च ॥ १ ॥
ज्जावार्थः—सज्जन ते सज्जनज रहे अने दुर्जन ते दुर्जनज रहे. जेम चंडमानां किरणो कदि
पण गरम थतां नथी, तेम सूर्यनां किरणो शीतल थतां नथी. ॥ १ ॥ चाडया कोशंबी नथी,
धन लेईने जाम ॥ धनरक्कक तव देवता, मारे सुजर ताम ॥ ५ ॥ बोले प्रगट थई मुखे,
हज्जीय न लागी लाज ॥ जन्मधकी जोवो नही, करतां काज अकाज ॥ ६ ॥ धन सवि
धन्ना जागयसी, आवी मिडयो ठे अत्र ॥ तटनी नीर सवे सदा, जलनिधिभे एकत्र ॥ ७ ॥

॥ ढाल ६ ठी. ॥

तव ते वचन सुणीने हो धनदत्तादिक त्रिणये तिहां, आलोचे मनमांहि ॥ आपणने
 वली प्राग्ये हो धन अर्जन इहां आवो नथी, खोटी हौंश शी त्यांहि ॥ तवण ॥ १ ॥ ए आं
 कशी ॥ एटला दिन आयसैं हो सुप्रकासे धन आगम नही, न रघ्यो मूलगो गेह ॥ बां
 धवथी पिण पास्यो हो धन वास्यो एह विलोकां, पुण्य विना नर देह ॥ तवण ॥ १ ॥ इम
 चिती मन खंते हो निःश्रंत पोठी वालीया, धनथी नस्यता हुता जेह ॥ धनाने सवि सोंपे
 हो नवि कोपे मन वच कायथी, वात कहे सवि तेह ॥ तवण ॥ ३ ॥ एटला दिन हठ राख्यो
 हो नवि त्रांख्यो गुण कोइ ताहरो, ते अमचो अपराध ॥ तूं अम सहस्री लेहुडो हो गुण
 दोळो दीवो हेजथी, गुण निधि जखधी अगाध ॥ तवण ॥ ४ ॥ अम कुल अंबर दीवो हो चिं
 रंजीवो तेज प्रतापथी, असे तुं खजूआ सरूप ॥ तूं अम प्रीति पालक हो दुःखटालक
 सकल कुटुंबनो, असे तो दुमक सरूप ॥ तवण ॥ ५ ॥ घणुं घणुं शू कहिये हो निरवहिये
 अमने आजथी, जाली बांधव प्रेम ॥ ए धन जे तुमे दीवो हो नवि लीधो जाए अम अ
 की, जिम कायस्थी नेम ॥ तवण ॥ ६ ॥ एहना जे अधिष्ठाता हो मव माता ते ताहरे वशे,
 अम वश कहो किम आय ॥ जिम निज हाथे परणी हो वर तरणी बांडी कंतने, अन्य

गृहे नवि जाय ॥तव०॥७॥ तव धन्ने सनमानी हो बहुमाने बांधव राखीया, आप समा
 करी त्यांहि ॥ मात पिता प्रोजाई हो तेडाव्यां अति आदर करी, मूकी सेवक त्यांहि ॥
 ॥तव० ॥८॥ यतः ॥ अनुष्टुब्रुतम् ॥ माता तीर्थं पिता तीर्थं, तिर्थं च ज्येष्ठबांधवाः ॥
 वाक्यं वाक्ये गुरुस्तिर्थं, सर्वं तीर्थं जनार्दनः ॥१॥ ज्ञावार्थः—माता पिता अने महोढो ज्ञा
 ई, ए सर्वे तीर्थरूपे तेमज हरेक वचन बोलवामां गुरु तीर्थ ठे अने परमेश्वर ए सर्व
 तीर्थ ठे ॥१॥ सुंदर मंदिर आप्यां हो दुःख काप्यां मात पितातणां, ज्ञाईनी करी ज्ञीरा॥
 खावे पीवे खेले हो अति गेले नव नव नेहशी, जिम सहकारे कीर ॥त० ॥ए॥ प्रहसमे
 नित प्रणामे हो घणुं विनये मात पिता प्रते, युगते जिनवर सेव ॥ पात्र संयोगे रंगे हो
 प्रतिबान्ने ज्ञाव धरी घणो, धर्म करणनी टेव ॥तव० ॥१०॥ एहवे तिहां कणे आव्या हो
 मन ज्ञाव्या चौविह संघने, विचरंता झूपीठ ॥ धर्मघोष दशे नामे हो पुण्यकामे सुरतरु
 सारिखा, सयल गुणे सुविसिठ ॥ एहवेण॥१॥ ए आंकणी ॥ बंदयने तिहां धाया हो मि
 लि आया प्रवियण ज्ञावणुं, बेग जोई गाम ॥ धनसारे पिण जाणी हो गुरु वाणी सां
 ज्ञाववा प्रते, धरे उद्यम हित काम ॥एहवेण॥११॥ चारे पुत्र संघते हो ज्ञानी ज्ञांते दधि

ताने तिहां, बहुअर सघली साथ ॥ आनंवरथी आवे हो जले आवे गुरु चरणांबुजे, वंदे
 जोडी हाथ ॥ एहवेण ॥ ३ ॥ थिर चित सहनो जाणी हो गुणखाणी गुरु द्विये देशना, कहे
 तजो पंच प्रमाद ॥ बकायने चित धारो हो तुमे वारो हिंसा तेहनी, बंदो जीन सवाद ॥
 ॥ एहवेण ॥ ४ ॥ चार कथायने जीपो हो जिम दीपो श्री जिनधर्ममें, पालो प्रवचन मात ॥
 पंचाश्रव तुमे वारो हो वलि धारो दशविध धर्मने, तिम टालो जय सात ॥ एहवेण ॥ ५ ॥
 बलीया जो अति आन हो तो धान्द शिवमंदिर जणी, पंच महाव्रत लेय ॥ तप जप
 संयम करणी हो अति सुखनी वरणी एह बे, त्रिकरण शुद्ध करेय ॥ एहवेण ॥ ६ ॥ श्रावक
 धर्म संनालो हो अजुआलो छादश जेइथी, आणी मन नजमाल ॥ चोथे नवहारे गोवे
 हो मन आवे बढी लालमें, जिन इम वचन रसाल ॥ एहवेण ॥ ७ ॥

॥ दोहा. ॥ देशना सांजली दिल ठरखो, धन धन कहे धनसार ॥ मानव जवनो
 आज में, लान लह्यो सुप्रकार ॥ ? ॥ प्रमुदित थई पूठे तदा, बिहुं करजोडी शेठ ॥ कृपा
 करी प्रभुजी कहो, पूर्व जवांतर ठेठ ॥ १ ॥ धन शी करणी करी, जिणे करी पाम्यो रु
 दि ॥ दुःख नवि दीगो देहथी, पद पद सकल समृद्धि ॥ ३ ॥ त्रिणय मोटा सुत साहसी,
 धनदत्तादिक जेह ॥ पामी पामी हारवे, शे करमे दुःख तेह ॥ ४ ॥ शालिजइ जगिनी

भली, सती सुभ्रश सार ॥ शे करमे माटी वही, दुःख सद्यां विविध प्रकार ॥५॥ एह संदेह तणो इहां, ज्ञानतणे आधार ॥ विवरने कहे वेगथी, सयल संबंध विचार ॥६॥

॥ ढाल उ मी. ॥ (शांति जियेसर केसर अर्चित जगधशी रे. ए देशी.)
 कहे मुनिवर सुणो शेठ पूरव भव वारता रे पूरवण, पुरपइवाण सुवाण जिहां वा से हता रे जिण॥ तिणे नगरे एक नारि 'कात्यायन दुर्बली रे काण, करे पर घरनां काज पीसण खंरुण वज्जी रे पीण॥१॥ दत्तनामे तस पुत्र सुपुत्र वखाणीयो रे सुण, तात विना जे जात दुःखी महा जाणीयो रे दुण॥ चारे गायना वच्च जेला करी चौकमां रे नेण॥ पेट भराई मात्र हुवे ते लोकमां रे हुण॥१॥ एक दिन परव विशेष अशेषथी देखीयो रे अण, घर घर खीरने खांड घृतादिक पेखीयो रे घृण॥ आवी ततक्षण गेह माता पालव ग्रहे रे माण, ये मुज परिघल खीर इशुं मुखथी कहे रे इण॥३॥ मात कहे भरपूर न कृकस संपजे रे नण, तो ते खीरने खांड कहे केम नीपजे रे कण॥ हव नवि बंफे बाल रड तव मावडी रे र०, देवे अवस्था एम दीधी किम आवडी रे दीण॥४॥ यतः ॥ अनुष्टुबृत्तम्. ॥
 बालको ? छड्ढन २ श्रौरो ३, वैद्यो ४ विप्राश्च ५ पुत्रिकाः ६ ॥ अर्थो ऽ नृपो ऽ ऽतिथी ए

? वृद्ध मोशी.

वेदया ? ०, न विदुःसदृशां दशां ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—बालक, दुर्जन, चोर, वैद्य, ब्राह्मण, पुत्री,
 अर्थी, राजा, अतिथि (ग्राहणा) अने वेदया, ए सर्वे सरखी हालतने समजता नथी.
 अर्थ्यात् ए सर्वे पोताना दुःखनी पेठे पारका दुःखने जायता नथी. ॥ ? ॥ माता पुत्रने
 साथ देखी रोती शकी रे दे०, चार पाडोशाण तास आवी कहे इम बकी रे आण॥ तूं रो
 वे शा माटे रोवे किम दीकरो रे रोण, दुःखनी जे होय वात ते अम अगल करो रे तेण॥
 ॥ ५ ॥ तव तिणे पुत्रनी वात सवी मांडी कही रे सण॥ सांचली कहे परमान्न मांहे शूं ठे
 सही रे मांण॥ चार पाडोशाण तत्र सामग्री ततहणे रे साण, आणी आपी तास धरी कुल
 ट घणे रे धण॥ ६ ॥ माताये तव खीर नीपाई वेगथी रे नीण, बेसाडी निज पुत्र पिरसे
 अति वेगथी रे पिण॥ कोईक कार्य विशेष माता घरमें गई रे साण, पुणयोदयथी दान त
 णी मति तस अई रे तण॥ ७ ॥ एहवे तपसी एक सुपरे संचालतो रे सु०, फिरतो आहा
 रने काज त्रमर परे मालतो रे नण॥ सासखमरणे पारणे वारणे आवीयो रे बाण, देखी
 ने तव दत्त तणे मन ज्ञावीयो रे तण॥ ८ ॥ थाल जरी हती खीर सवे अपे सुदा रे स०,
 साधुना वंदी पाय बेठो स्थानक तदा रे बेण॥ आवी देखे मात ते शाली चाटतो रे तेण,
 पिरसे सघनी खीर चिंते रखे फाटतो रे चिण॥ ९ ॥ वचन बलेथी तास उदर रोग ऊप

न्यो रे न०, मरण समय मध्यरात्रि सुध्याने नीपन्यो रे सु० ॥ ते चवि दान प्रभाव एघन्नो
 मुख लहे रे ए०, तुज कुलनो शिखगार सकलने निरवहे रे स० ॥ १० ॥ चारे कीधो योग
 कीरान्न तणो तदा रे द्वी०, चारे वली परसंश करी तेहनी सुदा रे क० ॥ इमते आवे नारि
 दीठो मुनि वहरतो रे द्वी०, चिते धन धन एह दिये मुनिने ठतो रे द्वि० ॥ ११ ॥ साधु प्रसं
 शा योगे उत्तम कुल ऊपनी रे न०, ते ए आवे नारि घन्नानी नीपनी रे ध० ॥ जेह मुन्नज्ञ
 उःख लही ते सांनलो रे ल०, सरल करो निज चित्त तेजो मन आमलो रे त० ॥ १२ ॥ पूर्व
 नवे इषे रोष वशे सखीने कह्यो रे व०, वहे माटी रे दास पोते धनमद वह्यो रे पो० ॥
 ते कर्म इषे शीश अकी माटी वही रे थ०, हसतां वांधे कर्म शेतां वृटे नही
 रे रो० ॥ १३ ॥ यतः ॥ जति लान कुलेश्वर्यं, बलं रूपं तैपः श्रुति ॥ कुर्वन्नष्टौ मदानुं
 सां, हीनानि लभते जनः ॥ १४ ॥ ज्ञावार्थः—जाति, लाज, कुल, ठकुराई, बल, रूप, तप
 अने विद्या, ए आवनो मद करनारो साशस; ए आव हीणां पासे ठे. ॥ १५ ॥ ए संसारभे
 जीव मिथ्यात्व गुणे करी रे स्मि०, जन्म जराने कृत्यु लहे ते फिरी फिरी रे ल० ॥ पानी
 सदगुरु योग दानादिक आचरे रे दा०, धन्नानी परे तेह वंडित लीला वरे रे वं०
 ॥ १६ ॥ परसंशा पिण पुण्य पदारथ कही खरी रे प्र०, देखो ते परतक आवे एह सुंदरी रे

आण ॥ चोथे उच्छ्वासि ढाल कही ए सातमी रे कण, जिनविजये मन रंग श्रोता मनमें
गमी रे श्रोण ॥ १५ ॥

॥ दोहा. ॥ हवे धनदत्तादिक तयो, पूरव नव अधिकार ॥ सद्गुरु कहे शुन चित्त
शी, सांजल रे धनसार ॥ १ ॥

॥ ढाल ण मी. ॥ (नमो नमो मनक महामुनि. ए देशी.)

मुनिपति कहे तुभे सांजजो, पूरव नव विरतंतो रे ॥ आम सुग्राम नामे नलो, रु
द्वि समृद्धि कंतो रे ॥ मुनिपतिण ॥ १ ॥ ए अंरुशी ॥ तिहां कठियारा त्रिएय रहे, धन ही
णा अति धीठा रे ॥ सेंदने आसन ठे तेहनां, मित्राइ गुणो ते मीठा रे ॥ मुण ॥ २ ॥ एक
दिन काष्ट लेवां प्रते, अहीने संबल साथे रे ॥ पोहत्या वनमें पडवडा, लेश कुगार ते हाथे
रे ॥ मुण ॥ ३ ॥ मध्यने नोजन समे, बेठा नोजन कामे रे ॥ मासखमण पारण यति, क
मासागर इशे नामे रे ॥ मुण ॥ ४ ॥ दीठा दूरधी आवता, सन्मुख जशने वंदे रे ॥ संबल स
धलो शुन मने, आपे मन आणंदे रे ॥ मुण ॥ ५ ॥ सुलनवोधी श्रावक कुले, ऊपजवो ति
हां बांध्यो रे ॥ काष्ठ अही संध्या समे, आव्या असन न लाध्यो रे ॥ मुण ॥ ६ ॥ एटले रोषे

१ धर. १ जालु.

इम कहे, दानतणां फल दीवां रे ॥ नूखे दुःख पास्या इहां, आगल शां हुशे मीठां रे ॥
॥मु०॥७॥ एम निंदा ते दाननी, चार वेला तिलेकीधी रे ॥ पश्चात्ताप संयोगथी, स्वल्प
पक्षे भइ सीधी रे ॥मु०॥८॥ ते चवि अनुक्रमे ताहरा, पुत्र भया त्रिण्य एहो रे ॥ चार
वेला दुःख अनुभव्या, परवकृत गुण तेहो रे ॥मु०॥९॥ सांजली धनदत्त प्रमुखना, पूरव
त्रव अधिकारो रे ॥ वैरागे मन वाधीयो, बूज्यो तव धनसारो रे ॥मु०॥१०॥ चिते एह
संसारमां, धरमने कोय न तोजे रे ॥ संसारिक सुख कारमां, विष सम केवली बोले रे ॥
॥मु०॥११॥ संयम लेवो माहरे, इम मनमां आलोचरे ॥ आयु अधिर ए आपयो, जाणी
पडे कुण खोचरे ॥मु० ॥१२॥ मुनि वांढी मंदिर गयो, परिकर युत धनसार रे ॥ दीक्षा
लेवाने तदा, घूढयो सवि परिवार रे ॥मु०॥१३॥ शीलवती पिण सज्ज थई, धनदत्तादिक
तेम रे ॥ त्रिण्ये पुत्र संयमज्जणी, धरता धर्मशुं प्रेम रे ॥मु०॥१४॥ उड्ढव करी धन्ने तदा, सं
यम सुपरे देवाढ्यो रे ॥ सहु कहे धन्य धनसारने, सुपरे आतम ताख्यो रे ॥मु० ॥१५॥
धन्ने श्रावक व्रत धंख्यां, आव प्रिया युत प्रीते रे ॥ विरम्यो विषय विशेषथी, रूढी आतम
रीते रे ॥मु० ॥१६॥ धनोशाह घेर आवीया, परिवृत सवि परिवारो रे ॥ सुख विलसे सं
सारनां, अजिनव सुर अवतारो रे ॥मु०॥१७॥ दीक्षा देई तेहने, शीखेव साधु आचारो रे ॥

धनसारादिक साथ लेई, मुनिवरं करे विहारो रे ॥ मुण ॥ १८ ॥ चारित्र पाली शुभ मनै, त्रिरथे
सुत युत तेहो रे ॥ देवलोकै जइ ऊपन्या, देवपथे गुण गेहो रे ॥ मुण ॥ १९ ॥ एक भवे शिव
सुख सवे, लहेसो ते निरधारो रे ॥ चौथे नुडहासे आठमी, ढाल कही जिन सारो रे ॥ मुण ॥ २० ॥

॥ दोहा ॥ अथ श्रोता जन सांजलो, शालिभद्र सुचरित्र ॥ देवलोक सुख नरभ
वे, जोगवे पुण्य पवित्र ॥ १ ॥ इणे अवसर नेपालथी, सोदागर सुविवेक ॥ रत्नकंबल लेई
करी, आव्या मगध सुठेक ॥ २ ॥ आमागर फिरतां थकां, राजगृहीमें रंग ॥ देखाडे चहुटे
डारस, रत्नकंबलनां नंग ॥ ३ ॥ जोवे सहुको यतनशुं, रत्नकंबलनां रूप ॥ पूछे मूल तस प
रगडो, चित्तमें राखी चूप ॥ ४ ॥ व्यापारी कहे वयसथी, सवालाख सुवर्ष ॥ एकतरा
ए मूल ठे, सांजलजो धरि कर्ण ॥ ६ ॥ मूल सुणीने श्रेष्ठिया, सहुको स्थानक जाय ॥
व्यापारी कंबल ग्रही, जेव्या श्रेणिक राय ॥ ५ ॥

॥ ढाल ए मी. ॥ (थारा महोलां ऊपर मेह, ऊरुखे बीजली हो लाल. ए देशी)

तव श्रेणिक नर राय बोलावे तेहने हो लाल बोण, किहांथी आव्या श्रेठ ठे सुख
तुम देहने हो लाल ठेण ॥ तव बोडया ते शाह असे नेपालथी हो लाल अण, आव्या इहां
व्यापार कारण नूपाजथी हो लाल कण ॥ १ ॥ लाव्या कंबल सोल अमूख्य संजालता हो

लाल अ०, आव्या तुम परसाद मगधमें माइता हो लाल म०॥ देखो स्वामी वस्तु सु
 वस्तु सुजावथी हो लाल सु०, अगनिमें नांखे भेल तजे एह दावथी हो लाल त० ॥ १ ॥
 मूत्र सवालख दाम एकैका वखना हो लाल ए०, नृप कहे असे आसक्त अनूलिक शख
 ना हो लाल अ० ॥ गत्र अश्वादिक काज असे धन वावरुं हो लाल अ०, लाख
 गमे धन देय कंबलने शुं करुं हो लाल कं० ॥ ३ ॥ तव ते मूकी निसास छठीने
 चालीया हो लाल ऊ०, शालिकुमर आवास समीपे मालीया हो लाल स० ॥ कहे
 अन्योन्ये एम आपण सखि पांतख्या हो लाल आ०, देई दाम केइ लक्ष कंबल पासे धर्यां
 हो लाल कं० ४ ॥ राजगृहीमें एक खप्यो नही कंबलो हो लाल ख०, कही कुण नगरने
 गाम होशे एहथी नलो हो लाल हो० ॥ नश्ये ते वात गवाके सांजली हो लाल ग०, बो
 लाव्याते ताम व्यापारी कहे वली हो लाल व्या० ॥ ५ ॥ नृप सरखे कख्यो जोन थोभाणो
 देखिने हो लाल थो०, तुमे पिए विफल प्रयास करावशा पेखिने हो लाल क० ॥ नश
 कहे अहो ज्ञात ! कंबल ब केटलां हो लाल कं०, ते कहे सोल प्रमाण असे लाव्या नलां
 हो लाल अ० ॥ ६ ॥ माहरे वहु बत्रीश सवे गुण शोचती हो लाल स०, आपुं कहेने वख
 टालुं कहेने वती हो लाल टा० ॥ लावो जो बत्रीश तो सघलां राखीए हो लाल स०, जान

धन्ना०
 ॥१०१॥

सहित तस मूढ्य विचारी नांखीए हो लाल विण॥७॥ तव बोड्या कहे मात कंबल अधि
को नथी हो लाल कंण, जिम जाणो तिस कार्य करो एह मांहथी हो लाल कण॥ वीश
लाख धन पूर्ण देवारी अम प्रते हो लाल देण, सोलतणां बनीश करी द्यो वधु प्रते हो लाल
कण॥७॥ सुणि न्नाइयेवेग नंरारी बोलाविया हो लाल अंण, ते पिण धनद सरूप नइपे
आवीया हो लाल नण॥ कहे वीशलाख दीनार दीयो धन एहने हो लाल दी०, तव ते
लही आदेश गया लेइ तेहने हो लाल ग०॥७॥ न्नाघडे नंरार देखे तव वाणिया हो लाल
देण, रूप्य सुवर्णना पाट दृषद परे जाणीया हो लाल दृण ॥ मोतीना केइ माट लस
शिया कुण लीये हो लाल ल०, पानानो नही पार हीरा न गुणे हीये हो लाल ही०
॥१०॥ मणि माणेकनो मेल कख्यो न हुवे कदा हो लाल कण, विडुम विविध प्रकार अ
पार देखे तदा हो लाल अण॥ अंन्राणा तव तेह विचारे चित्तमें हो लाल विण, ए प्रत्यक्ष
देवेइ धनद सम वित्तमां हो लाल घण॥१॥ गणि आपे धन सर्व लेखो करिने मुदा हो
लाल लेण, व्यापारी लेइ दाम आव्या थानके तदा हो लाल आण ॥ करे अन्योन्ये वात
विन्नव देखो बता हो लाल विण, नृपने इन्धमें रुद्धि अंतर घणो पेखतां हो लाल अंण
॥११॥ अंबरथी धनराशि कतरती जेहने हो लाल ऊण, मणि मुक्ताफल एम न दीवां

तेहने हो लाल नण। चोथे उड्हासे ढाल नौमी मन प्रावती हो लाल जौप, जिनविज
 ये कही एह आणंद उपावती हो लाल आण॥१३॥

॥ दोहा. ॥ एहवे राणी चेलणा, सुणि कंबल विरतंत ॥ होंश अकी बेठी हरे, आ
 णी द्यो मुज कंत ॥ १ ॥ राजा कहे राणी सुणो, कंबलनो शो काज ॥ धनथी सेना बल
 करी, राखीजे निज राज ॥ २ ॥ राजाने वद्धन तुरी, केगज के वलि शस्त्र ॥ कंबलथी
 संबल नही, निष्कारण ए वस्त्र ॥ ३ ॥ कहे राणी कंबल विना, न खिनुं अन्नने पान ॥
 होंश नपहोचे एटली, तो शो तुमचो मान ॥ ४ ॥ तव राजाये तेडिया, ते व्यापारी ता
 म ॥ आदरथी ते आविया, बेठा करी प्रणाम ॥ ५ ॥ कंबल द्यो राजा कहे, एक प्रियाने
 काज ॥ सवालाख धन सामटो, देवरावीशुं आज ॥ ६ ॥ बोड्या बे करजोडिने, सुणो नृ
 प सुगुण समृद्ध ॥ सोखे कंबल सामटां, जश जामिनी लीध ॥ ७ ॥ वीझलाख धन विवि
 ध परे, एक मूठ गणि दीध ॥ अंगज इंड समो अठे, शालिजड सुप्रसिद्ध ॥ ८ ॥ सोखे कं
 बलनो वली, खप ठे अहो महाराज ॥ ते कारण अमे चालशुं, नेपालय जणी आज्ञा ॥ ९ ॥

॥ ढाल १० मी. ॥ (ए ठीडी किहां राखी. ए देशी.)

सांचली श्रेणिक चूपति चिते, मुज सम अवर न कोई ॥ माहरी बत्र बायाये

मानव, मुखीया ठे सहु कोई रे ॥ नविका, पुण्यतणां फल पेखो ॥ पुण्ये वंछित सफल
 पोहा सवि, हृदय विमासी देखो रे ॥ न० १ ॥ ए आंकलीः ॥ सामंतने मूक्यो नश घर,
 रत्न कंबल इक आपो ॥ सवालाख धन तेहनो पूर्व, लेई घरमें आपो रे ॥ न० १ ॥ सामंते
 सत्रि घात प्रकाशी, तव कहे नश एम ॥ कंबलनो व्यापार करेवा, अमने तो ठे नेम रे
 ॥ न० ३ ॥ रत्नकंबलमें अचरिज शोठे, अमने नृपत्री आम ॥ नृपने नाम उवारी नांगुं,
 ए धनने ए धाम रे ॥ न० ४ ॥ पिण एक माहरी वीनति नृपने, वीनवजो करजोडी ॥
 रत्नकंबल में सोलना कीधा, खंभ बत्री सवि त्रोडी रे ॥ न० ५ ॥ बहु बत्रीशने वहेची
 दीधा, धिपण तेहने मन नाव्या ॥ शू कंबल करीए ए पहेरी, इम कही नूमि विठाव्या रे
 ॥ न० ६ ॥ स्नान करी तेणे पग लूही, नांख्या जलने खाले ॥ जो मुज वयणनो प्रत्यय
 नावे, तो ओवो परनाले रे ॥ न० ७ ॥ अवर काज फरमावशो जे कोइ, ते करशु शिर
 नामी ॥ वरत्राचरण अकी संतोषी, मूक्यो देइ सलामी रे ॥ न० ८ ॥ वात सर्व नृपने तेणे
 आवी, विगेशुं समजावे ॥ सांजली नृप मन विस्सय पास्यो, अन्नय प्रते तेडावे रे ॥
 न० ९ ॥ नश्यने मंदिरे तुमे जइने, शालिकुमर बोलावो ॥ गौनइशेठ तणो ए अंगज,
 अम लगें तेडी आवो रे ॥ न० १० ॥ अन्नयकुमर ततक्षण नश घरे, तात वयणधी

आवे ॥ देखी नश हर्ष धरीने, मोतीय शाल वधावे रे ॥३०॥ ११ ॥ धन्य वेला धन्य दिव
 स अमारै, आंगण्डे तुमे आया ॥ कार्येदिश हुवे ते दाखो, स्वामी करी सुपसाया रे ॥३०
 ॥ १२ ॥ तातजी शालिकुमरने मिलवा, अत्रय कहे तिहां तेडे ॥ ते जणी शालिकुमरने
 सांप्रति, मूको माहरी केडे रे ॥ ३० ॥ १३ ॥ तव नश बहु जेटणो लेई, अत्रयकुमरनी
 साथे ॥ आवी नृपने नमीने इणिपरे, अरज करे बिहुं हाणे रे ॥३०॥ १४ ॥ चंड सूर्य ऊ
 रग्यो नवि जाणे, नवि जाणे दिन रात ॥ गमनागमन व्यापारादिक तिज, नवि जाणे सु
 ज जातरे ॥३०॥ १५ ॥ बालपणाथी लाडकवायो, निश्चित सधली काते ॥ पूर्वे स्नेहशी
 देव थईने, सुखीयो कीधो ताते रे ॥३०॥ १६ ॥ ते माटे करुणा करी सहिब, मंदिर आवो
 आज ॥ शालिकुमर तुम चरणे नमशे, अमची वधारी लाज रे ॥३०॥ १७ ॥ राजा सा
 न्नी मनमें हरख्यो, नश वचनथी ताम ॥ शालिनइने मिलवा तत्पर, उठक थयो
 गुणधाम रे ॥३०॥ १८ ॥ नृप आदेश लेईने नश, निज मंदिर तव आवे ॥ चोथे उद्धरसे
 ढाल ए दशमी, जिन मन रंगे गावे रे ॥३०॥ १९ ॥

॥ दोहा. ॥ आगम जाणी नृपतणो, गौनइ शेठनो जीव ॥ देवपुत्र नेहे करी, र
 चना करे अतीव ॥ १ ॥ शालिनइना घर थकी, नृप मंदिर लगे खास ॥ सृष्टि साक्षिक

मंरुप रव्या, चिहं द्विशि तोरण तासं ॥३॥ मणिमयं मांला जालियां, मुक्ताफलनां की
घ ॥ अमरभुवन अवननी तले; देव शक्तिथी सिद्ध ॥ ३ ॥ धरणी तल बांध्यो धवल, स्फ
टिक रत्न सुविचित्र ॥ कीरसमुद्र परे सुनग, विच विच कमल पवित्र ॥४॥ आवासै आजा
अधिक, सूर्यपरे सुप्रकास ॥ पंचवर्ण मणि तेजथी, सुंदर शोचने खास ॥५॥

॥ ढाल ११ मीः ॥ (लंकानो राजां. ए देशी.)

हवे श्रेणिक राजां तिहां रे, जेरी सुदर्शना नाम ॥ वजडावे मन रंगशुं; जस ना
स शकी आराम रे ॥ श्रेणिक महाराजा ॥ अति ह्यडो रे, करे अधिक दिवाजा ॥ न्याय
धरमी रे, नूपति अति धरमी ॥२॥ ए आंकणी ॥ अबबेला तंव आविया रे, कोणिक प्र
मुख कुमार ॥ निज निज परिवारे करी, परिवृतं एक शतं नद्वार रे ॥ श्रेण॥३॥ पंच शत
सचिव सोहामणा रे, शेर सामंत अनेक ॥ गणक चिकिहक सामटा, पंमित वली धर
ता टेक रे ॥ श्रेण॥३॥ चतुरंगी सेना सजी रे, सुपरे करीने सार ॥ सेचनक गयवर ऊप
रे, नृप श्रेणिक श्रयो असवार रे ॥ श्रेण॥४॥ अन्नयकुमर आगे चले रे, कदमी पुरुष प्रधा
न ॥ सकल कंवाये आगलौ; चारे बुद्धितो निधान रे ॥ श्रे० ॥५॥ एहवे आरुंबर शकी रे,
आवे शालि आंगार ॥ मंरुप तोरण देखिने, अचरिज लहे सह परिवार रे ॥ श्रेण॥ ६ ॥

राजगृही रक्षियांमणी रे, किम शायंगारी एषं ॥ एतां दिन लगे एहवी, नवि दीठी हुती
 नेण रे ॥श्रेण॥७॥ नडा तव नूपति प्रते रे, वधावी कहे वेण ॥ राज पधारो ऊपरे, जुठ
 मंदिर अमचो सेण रे ॥श्रेण॥८॥ प्रथम नूमि जोते अके रे, विस्मय मनमें होय ॥ सुह
 णो के साचो अढे, ब्रम नटले चित्तथी कोय रे ॥श्रेण॥ ९ ॥ तिम वली बीजी नूमिका
 रे, निरखी हरखित आय ॥ नडा कहे ऊपर तुमे, पाठ धारोने महाराज रे ॥श्रेण॥ १० ॥
 त्रीजी नूमि जोते अयो रे, राजा विब्रम चित्त ॥ शुं देवलोके आवियो, कोई देव अकी
 धरी प्रीत रे ॥श्रेण॥ ११ ॥ तव नडा कहे इहां रहे रे, अमचा दासी दास ॥ स्वामी पधा
 रो ऊपरे, जिहां शालिकुमर आवास रे ॥श्रेण॥ १२ ॥ चौथी नूमिना चोकमां रे, आवे नू
 धव जाम ॥ नजरे जल सम निरखीयो रे, नर पामी ऊजो र्हो तां रे ॥श्रेण॥ १३ ॥
 अन्नये ततक्षण मुड्किारे, नांखी प्रत्यय काज ॥ राज्य पधारो रंगमें, मणिपीठ अढे
 महाराज रे ॥ श्रेण॥ १४ ॥ राजा कहे अमयी हवे रे, अंगें तो न अवाय ॥ शालिकुमरने
 अम कने, तेडी लावोने इणे ठाय रे ॥श्रेण॥ १५ ॥ सिंहासन तिहां मांडियो रे, बंगी श्रेणि
 क राय ॥ तव नडा उढकथकी, शालिकुमरने तेडण जाय रे ॥श्रेण॥ १६ ॥ जइने कहे
 ऊंयो नानडा रे, सुपरे करी व्यवहार ॥ श्रेणिक अंगण आविया रे, इहां करवो कवण वि

चार रे ॥श्रेणा॥ ७॥ पूर्वै कदिय न सांज्जड्यो रे, कार्यतणो जवलेश ॥ ते निसुणी चित्तं
 चित्तवे रे, एंशू कहे मात्त विशेष रे ॥श्रेणा॥ ८॥ रे मात्ता ! तुमे शं कहुं रे, में नवि लाध्यो
 नेइ ॥ चोथे उद्धासे इग्यारमी, ढाल जिन कहे धरिं जमेदरे ॥श्रेणा॥ ९॥

॥ दोहा. ॥ शं पूबो बो मातजी, व्यवसायादि विचार ॥ श्रेणिक लेई सांमटो, म
 रो मंजूष मजार ॥ १ ॥ जज्ञ कहे रे पुत्र सुण, नहि किरियाणो एह ॥ त्रिभुवन मांहे अ
 मूढय ठे, रूप कला गुण गेह ॥१॥ तव त्रटकी कहे मातजी, एवढो शो आलोच ॥ मुह
 माग्यो धन देयने, राखो धानक टोच ॥३॥ जज्ञ कहे रे जूल मां, वचन विचारी बोल ॥
 देश मगधनो ठे धणी, इंड समान अतोल ॥४॥ हय गय रथ पायक तणो, कोय न लाने
 पार ॥ आपण सरिखा एहने, व्यापारी लख सार ॥ ५ ॥ आपण ऊपर एहनो, हित ठे
 तिहां लगे सर्व ॥ आपणने आधीन ठे, बंभो ते जणी गर्व ॥ ६ ॥ यतः ॥ सासा? पासा? श
 अगनिं जलध, उगए गकुरद सोनारध ॥ एता न हुए आपणा, मंकडण बहुअए बिवा
 ड ? ० ॥ १ ॥ ज्ञावाथः—श्वासोश्वास, पासा, अग्नि, पाणी, उग, राजा, सोनी, सांकड, बहुज
 अने बिलडी; ए सर्वे आपणान होय. ॥ १ ॥ आवी प्रणमो एहने, मनथी मूकी मान ॥ दुर्व

? राजा कानना मूना होय ठे, माटे तेमनो विनय अवश्य करवो जोइए.

ज कन्या राजवी, एहथी विनय निदान ॥७॥

धन्ना०

॥१०६॥

॥ दाल १३ मी.॥ (सरसति माता रे, दियो मति निरमली. ए देशी.)
 वयण सुणी विषं सरिखां मातनां, चिते शालिकुमार ॥ मुज ऊपर वलि स्वामी
 पणो अठे, धिग धिग ए अवंतार ॥ शालिकुमरं आलोचि चित्तमे ॥१॥ ए आंकणी ॥ मे
 नवि कीधो रे धर्म ॥ धर्म विना परवश बंधन हुवे; करे तव मागां रे कर्म ॥शा०॥१॥ जे
 परवश ते रे सुख शो जोगवे, परवश दुःखनो रे मूल ॥ स्ववशपणानां रे सुख जोते अ
 के, परवश सुख अक तूळ्य ॥शा०॥३॥ यतः ॥ अनुष्ठुब्वृत्तम्. ॥ सर्व परवशं दुःखं, सर्व
 मात्मवशं सुखं ॥ एतदुक्तं समासेन, लक्षणं सुख दुःखयो ॥ ? ॥ जावार्थः--परवशपणे
 बंधुं दुःख ठे अने पौताने वश पणे बंधुं सुखं ठे. टूकामां जे कह्युं, ते सुखं दुःखनु लक्षण
 ठे ॥१॥ एटला दिन लगे स्वामी सेवक तणी, मे नवि जाणी रे वात ॥ आज सुणाव्यो रे
 माताये ईहां, एह कटुक अवदांत ॥शा०॥ ४ ॥ तो हवे माता रे वयण न लोपवुं, नवमो
 वसुधा रे नाथ ॥ तेह पढी करशुं सवि जोयने, साधशुं अविचल साध ॥शा०॥ ५ ॥ इम
 निश्चय करी शय्याथी तदा, पात्र धरे भूपीठ ॥ सातमी भूमिथी ऊतरवो पड्यो, ते थयो
 अतिही अनीठ ॥शा०॥ ६ ॥ अनुक्रमे श्रेणिकने आवी नम्यो, विनय थकी सुप्रकार ॥ दे

स्त्री श्रेणिक रूप कला नीलो, अमर सदृश अनुकार ॥शाण॥७॥ हर्ष धरी उहंगे आपणे,
 वेसाख्यो ततकाल ॥ आतपथी जिम माखण परघले, तिम प्रथेद विशाल ॥शाण॥ ८ ॥
 देखी मातारे नूप प्रते नणे, ए पीतलियो रे देव ॥ परकर करस न ए साहसी शके, शू
 जाणे एह सेव ॥शाण॥९॥ शीख द्यो एहने रे राज्य मया करी, एह ठे तुमचो रे बाल ॥
 तुमची कृपाथी रे एलीला करे, तुमे एहना प्रतिपाल ॥शाण॥१०॥ मधुर वचनथी रे बोला
 वी मुदा, दीधी शीख तिवार ॥ विषधर कंचुकी ठंफे तिलि परे, बोडि चळ्यो सुविचार
 ॥शाण॥ ११ ॥ बेवो जइने रे निज वातायने, सोचे चित्त मजार ॥ पंच विषय सुख विष
 सरिखां थयां, न गमे वात विचार ॥शाण॥ १२ ॥ आलोचे मन अति उदवेगथी, दुःखग
 न्निंत वहराग ॥ एहवी करणी रे आजथी आदरूं, जिणे करी लहु नव ताग ॥शाण॥१३॥
 नाथ न राखूं रे माथे आजथी, रही गृहवासे रे रंग ॥ नाथ करूं एक त्रिशुवननो घणी,
 जेहनो स्नेह अमंग ॥शाण॥१४॥ जिम योगीश्वर ध्यान धरी रहे, तिम रहे शालिकुमार
 ॥ बोथे उडहासे रे ढाल ए बारमी, जिन कहे वचन नद्वार ॥शाण॥१५॥

॥ दोहा. ॥ हवे नश नूप आगले, आवी करे अरदास ॥ सोजन अवधारी नलां,
 पळे पहेचो आवास ॥१॥ नशनो मन राखवा, रखा तिहां मन रंग ॥ लक्षपाक तैलादि

तव, जडा लावे चंग ॥९॥ मर्दनिया मर्दन करे, ऊटवणे घनसार ॥ स्नान करण आवे
तुरत, स्नानतले आगार ॥ ३ ॥ जलक्रीडा करते थके, पडी मुड्डी तत्र ॥ जोवे पिए
लावे नही, श्रेणिक लेहे ते चित्र ॥४॥ मुख विलखो करि चितवे, माहरा घरनो सार ॥
एहवी मुड्डी माहरे, अवर नहि इणिवार ॥५॥ नीचे आनन निरखते, देखे कूपक एक
॥ मणि आनूषणथी नखो, चिते तव सुविवेक ॥ ६ ॥ पूढे दासीने प्रगट, एह कीशो ए
कत्र ॥ ते कहे शालिकुमारनां, सुक्ताजरण ते तत्र ॥ ७ ॥ नूप चिते नवि सांजड्यो, जे
आनरण उडिष्ट ॥ ते में नजरे निरखियो, अहो अहो पुण्य प्रकृष्ट ॥८॥ एहवे जडा नूप
तणी; अडवी अंगुली देख ॥ तुरत कढावे मुड्डी, कल करिने सुविशेष ॥९॥

॥ ढाल १.३ मी. ॥ (देशी मधुकरनी.)

जडा मुडी अवरथी, जरीने थाल सुचंग हे ॥ साहिव ॥ मध्ये नूप मुडी धरी, आ
गल करे उडरंग हे ॥ साण ॥ देखी नूप मन चितवे ॥१॥ ए आंकणी ॥ जुज जुज
पुण्य प्रमाण हे ॥ साण ॥ एहनी मुडी आगले, मुज मुडी शे मान हे ॥ साण ॥ देखी
॥ २ ॥ हीणी देखी उलखी, ते लेवे ततखेव हे ॥ साण ॥ जडा कहे प्रोजन जणी, बेसो

३ जोगधीने काढी नांखेजां घराणां.

स्वामी हेव हे ॥ सा० ॥ दे० ॥३॥ आसन बेसण अति जलां, सडु कोने सुप्रकार हे ॥
 सा० ॥ नृपने मणिरयणे जड्यो, नडासन सुखकार हे ॥ सा० ॥ दे० ॥४॥ आल क
 चोलां रयणनां, के३ कंचनमय कांत हे ॥ सा० ॥ ऊारी प्रमुख त्रिविध सवे, उचित दिये
 तिशि पांति हे ॥ सा० ॥ दे० ॥५॥ ततकेश देव प्रयोगधी, भोजन विविध प्रकार हे
 ॥ सा० ॥ पटरस सरस सवादधी, निपन्या ते मनुहार हे ॥ सा० ॥ दे० ॥६॥ पकान्नादि
 क अति जला, बत्रीश ज्ञातिनां शाक हे ॥ सा० ॥ सेवा मीठाई घणी, नव नव ज्ञातिना
 पाक हे ॥ सा० ॥ दे० ॥७॥ नंदन वननां नृप प्रते, कडपडुम फल खास हे ॥ सा० ॥ पिरसे
 ज्ञा प्रेमशुं, अति सुस्वाद सुवास हे ॥ सा० ॥ दे० ॥८॥ पिरसणिया पिरसे तिहां,
 देव सरूपी सुरंग हे ॥ सा० ॥ देखी नृप विस्मय लहे, भोजन स्वाद सुचंग हे ॥ सा० ॥
 दे० ॥९॥ शालि अनोपम छपती, विविध प्रकारनी दाज हे ॥ सा० ॥ घृत गोरसधी शोभ
 ती, जमते हर्ष विशाल हे ॥ सा० ॥ दे० ॥१०॥ सैन्य सकल सुपरे तिहां, भोजन करे जली
 ज्ञांत हे ॥ सा० ॥ जिम जूजे पर सैन्यधी, तिम जूजे धरी खांत हे ॥ सा० ॥ दे० ॥११॥
 ॥ अथ भोजनवर्णनम् ॥ सवैया एकत्रीशा. ॥ मोतीचूर चूर कर जलेबी खालेप कर
 दोट दिये दोठे पर लाडुशुं लरीजीए, घेवरको घेर कर पेडासिंती पेट भर पतासेको

पास धर लापसीकुं लीजीए ॥ आंबा केल्यां केरी शाख राइतेकी तीथी डाख बाटकुं व
डाइ देय पायसान्न पीजीए, कूरसेंती दालि मेलि घमकेशुं घृत जेलि शाककी सरायशुं
लराइ एसी कीजीए ॥१॥ ऊपर गंगाजल दीया, वासित सुरन्नि सुवास हे ॥साण॥ तांबू
लादिक तुरतमें, देवे ज्ञज्ञ तास हे ॥ साण॥ देण॥ ११ ॥ यथायोग्य पहिरामणी, लेई नृप
आवास हे ॥साण॥ आव्या अति आर्यदशुं, पहेती सन्नि मन आश हे ॥साण॥ देण॥ १३॥
पुण्य प्रसंशा परगडी, ज्ञांखे प्रेमे नूप हे ॥साण॥ चौथे उड्हासे तेरमी, कही जिनविज
ये अनूप हे ॥साण॥ देण॥ १४॥

॥दोहा॥एहवे बत्रीशे मिली, कामिनी करे विचार ॥ कंत कहो शे कारणे, नवि बोले
इशिवार ॥१॥ आपणे तो नथी दूहव्या, नवि लोपो कुलवद ॥ रीश चढावीने रह्या, आज
तो एह निपट ॥ १ ॥ बोलावीजे बहु परे, नेह धरीने नाह ॥ प्रेम धरीने पूगीए, जे अम
चो अपराह ॥ ३ ॥ दयिता ईम दीलमें धरी, आवी प्रीतम पास ॥ विविध विनय वचने
करी, अधिक करे अरदास ॥ ४ ॥ पिण नवि बोले तेहशी, शालिकुमर लवलेश ॥ तव ते
सासूने कहे, विनय थकी सुविशेष ॥५॥

॥ ढाल १४ मी ॥ (थारे साथे पंचरंगी पाद्य सोवनरो बोगलो मारुजी. ए देशी.)

सुणो बार्देजी अरदास अनोपम अमतणी सासू जी, कंळ वीनति गोद विठाय
लली लली तुम न्रणी सासू जी ॥ तुम नंदन सुगुण निधान सोनागी सेहरो साण, एह
इंड सरिस अवतार सुसार ते देहरो साण ॥ १ ॥ करतो कीडा मन कोड सुजोडथी सर्वदा
साण, धरतो मनमें विसवास आवास मांही तदा साण ॥ इंझणीने अनुकार सुदार ते
जाणतो साण, नित पंच विषयसुख भोग अमर परे माणतो साण ॥ २ ॥ नृप आव्याथी
मनमांही विषाद को छाप्यो साण, नवि जाणीजे अम कोय जे श्याथी नीपन्यो
साण ॥ न सुणे गुण गीत विनोद सुबुद्धिथी मेलवी साण, हवे न करे वात विचार कामि
नीशूं केलवी साण ॥ ३ ॥ अमे सुकुनीथी मिली सर्व कंळ घणी वीनती साण, तो पिण
बोले नही एह जिशो इए मुनिपती साण ॥ नवि पूढे भोजन वात न ताति वसन तणी
साण, आभूषणशूं अनुराग सुराग न धन न्रणी साण ॥ ४ ॥ अमे देखी पति दिलगीर जूळं
सवि नामिनी साण, न कंळ सुपरें शिणगार न खटुं यामिनी साण ॥ अमचो ए प्राण
आधार विचार धरे किशो साण, जो लहिये तेहनो भेद उद्यम करिये तिसो साण ॥ ५ ॥
अमे दाऊयां पियु डुःख देखी विशेष लहूं नही साण, जिम कूपककेरी बांय समावे तिहां
सही साण ॥ अमचो कोड होये दोष तो दाखो तेहने साण, अमे तुम विण ए पोकार कही

जे केहमे सा० ॥ ६ ॥ इहने कोई आरतध्यान के ग्यान हीये वशो सा०, तिखे करी अम ऊपर राग हतो ते सवि खशो सा०॥ जाणाबां मन परिणाम उदासी एहनो सा०, इखे ठंरुया जोग संयोग मंगन नही केहनो सा०॥७॥ एहनो अम ऊपर स्नेह कहो किम आ वशे सा०, ए आखर ठंकी धाम आराम वसावशे सा०॥ अमने मनमें उदवेग अजाएयो ए ऊपन्यो सा०, कोई पूरब कर्म विशेष अकी इहां नीपन्यो सा० ॥८॥ ते मोटे करी ए आयास पूबो तुमे जातने सा०, ते पिण मन केरी वात केहेशे मातने सा०॥ पठे जोई कारण कार्य विचारी चित्तथी सा०, केहवो घटे तेहने उजंज देज्यो शुज्ज रीतथी सा० ॥९॥ तव ज्ञज्ञ बहुअर वात सुणी विअम अई कुमरजी, जिहां बेठो शालिकुमार तिहां ततक्षण गई ॥ कु० ॥ देखे मुख नूर ते सूर जिशो वादल अकी कु०, वली अंगीतने आ कार विलोकीने लकी कु० ॥ १० ॥ बोलावी धरी बहु नेह सुस्नेह वाक्ये करी कु०, कहो पुत्रजी प्राणाधार एही चिंता धरी कु० ॥ व्यापार वणिज घर हाट उचाट न ताहरे कु०, लेहणा देहणानी वात ते सधली भाहरे कु० ॥ १ ॥ तुज देखी अगम आलोच ते सोच प्रि या धरे कु०, तुज मुख देखी दिखगीर ज्ञोजन पिण नवि करे कु० ॥ न करे वली सकल अंगार हारादिक नवि गमे कु०, करे रुदन धरी मन दुःख दिवस इम निर्गमे कु० ॥ ११ ॥

शा माटे एवढो दुःख आपे ठे एहने कुण, कोइ दीगो होय अपराध कहीजे तेहने कुण।
 पिण सघलीने समकाल कहो किम खीजीए कुण, खीर नीर परे एक तार प्रियाशुं की
 जीए कुण।।३॥ ए प्रभुतावंत भेइयतणी ठे बालिका कुण, सुकुलीणीमां शिरदार वच
 न प्रतिपालिका कुण ॥ परणी जे पंचनी सखे ते पालवथी जडी कुण, लेहने विण, अणु
 ए देखी खीजीजे किम चडी कुण।।४॥ सुणी मातनां वयण विशेष नरेष बोड्यो फरी
 कुण, योगेंड परे धरी ध्यान बेगो मन टुंढ करी कुण।। कही चौदमी ढाल रसाल ए चोथा
 नडहासनी कुण, इम जिनविजये मन रंग कळपडुम रासनी कुण।।५॥

॥ दोहा. ॥ एहवे ते राजगुहे, धर्मघोष मुनिराज ॥ समवसखा सुपरे तिहां, *पण
 सय साधु समाज ॥१॥ वनपालक आपे तिहां, 'वर्षपनिका वेग ॥ शालिकुमर ते सांज
 ली, अधिक लहे संवेग ॥ २ ॥ जिम रसवति सवि नीपने, घृत मिले रस होय जेम ॥
 तिम शालिज वैराग्यमें, साधु संयोगशुं प्रेम ॥३॥ देई तास वधामणी, हय रथ बेसी हे
 व ॥ परिवृत बहु परिवारथी, गुरु वंदन ततखेव ॥४॥ पांचे अजिगम साचवी, वंदे सम
 तानीप ॥ देशना अमृतथी अधिक, निखुणे सुगुरु समीप ॥५॥

* पांचशे. ? वधामणी.

॥ ढाल १५ मी. ॥ (हस्तिनागपुर वर प्रभुं ए देशी.)

मानव भव अति दोहिलो, भव भमतां सयल संसार रे ॥ आर्यक्षेत्र उत्तम कुले,
 ध्वंचेन्द्रिय पूर्ण उदार रे ॥७०- पंचेन्द्रिय पूर्ण उदार; सुणो भवि प्राणिया ससनेह रे ॥ स
 सनेह सुगुण सुविलास, केहे मन रंगशुं मुनि एह रे ॥१॥ ए आंकली ॥ धर्म श्रवण अति
 दोहिलो, दोहिलो सहहवो चित्त रे ॥ सूहम विचार सुणी करी, हठ जे करे ते विपरीत
 रे ॥६०॥ सुण ॥१॥ वचन विरोध करे जिके, जिन प्रवचनना जे गूढ रे ॥ बहुल संसारी ते
 हुवे, भव भ्रमण करे मतिमूढ रे ॥७०॥ सुण ॥३॥ सावद्याचार्य तर्णी परे, वली जिम ज
 माली निर्गंध रे ॥ एकेक वचन उद्भापते, पास्य संसारनो पंथ रे ॥५०॥ सुण ॥ ४ ॥ सह
 ह्नीने धर्म आदरे, ते विरला इले जग ज्जीव रे ॥ आदरी पिण अवलूं करे, ते दुःख जेहे
 प्राणी सदैव रे ॥६०॥ सुण ॥ ५ ॥ आदरवां व्रत दोहिलां, मुनिवरनां पंच प्रमाण रे ॥ धैर्य
 धरी जे आदरे, ते पांमे पद निरवाण रे ॥७०॥ सुण ॥ ६ ॥ जन्म जरा भय रहित ते, स्था
 नक शिवमंदिर रूप रे ॥ केवलज्ञानमयी सदा, तिहां अजर अमर विदूष रे ॥६०॥ सुण ॥ ७ ॥
 ॥७॥ कर्म विटंबन बोडने, हुए नाथ त्रिजगनो ताम रे ॥ फिरी संसारमें आववा, नरह्यो
 तेहने कांइ काम रे ॥८०॥ सुण ॥ ८ ॥ पंच महाव्रतनो हवे, सुणो लेशथकी सुविचार रे ॥

जीवदया जिनधर्मनो, कह्यो मूल सयल संसार रे ॥ कण॥ सुण॥ १॥ तस थाबर सवि जी
 वनी, रक्षा करवी ते नित्य रे ॥ मन वच कायाशी करी, दया वीश विश्वाशी पवित्र रे ॥
 ६॥ सुण॥ १॥ हिंसा करे ते दुःख जहे, न जहे सुख कदिय लिगार रे ॥ सुभूम ब्रह्मदत्त
 सारिखा, हिंसाशी नरक मज्जार रे ॥ हिंण॥ सुण॥ १॥ ए पहिलो व्रत साधुनो, बीजे श्रुषा
 वादनो त्याग रे ॥ क्रोध लोभ त्रय हास्यशी, जूतो न केहे महाजाग रे ॥ जूण॥ सुण॥ १॥
 जूठे वसुराजा जूठ, नरके गयो देव प्रकोप रे ॥ ते जणी सत्यज बोलवो, जिम धाए
 डरितनो लोप रे ॥ जिण॥ सुण॥ ३॥ अणदीधो लेवो नही, तृणमात्र ते साधुने कोय रे ॥
 चोरीशी दुःख नीपजे, हुंरुक परे शास्त्रमें जोय रे ॥ हुंण॥ सुण॥ १॥ ४॥ चोशुं व्रत चोके
 चित्ते, पालवुं मननी शुद्धि रे ॥ नारी रूप न देखवुं, लेखवुं उपलनी बुद्धि रे ॥ लेण॥ सुण॥
 १॥ ५॥ कुंरुनिक नंदिषेण जे, अर्हन्नक आईकुमार रे ॥ विजयमुनीश्वर तिम वली, रहने
 सि प्रमुख अणगार रे ॥ रण॥ सुण॥ ६॥ नारी देखीने चड्या, पाठा वड्या पुण्य प्रयोग रे
 ॥ ते जणी नववाडे करी, व्रत पालवो धरी उपयोग रे ॥ व्रण॥ सुण॥ ७॥ तृण तूसमात्र न
 राखवो, परिग्रह ममताशी धीठ रे ॥ परिग्रहशी नरके गया, नवनंदन सागरशेठ रे ॥
 नण॥ सुण॥ ८॥ रात्रिनोजन बांडवो, त्रिविधे त्रिविधे अइ धीर रे ॥ ए मुनि व्रत विवरी

कक्षां, आदरो नावे थइ वीर रे ॥आण॥सुण॥१॥ साधुतणी सुणी देशना, समज्यो चि
 च शालि महंत रे ॥ अलिक पदारथ ए सहू; कहे साधु ते सघलो तंत रे ॥कण॥सुण॥१॥
 गुरु वांदी घरे आविया, रथे बेसी शालिकुमार रे ॥ चौथे उड्ढहासे जिन कहे, पन्नरमी
 ढाल उदार रे ॥५०॥सुण॥१॥

॥ दोहा.॥ जइने प्रणमी कहे, सांजल मोरी मात ॥ साधु बचन सुणते लही, वी
 ती सघली वात ॥ १ ॥ स्वारथियो संसार सवि, परस्वार्थि नहि कोय ॥ विविध विटंबन
 वेदना, जीव सयलने जोय ॥१॥ यतः ॥ शार्दूलविक्रीडितवृत्तम्. ॥ वृहंकीणफलं त्यजंति
 विहगा शुष्कंसरः सारसाः; निर्गंधकुसुमं त्यजंति मधुपा दग्धवनांतं मृगाः ॥ निर्द्वयंपुरु
 षं त्यजंति गणिका ब्रह्मनृपं सेवकाः; सर्वः स्वार्थवशाजनोत्तिरमते नो कस्य को वद्वजः
 ॥१॥ नावार्थः—पक्षीउ फल विनाना वृक्षनो, सारस पक्षी सूकाइ गएला सरोवरनो, ज
 मराउ निर्गंध फूलनो, मृगो बलता वतनो, गणिका निर्धन पुरुषनो अने सेवको राज्य
 ब्रष्ट राजानो त्याग करे ठे. ए प्रकारे सर्वे स्वार्थने वश्ये ठे. जो के, तेउ एकेकनी उपर हेत
 राखे ठे, तथापि वास्तविक रीते जोतां कोइ कोइनुं बहालुं नथी. ॥१॥ ते माटे अनुमति दि
 यो, मया करीने आप ॥ संयम लेई सिंह परे, टालुं नव संताप ॥३॥ सुणी वयण संश

य पडी, मझ करे विचार ॥ व्रतनी वात किसी करे, बालक शालिकुमार ॥४॥
॥ ढाल १६ मी. ॥ (निड्डी वेरण इइ रही. ए देशी.)

मझ कहे मली जांतिशुं, शीख सांमल हो तुं सुगुण सुपूत्र के ॥ आलालंबन सम
सही, तुजथी ठे हो मुज घरनो सूत्र के ॥३०॥ ए आंकणी ॥ वय लघु ताहरी विचार
तुं, तुज दयिता हो ते पिण सवि बाल के ॥ संतानादिक पिण नही, ते माटे हो जूज हइ
य निहाल के ॥३१॥ नोतिमें पिण इम सांमड्यो, वय पहिलीयि हो विद्या अर्यास
के ॥ बीजी वय सुख विजसवां, त्रीजी वय हो व्रत ग्रहण आयास के ॥ ३२ ॥ यतः
॥ अनुष्ठुववृत्तम्. ॥ प्रथमे नाज्जिता विद्या, द्वीतिये नाज्जितं धनं ॥ तृतीये नाज्जितो धर्मः,
चतुर्थे किं करिष्यसि ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—जो ते पहली वयमां विद्या संपादन न करी, बी
जी वयमां धन संपादन न कल्युं अने त्रीजी वयमां धर्मसाधन न कल्यो; तो चोथी वय
मां तुं शुं करीश ? अर्थात् धर्मसाधन करवानो अवसर तो त्रीजी वयमां ठे. तो ते नीति
वचन उद्धंबनि हाल करवा केम तैयार थयो तुं ? ॥१॥ ते जणी वडपणमें तुमे, श्रावक
व्रत हो धरज्यो थई धीर के ॥ निरतिचारे पाजतां, सुख लहोए हो अति दिव्य
शरीर के ॥ ३० ॥ ४ ॥ बालपणे व्रत ते ग्रहे, जस होवे हो इःख सबल संसार

के ॥ खावा पीवा पिण नहीं, वली न हुए हो कोइनो आधार के ॥ न० ॥ ५ ॥ यौव
 नमें जेहने नहीं, कांतादिक हो ते लिये वली दीख के ॥ मान तजी मधुकर परें, मध्यने
 हो नमें लेवा ज्ञीख के ॥ न० ॥ ६ ॥ तूं तो सुखमें ऊबस्यो, नवि जायो हो सेवकने स्वाम
 के ॥ वंभित सधलो ताहरे, पूरे देवता हो सुत स्नेह सुकामके ॥ न० ॥ ७ ॥ संयम लेइने
 शं तुमे, पुत्र साधशो हो सुजने कहो अत्र के ॥ देवजोग तुम पास बे, अधिको किशो हो
 सुख पामवो तत्र के ॥ न० ॥ ८ ॥ तव कहे शालिकुमर इशुं, संयमथी हो लहिये सुखवास
 के ॥ साथे नाथ न संपजे, वली कोइनी हो करवी नहीं आश के ॥ न० ॥ ९ ॥ सुणि नडा
 चित्त चितवे, वात ऊंडी हो कहे कवण प्रकार के ॥ तात परें ए पिण सही, ठंभी जाशे
 हो ए सवि घरबार के ॥ न० ॥ १० ॥ कहे सुण पुत्र तूं चित्तथी, व्रत दोहिलां हो मुनिवरनां
 तंतके ॥ मेण दांत लोहमय चणा, चावंतां हो अति तेह दूरंतके ॥ न० ॥ ११ ॥ गंगा सन
 मुख चालवो, रत्नाकर हो तरवो निज बांह के ॥ वायथी नरवा कोथला, जिम डुर्जर हो
 तिम संयम चाहके ॥ न० ॥ १२ ॥ पंच महाव्रत पालवां, वली टालवा हो बेतालीश दोष
 के ॥ पंचाचारने यत्तथी, निरदोषे हो करवो तस पोष के ॥ न० ॥ १३ ॥ क्रोध कषाय न
 राखवा, नवि ज्ञांखवा हो असमंजस बोलके ॥ शत्रु मित्र सम धारवा, वली वारवा हो

मद् आठ अतोले के ॥३०॥ १४॥ सिंहपरे व्रत आदरी, सिंहनी परे हो पावे ते प्रमाण के ॥
 संयम लेई लडथडे, तस जीवित हो संयम अप्रमाण के ॥३०॥ १५॥ व्रत पालतां दो
 हिलां, नवि सोहिलां हो सुखीयाने नेठ के ॥ नृप उबंर बेसते, ते जाणी हो ते देवनी
 वेठ के ॥३०॥ १६॥ ते ज्ञणी यौवन वय लगें, श्रावक हो धरो सुपरे चित्त के ॥ चढते
 चढते अनुक्रमे, पहाचीजे हो महोले जिम नित्य के ॥३०॥ १७॥ मात वचन ते मानीये,
 माता तीरथ हो कही शास्त्रमें सार के ॥ सेवा कीजे शुभ्र मने, लहीये सुख हो स्वर्गादि
 उदार के ॥३०॥ १८॥ यतः ॥ उपाध्याये दशाचार्यो, आचार्याणां शतं पिता ॥ सहस्रंतु
 पितुर्माता, गौरवेणा तिरिच्यते ॥१॥ जावार्थः—इश उपाध्याये एक आचार्य, सो आचार्य
 एक पिता अने हजार पिताये एक माता; ते कारण मोटे माता सर्वथी मोटी बे ॥१॥ मात
 वयण सुणीने तदा, मौन करिने हो रह्यो शालिकुमार के ॥ ढाल ए चोथा उड्हासनी,
 कही सोलमी हो जिनविजये विचार के ॥३०॥ १९॥

॥ दोहा. ॥ शालिकुमार मन चिंतवे, हठनो काम न हेव ॥ समय ब्रह्मिने सा
 धीये, चिंतित निज स्वमेव ॥ १ ॥ इस आलोची चित्तमें, चढ्यो चतुर चोबार ॥ माता
 मन हरखित थर, तिम बत्रीशे नार ॥१॥ विलसे कांताथी विषय, पिए मनथी वैराग ॥

जिम पंखी पंजर पड्यो, जोवे बूटण लाग ॥३॥ चिचमें चितवते श्रके, उपनी बुद्धि अनूप ॥
प्रमदा ठंफु प्रति दिवस, एकेकी धरि चूप ॥ ४॥ हलवे हलवे विषय सुख, ठंफुणनी धरुं
टेव ॥ अनुक्रमे अनुमति लेयने, वरशुं संयम हेव ॥५॥ जिम जिम परणीती मुदा, तिम
तिम तजुं निदान ॥ नियति धरी ते दिन थकी, ठंफे धरी सुज्ञान ॥६॥ प्रथम दिवस मो
जिण तजी, तिणे तव लाध्यो दाव ॥ बांक सकत ते में कियो, ते दाख्यो प्रस्ताव ॥७॥
दिन बीजे बीजी प्रते, बोडण कीध प्रपंच ॥ ते पिण विलखित वदनथी, चिते ए शो
संच ॥८॥ त्रीजे दिन त्रीजी तिमज, ठंफी तरुणी जाम ॥ तव सयली चिच चितवे, अ
हो शुं ए करे आम ॥ ए ॥ अनुक्रमथी ए ठंफशे, अमने सहि प्ररतार ॥ जावीथी बल
कीयनी, चाले नहि लिगार ॥१०॥

॥ ढाल १७ र्मी. (हरियां मन लाग्यो. ए देशी.)

एहवे ते धन्ना गृहे, सतीय सुप्रज्ञ विख्यात रे ॥ स्नेही सुण मोरा ॥ पतिने स्नान
करावते, चिच सांनरियो त्रात रे ॥ स्नेही सुण मोरा ॥ एहवेण ॥१॥ ए आंकणी ॥ मस
मसती रुदन करे, नयनथी नीर प्रवाह रे ॥ स्नेण ॥ बाती मांहे जागीयो, विरह दावान
ल दाह रे ॥ स्नेण ॥ एण ॥ देखी दयिता दूबली, दीन वदन विन्हाय रे ॥ स्नेण ॥ पूढे धन्ना

धण प्रते, केहे चिंता तुज कांय रे ॥ स्नेही सुण कांता ॥एण॥३॥ आठे मांहे अग्रणी, मा
 हरा घरनो मंद रे ॥स्नेण॥ शालिकुमर सरिखो अठे, बांधव रुदि प्रचंद्र रे ॥स्नेण॥ एण
 ॥४॥ तव वोली सा सुंदरी, कंत प्रते करजोड रे ॥ स्नेही सुण स्वामी ॥ तुम परसादे
 माहरे, कदिय न कोय ठे खोड रे ॥स्नेण॥एण ॥५॥ शालिकुमर बांधव अठे, अग्रज अति
 हि बिख्यात रे ॥स्नेण॥ स्नेहशकी पासै रहे, देव स्वरूपी तात रे ॥ स्नेण ॥ एण ॥६॥ नृप
 मंदिर आव्या पठी, कोई श्रयो विज्ञान रे ॥स्नेण ॥ मौनपणे बेसी रहे, जिम योगीसर
 ध्यान रे ॥स्नेण॥एण॥७॥ जोगतणी तृष्णा नही, योग ग्रहण मन टेव रे ॥स्नेण॥ (दिन दिन
 एकेकी प्रते, ठंमे ठे सुविवेक रे ॥) जोजन पाणी नवि रूचे, न रुचे नृत्य कृणमेव रे ॥
 ॥स्नेण॥एण॥८॥ रमणी रुदि सवि तजी, विषयादिक सुख जोग रे ॥स्नेण॥ मासानंतर ते
 हवे, लेशे संयम योग रे ॥स्नेण॥एण॥९॥ ते दुःख चित्तमें सांजरे, साले साल समान रे ॥
 स्नेण॥ माडीना जाया पखे, पीयरमां शो मान रे ॥स्नेण॥ एण ॥ १० ॥ नित नित आभू
 पण नवां, नव नवां वख उदर रे ॥स्ने०॥ हेज धरी कुण आपशे, आवे शुभ्र तिथि वार
 रे ॥स्नेण॥ए०॥१॥ कुण कहेशे मुज बहिनडी, सायतमें सो वार रे ॥स्नेण॥ केहने बांध
 शुं राखडी, घणि घणि करी मनुहार रे ॥स्नेण॥एण॥११॥ हवे किहांश्री अमे देखशुं, शुभ्र

लक्ष्मण प्रतीज रे ॥स्ने०॥ कहने प्रोजन पिरसीने, लेखवशुं भावबीज रे ॥स्ने० ॥ ए०
 ॥१३॥ स्त्री पीयरने ऊपर, सासरे मुहश्री आय रे ॥स्ने०॥ बांधव विण पीयर कीशो, जेह
 वी विसुकी गाय रे ॥स्ने०॥ ए० ॥ उःख मुजने इण नवे, कहेो किम विसरे कंत रे
 ॥स्ने०॥ तिण उःखश्री मुज नयणश्री, नीर ऊरे ठे एकांत रे ॥स्ने०॥ ए० ॥ १५॥ तव धनो
 कहे गोरडी, बांधव उःख ते साच रे ॥ स्नेही सुण कांता ॥ पिण कायर शिर सेहरो, तु
 ज अग्रज सुण वाच रे ॥ स्ने० ॥ १६॥ जे त्यागी जगमें छया, ते किम करेय विचार रे
 ॥स्ने०॥ जेह विचार करी रखा, ते कायर शिरदार रे ॥स्ने०॥ ए० ॥ १७॥ दाज्या ऊपर जे
 हवो, खार दिये जिम कोय रे ॥ स्नेही सुण स्वामी ॥ बांधव उःख उपर तिसो, कंत व
 चन तिम होय रे ॥स्ने०॥ ए० ॥ १८ ॥ तव कहे प्रीतम सांजलो, मुज बांधवनी वात रे ॥
 स्ने०॥ यौवन वय युवती नशी, ठंमे ते अखियात रे ॥स्ने०॥ ए० ॥ १९॥ कवडी एकने मू
 कते, करे विमासण वीश रे ॥ कोडिगमे धन परिहरे, मुज बांधव सुजगीश रे ॥ स्ने० ॥
 ए० ॥ २०॥ रत्नजडीत वर मालीयां, जालियां मणिमय जोय रे ॥ स्ने० ॥ ए अहिनाणे
 धनतणो, लेखो किणि विधि होय रे ॥स्ने०॥ ए० ॥ २१॥ रात दिवस नवि जाणतो, रवि
 शांशि उदय विचार रे ॥स्ने०॥ ते दीक्षां व्रत पालवा, राखे मन इक तार रे ॥ स्ने० ॥

एण॥११॥ वय चोथीमें वीसम्यां, दंपति जे तनु खीण रे ॥स्नेण॥ ते पिण व्रत लेवा प्रणी,
 मन न धरे मति हीण रे ॥ स्नेण ॥ एण॥१३॥ यतः ॥ अंगं गलितं पलितं मुं, दश नवि
 हीनें जातं तुं ॥ वृक्षेयाति गृहित्वा दं, तदपि न मुंचत्याशा पिं ॥ १ ॥ नावार्थः—अंग
 गली गयुं, मांछुं पक्षियांवाळुं शयुं, मुख दांत विनानुं थयुं अने वृक्ष थयो बतो लाकडी ले
 इ नकरुक करीने चाले वे, तेम बतां पण आशापिंने मूकतो नथी. ॥ १ ॥ मुज बांधव
 अवहेलते, शू नावे तुम लाज रे ॥स्ने०॥ गुण लीजे तेहना सदा, जे करे उत्तम काज रे ॥
 स्नेण ॥ एण॥१४॥ कहेवो जगमें सोहलो, पिण करतां जंजाल रे ॥स्नेण॥ कायर नरना वो
 लडा, थाये आल पंपाल रे ॥स्नेण॥ एण॥१५॥ यतः ॥ कहेता दीसे कोड, करता दीसे को न
 ही ॥ एहज मोटी खोड, एक लंपट बीजा लाखची ॥ १ ॥ मुज बांधव सम जगतमें,
 डुजो कोय न दीठ रे ॥स्ने०॥ सुख ठंकी संयम ग्रहे, करी संसार अनीठ रे ॥ स्नेण ॥
 एण॥१६॥ दिन वत्रीशे ठंरुशे, बांधव नारि बत्रीशे रे ॥स्ने०॥ पिण एक वातज माहरी,
 सात्रलो विसवा वीशे रे ॥ स्ने०॥ एण॥१७॥ जो बक्षिया तुमे तेहनी, वचनतणा प्रतिपाल
 रे ॥स्नेण॥ तो आठे अंतेउरी, ठंरुने समकाल रे ॥स्नेण॥ एण॥१८॥ वचन सुणी वनितातणां,
 धनो समज्यो धीर रे ॥स्नेण॥ बोधे उडहसे सत्तरमी, जिन कहे गुण गंची रे ॥स्नेण॥ एण॥१९॥

॥ दोहा. ॥ तव धनो कहे धन्य तुं, जलो दियो उपदेश ॥ आठे ठंठी आजथी, लिबे
संयम सुविशेष ॥१॥ में कीधो ताहरो कछो, सुपरे धरी सनेह ॥ तूं जगिनी भाहरे मने,
अविचल सगपण एह ॥ २ ॥ इस कही ततरुण ऊठीयो, लेवा संयम जार ॥ जामिनी
आठे आविने, पालव ग्रहे तिवार ॥३॥ कहे सुनइ स्वामि सुज, खमज्यो अविनय एह
॥ छःख दाऊयाथी वयण जे, कहुं अघटतुं तेह ॥४॥ आसंगे अविनय हुवे, धीर न धारे
चिच ॥ हांसो करतां तुम तणो, कार्य अयो विपरीत ॥५॥

॥ ढाल १८ मी. ॥ (देखी हमीरियानी.)

कहे करजोडी कंतने, सतीय सुनइ एम ॥प्रीतमजी ॥ हांसीथी हठ किम करो,
राखो पूरण प्रेम ॥प्रीण ॥ कहेण ॥१॥ ए आंकषी ॥ मात पिताये मोदथी, सौप्यां तुमने
स्वाम ॥प्रीण ॥ तुमे इस बोडी चालथो, तो अमने कुण ठाम ॥प्री० ॥कण ॥२॥ स्त्रीने सु
ख संसारमें, कंतने कहे सह कोय ॥ प्रीण ॥ सुकुलीणीने कंतथी, अधिको कोय न होय
॥प्रीण ॥कण ॥३॥ आठेने अबहेजते, पामशो शोना केम ॥प्रीण ॥ कां अमने नूडां करो,
नाथ अईने एम ॥प्रीण ॥कण ॥४॥ रुदन करे पालव ग्रही, पय प्रणमे करजोड ॥प्रीण ॥ तव
धनो धीरज धरी, कहे तुं मुजने बोड ॥सबूणी ॥ धनो धण प्रते बूजेवे ॥५॥ ए आंकषी ॥

तुज सरिखी हितवांठिका, अवर न नारी होय ॥सण॥ जे तारे नवजल अकी, सवल स
 खाई सोय ॥सण॥धण॥६॥ में ताहरो वच मानीयो, सुपरे धरी संवेग ॥सण॥ हित देखा
 ड्यो हेजशी, टाळ्यो मन उदवेग ॥सण॥धण॥७॥ वय वली जाशे वेगशी, बलशी इंडिय
 हीन ॥सण॥ व्याधि जरा जव लागशे, तव सवि वाते दीन ॥सण॥ धण॥८॥ अथिर संसा
 रमें ए सडु, मिलियो ठे संबंध ॥सण॥ संध्या राग तणी परे, अशिरशु शो प्रतिबंध ॥ सण
 ॥धण॥९॥ यतः ॥ शिखरिणीवृत्तम् ॥ श्रियो विदुद्धोला कतिपयदिनं यौवनमिदं, सुखं
 दुःखाक्रांतं वपुरनियतं व्यात्रिविधुरं ॥गृहावासःपासः प्रणयतिसुखं स्थैर्यविसुखं, असारः
 संसारः स्तद्विहनियतं जागृत जनाः ॥१॥ जावाथः—लक्ष्मी धीजलीना चमत्कार जेवी
 चंचल ठे, आ जुवानी केटला दिवस रहेवानी ? सुख ठे ते, दुःखशी व्यास ठे, निश्चे आ
 शरीर व्याधिग्रस्त ठे, गृहस्थाश्रम पास जेवो ठे, स्त्रीनुं सुख अस्थिर ठे अने आ संसार
 असार ठे ! ते कारण माटे हे लोको ! निश्चे तमे इहां जागृत आठ. ॥ १ ॥ धननो पिण
 मद् कारमो, ते तो दीगो परतक ॥सण॥ तें इणे जेवे माटी वही, जोय विचारी दक ॥
 सण॥ धण॥१०॥ नर नव पामी चेतीये, तो सीजे सवि काज ॥सण॥ तप संयत्न संयो
 गशी, लहिये अविचल राज ॥सण॥धण॥११॥ वार अनंती नीपन्यो, ए सगपण संयोग

॥सण॥ विषयारस बाहे थके, भोगविया बहु भोग ॥सण॥ घण ॥११॥ तृप्तो जीव अयो
 नही, अविरतिथी कोइ काल ॥सण॥ तेहजणी तुं सुंदरी, सुपरे हृदय निहाल ॥ सण ॥
 घण ॥१३॥ वचन सुणी पियुनां तदा, कहे ते सुमझ नाम ॥ प्रीण ॥ तुम साश्रे माहरे स
 ही, करवो उत्तम काम ॥ प्रीण ॥ कहे करजोडी कंतने ॥१४॥ ए आंकली ॥ पंचनी साखे
 पालव ग्रह्यो, ते किम मूक्यो जाय ॥ प्रीण ॥ ते जणी संयम माहरे, लेवो तुमचे सहाय ॥
 प्रीण ॥ कण ॥१५॥ तव बोडी साते सती, अनोपम करी आलोच ॥ प्रीण ॥ सतीय सुमझ
 नी परे, अमचो पण आलोच ॥ प्रीण ॥ कण ॥१६॥ अवर न को आकार ठे, अमचे इले सं
 सार ॥ प्रीण ॥ तुम साथे तेह कारणे, लेइशुं संयम नार ॥ प्रीण ॥ कण ॥१७॥ धनो कहे साची
 तुमे, पतिवृता व्रत परिपाल ॥ सण ॥ संगतिथी सरवे श्यां, व्रत लेवा नजमाल ॥ सण ॥
 कण ॥१७॥ त्याग कियो तिणे तुरतमें, परिग्रहनो नही पार ॥ सण ॥ चोथे उब्हासे अढार
 मी, जिन कहे धन्य परिवार ॥ सण ॥ क ॥१८॥

॥ दोहा. ॥ अथ ते धनाशाहने, रुदितणो परिमाण ॥ हय गय रथ गृह हृद तिम,
 पंच पंच शत मान ॥१॥ पांचशे प्रवहण परगडां, पन्नरशे वर आम ॥ वाणोतर एक सहस
 तिम, गोकुल आव सुकाम ॥१॥ सप्तभूमि आवास अड, आवे प्रिया उदार ॥ कोडि एकैकी तेहने,

कंचन कछो सुप्रकारा॥३॥ठप्पन क्रीड व्यवसाया॥ठप्पनक्रीड व्याजे
वधे, कर्ष संख्या इम थाय ॥४॥ लक्ष्मणे कोठार तिम, धान्यतथा परिपूर्णा ॥ इत्यादिक
सवि रुद्धिने, ठंन्नी धन्ने तूर्ण ॥५॥ सुरमणि आदे अवर पिण, रत्नराशि रमणीक ॥ नव
निधि परिग्रह सकलने, तृणपरे तेजे ते ठीक ॥६॥ सपरिवार धन्नों तडा, संयम लेवा काज ॥
चित्ते जो मुज प्रायथी, समवसरे जिनराज ॥७॥

॥ ढाल ? ए मी. ॥ (वेवे मुनिवर वहोरण पांगस्था जी. ए देशी.)

एहवे तिहां पुण्यप्रयोगे आविया जी, जिनपति वीर जिणंद विख्यात रे ॥ समवस
रण देवे सुपरे रब्धो जी, तेजे करी दिव्य साक्षात रे ॥ एहवेण ॥१॥ ए आंकणी ॥ चोत्रीश
अतिशय सुंदर शोभता जी, अष्ट महाप्रातिहार्य नदाम रे ॥ सहस जोयणनो इंध्वज
तिहां जी, आगे तिम धर्मचक्र अनिराम रे ॥ एण ॥१॥ त्रिगडो विराजे मणि कड्याएशी
जी, कोशीशा रत्न विचित्र सुतेज रे ॥ मणिमय सिंहासन शोभे घणुं जी, उत्र त्रय अ
सर धरे धरी हेज रे ॥ एण ॥ ३ ॥ चौवीश चामर वीजे देवता जी, प्रामंम्ल तरणि सहस
सम नूर रे ॥ वाव्य विराजे चिहुं दिशि बारणे जी, देव विनिर्मित जलथी पूर रे ॥ एण
॥४॥ चौविह संघ संगथे परिवत्था जी, समवसरणंमं श्री जिनराज रे ॥ बेसी सिंहास

ने भेध तणी परे जी, वरसे वचनामृत नवि हित काज रे ॥ ए० ॥ ५ ॥ परषद वारे आवे
 प्रेमगुं जी, वांदिने बेसे विनयथी ताम रे ॥ सांजले सुपरे शिवसाधन ज्ञानी जी, देशना
 अद्भुत गुण अग्निशम रे ॥ ए० ॥ ६ ॥ आरामिके दीधी जाइ वधामणी जी, भूपति श्रेणि
 कने अति उद्यहास रे ॥ सांजली नृप हर्षित अर तेहने जी, कनकरसनादिक दिधे सुविद्या
 स रे ॥ ए० ॥ ७ ॥ धनोशाह सांजली आव्या जन प्रते जी, धरने कहे सीधां वंजित काज रे
 ॥ जेहनी अजिलाषा मन हूती घणी जी, ते प्रभु पाउ घख्या जिनराज रे ॥ ए० ॥ ८ ॥
 संयम लेतां विखंब न कीजीए जी, एहवो फिरी मिलवो जाग तेदूर रे ॥ साहिब थापी
 वीर जिणंदने जी, कर्मने हणवा आउ शूर रे ॥ ए० ॥ ९ ॥ कंत वयख सुणी संयम साधवा
 जी, प्रमदा पिण अइ अतिहि उजमाल रे ॥ सातकेत्रे धन सखलो वावरी जी, दान प्रमुख
 पिण अतिहि विशाल रे ॥ ए० ॥ १० ॥ पडवा तिम डुधा कुत्री हाटथी जी, देई धन लक्ष
 प्रमित तेषिवार रे ॥ तिम बली काश्यपने तेडाविने जी, केशाग्र समरावे स्त्री भरतार
 रे ॥ ए० ॥ ११ ॥ सहस पुरुष निर्वाहक शिबिका जी, मंभावे तिहां सिंहासन सुप्रमाण रे ॥
 साजन सखला ततक्षण आविया जी, कहे मुख होज्यो तुम कडयाण रे ॥ ए० ॥ १२ ॥ अ

१. सुवर्णनी जीज विगरे. २ सर्व वस्तुना वेचनार कुत्रिकापणी डकानेथी.

नयकुमर पिण आवी इम कहे जी, धन्य धन्य धन्नोशाह सुजाण रे ॥ धन्य धन्य ए प
 रिकर रासातणो जी, पतिवृता बिरुद ते एह प्रमाण रे ॥ एण ॥ ३ ॥ ए वय ए धन एहवी
 अंगना जी, तजीने जे लेवे संयम नार रे ॥ ते तो न्ययेथी शिवरमणी वरे जी, इम सहु
 जेपे नरने नार रे ॥ एण ॥ ४ ॥ वाजां तिहां वाजे विविध प्रकारनां जी, जय जय बोले
 चारण जाट रे ॥ दान धराये वरसे तेहने जी, मिलिया तिहां नर नारीना आट रे ॥ एण
 ॥ ५ ॥ धन्नोशाह संयम लेवा संचरे जी, प्रमदाथी सोहे जेहवो इंद रे ॥ ढाल डगणीश
 मी चोथा उड्हासनी जी, कही इम बुध जिनविजये अमंद रे ॥ ए ॥ ६ ॥

॥ दोहा. ॥ वात सुणी धन्नातणी, जे ए लेवे दीख ॥ आठे स्त्री साथे अधिक, सुणी
 सुन्नदा शीख ॥ १ ॥ परिग्रह सघनो परिहरी, ठंमी माया मोह ॥ संयम लेवा संचरे, जि
 म रण भूमि 'जोह ॥ २ ॥ शालिग्रह चित चितवे, जूनु धन्नानी वात ॥ वचन थकी वा
 मी करी, चाड्यो करी अखियात ॥ ३ ॥ हुं एकेकी दिनप्रते, ठंनु रमणी जेह ॥ कायर
 धने जे कह्यो, तेहमां नही संदेह ॥ ४ ॥ जो बोडणनो मन थयो, तो तिहां किशो विलंब
 ॥ इम चिंती नडा कने, आवे अति अविलंब ॥ ५ ॥ पय प्रणमिने वीनवे, सँ तुम वयण

प्रमाण ॥ तो ते हवे तुमे माहरो, वंभित करो सुजाण ॥ ६ ॥ घन्ने पिण घण वयण्णी,
 ओढ्यो सयल संसार ॥ ते माटे हुं पण हवे, ठंढीश विषय विकार ॥ ७ ॥ माता मोटम
 मन करी, दिथो संयम आदेश ॥ वीर समीपे व्रत ग्रही, टाळूं सयल किलेश ॥ ८ ॥ ज्ञान
 चिंते एहने, किण विध राखुं गेह ॥ बहिन बनेवी बिहुं मिढ्यां, सहचारी ससनेह
 ॥ ९ ॥ तो पिण वचन कढ्यातणी, किम राखीजे हाम ॥ रोईने घर राखीये, कीजे स्वा
 थिक काम ॥ १० ॥ यतः ॥ अनुष्टुबुचम् ॥ अपमानं पुरस्कृत्य, मानं कृत्वा च प्रष्टतः ॥
 स्वकार्यं साधयेद्दिमान्, कार्यत्रंशो हि मूर्खता ॥ १ ॥ जावार्थः—अपमानने आगल करीने
 अने मानने पाबल करीने बुद्धिमान पुरुष पोतानुं कार्य साधे, परंतु कार्यनो नाश कर
 वो, ए तो मूर्खपणुं ठे ॥ १ ॥

॥ ढाल २० मी. ॥ (अरुणिक मुनिवर चाड्या गोचरी. ए देशी.)
 ज्ञान वलती रे शालिकुमर जशी, गद गद स्वरथी वाणी रे ॥ रडती बोले रे पुत्र
 में ताहरी, वात हृदयनो जाणी रे ॥ ज्ञान ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ तूं जाणे ठे रे संयम आद
 रूं, पिण कोइ खबर न राखे रे ॥ माताने आधार ते तुज विना, अत्र किशो तूं दाखे रे
 ॥ ज्ञान ॥ २ ॥ बालपणामां रे मनमां जाणती, पुत्र होशे जब मोटो रे ॥ वृक्षपण मुजने

तव पालशे, माहरे कोइ न त्रोटे रे ॥ ज्ञ० ॥ ३ ॥ बत्रीश वहुने रे बालक आवशे, ते आल
 बन थारो रे ॥ दैवे वात न को पूरी करी, शू जाशे ईम जाशे रे ॥ ज्ञ० ॥ ४ ॥ यतः
 ॥ आर्यावृत्तम् ॥ अघटितघटितानि घटयति, सुघटितघटितानि जर्झीकुरुते ॥ विधिरे
 वतानि घटयति; यानि पुमान्नैव चिंतयति ॥ १ ॥ न्नावार्थः—दैव जे ठे, ते जेम तेम घडेली
 चीजोने सारी बनावे ठे अने सारी रीते गवारी मगारेली चीजोने खाखरी करी नांखे
 ठे ! माटे दैव चीजोने तेवीज बनावे ठे के, जेनो पुरुष पण विचार न करी शके ! अर्था
 त् दैवनी अकल शक्ति ठे ॥ १ ॥ माहरो दैवे रे आयु अधिक कख्यो, जे दुःख देखण वेठी रे ॥
 नाग कंचुकी परे तुं ठेने ईहां, तुज विरहानले पेठी रे ॥ ज्ञ० ॥ ५ ॥ कोइ न बालक पाबल
 ताहरे, जे आलंवन कीजे रे ॥ पूरवकृत फल सवि आवी मीढ्यां, दोष ते कहने दीजे रे
 ॥ ज्ञ० ॥ ६ ॥ नव मसवाडा रे उदरे ऊधख्यो, बालपशाथ्री पोष्यो रे ॥ ते कोइक दिन केरे
 कारणे, नवि जाणुं ईम होशो रे ॥ ज्ञ० ॥ ७ ॥ ए बत्रीशे रे सुंदर गोरडी, शो दोषे तूं ठेने रे ॥
 सुकुलीणीने रे खीजववा चणी, एवढो शो हठ मंने रे ॥ ज्ञ० ॥ ८ ॥ ए कोवार जंफार घने
 नखा, तेहने कहो शू कीजे रे ॥ तेह अकी अमे विविधे वीनडुं, पिया तूं तिल नवि नीजे
 रे ॥ ज्ञ० ॥ ९ ॥ तुज विरेहे एक क्षण ते मुज प्रते, वरस समाणी आशे रे ॥ तो कहे कुमर

मुजने तुज विना, जनम सयल किम जाशे रे ॥३०॥ १० ॥ ताहरे तति ने दीक्षा अही, ते तुजने गृहे थापी रे ॥ तुं केहने सोंपी दीक्षा अहे, ते केहे मुज मति आपी रे ॥ ३० ॥ ११ ॥ माता बोडी रे संयम आदरो, निज सुख साधन हेते रे ॥ पिण माता तीरअ भोटो कद्यो, जिन शिवमत संकेते रे ॥३१॥ ११ ॥ यतः ॥ अनुष्ठुवृत्तम् ॥ प्रस्तरः प्रतिमां मूढ, बृथा धर्मार्थमर्चसि ॥ धर्मेशकार्यं यद्विचेत्, त्रीसंध्यं जनन्यै नमः ॥१॥ ज्ञावार्थः—हे मूर्ख! तुं धर्मने माटे पाषाणनी प्रतिमाने फोगट पूजे ठे ! जो तहारे धर्मवडे कार्य होय, तो त्रण संध्याए (सवारे, बपारे अने सांजे) पोतानी माताने नमस्कार कर. ॥ १ ॥ बालपणो जो रे तुजने सांजरे, ज्ञानथकी एणी वला रे ॥ तो मुजने तूं बोडण वारता, न करे मुखथी स्हेला रे ॥३२॥ १३ ॥ तुज विरहे घर पिंजर पंखीयां, प्राण प्राहूणा आशे रे ॥ ए धन प्रमुख सेवे स्वामी विना, राजमुवनमां जाशे रे ॥३३॥ १४ ॥ गोद विगई रे तुजने वीनवुं, जननी मूकी म जायो रे ॥ वीशमी ढाले रे जिन केहे नेहणी, कहो शू न कहे मायो रे ॥३४॥ १५ ॥

॥ दोहा. ॥ शालि केहे रे मातजी, साच कही सवि वात ॥ मरण समय आवे अके, कुण करशे सुखशात ॥१॥ वनमांहे जिम मृगप्रते, लीये सिंह नदाल ॥ तिम जम

आवे जन प्रते, लेइ चाले ततकाल ॥१॥ जरा आवडो वेगशी, तनु उपजशे रोग ॥ पंचेंडिय
 वड हारशे, तव नही धर्म संयोग ॥ ३ ॥ यतः ॥ शार्दूजविक्रिडीतवृत्तम् ॥ यावत् स्वस्थ
 मिदं शरीरमरुजं यावज्जरा दूरतो, यावच्चेंडिय शक्तिरप्रतिहता यावच्चिरोवायुपः ॥ आत्म
 श्रेयसि तावदेवह्निजनैः कर्त्तव्यधर्मोद्यमः, संदिते जुवने हि कूपखननं प्रत्युद्यमः कीदृशः
 ॥१॥ नावार्थः—ज्यां सूधी, आ शरीर स्वस्थ अने रोग विनालुं ठे, वृद्धवस्था वेगली ठे,
 इंडियोनी शक्ति कायम ठे अने आयुष्य लांबु ठे; त्यां सूधी माणसोए पोताना आत्म क
 ल्याणने अर्थे धर्मोद्यम करवो जोइए; परंतु घर लागथा पठी कूवो खोदवानो उद्यम क
 रवो, ए केवो ? नकासो ! ॥१॥ ते झरणी अनुमति द्यो हवे, जिम संजालूं आप ॥ वीर व
 चन दिलमें धरी, अजुयालूं सो वाप ॥४॥ एहवे वेत्रीशे मिली, कामिनी करे विचार ॥
 कंते हठ मांड्यो अठे, लेवा संयम नार ॥५॥ सासूजी सुपरें कद्यो, घरवट वात विचार ॥
 पिया नवि माने वचन तस, आपमती नरतार ॥ ६ ॥ नीति रीतथी मांखीयो, स्वामीशू
 धरी स्नेह ॥ कंत विना शां कामनां, ए धन झूपण गेह ॥७॥

॥ बाल -११ मी. ॥ (जिनजी चंद्रप्रभू अवधारी के नाथ निहालजो रे लो. ए देशी.)
 साहिवा तव वेत्रीशे नार मिली कहे नाहने रे लो, साण अति आकूलथी ताम के

पालव साहिने रे लो ॥ सा० किम जावो गो ठोडि के मोहन साहरा रे लो, सा० अ
 मे किम ठोडुं एम के पालव ताहरा रे लो ॥ माहरा वालमा रे लो ॥१॥ ए आंकणी ॥
 सा० तुमशुं अमचो नेह के पूरव प्रीतथी रे लो, सा० लाग्यो अविहड नेह के जिम गो
 ह प्रीतथी रे लो ॥ सा० घोयो ते न घोवाय के अति घणा नीरथी रे लो, सा० प्रीत
 बनी एक रंग के जिम जल खीरथी रे लो ॥ सा० ॥१॥ सा० शुं अम ठोडण काज के प
 रणी प्रेमथी रे लो, सा० अमे आवी अत्र के अलवे एमथी रे लो ॥ सा० अमचा पि
 ए माबाप के ठे घरमां सुखी रे लो, सा० अमने सौप्यां जेह के शुं करवा डःखी रे लो
 ॥ सा० ॥३॥ सा० तुमे अम मस्तक मोड के अमे तुम वाणही रे लो, (सा० तुमची आ
 ए जेह के कइ लोपी नही रे लो) सा० सुपरे पालो स्नेह के निरवाही सही रे लो ॥
 ॥ सा० सापुरिसानी रीति के राखो हेजथी रे लो, सा० अंगीकृत निरधार न मूके खीज
 थ्री रे लो ॥ सा० ॥४॥ सा० जुनु इश्वर अर्धांग उमादेवी धरी रे लो, सा० कण एक मात्र
 विचाल न मूके ते परी रे लो ॥ सा० मस्तकमे तिम गंग घरे बहु यत्नथी रे लो, सा० अं
 गीकृतेन काज न मूके प्रयत्नथी रे लो ॥ सा० ॥५॥ यतः ॥ वसंतलिखकावृत्तम् ॥ अ
 द्यापि नोश्चतिहरः किलकालकूटं, कूर्मोबिन्नार्चिधराणि किल पृष्ठकेन ॥ अंजोनिधिस्सहति

डस्सह वाडवाणिं, अंगीकृतं सुकृतिनः परिपालयेति ॥ १ ॥ जावाअः—शिव हजु सुधी
 कालकूट जेरने ठोडी देतो नथी, काचबो (कणपावतारसां) जे ठे, ते पृथ्वीने पोतानी
 पीठे घरी राखे ठे अने समुद्र डस्सह एवी वडवानल अग्निने सहन करे ठे ! माटे जला
 पंक्ति पुरुषो, अंगीकार करेलाने त्याग करता नथी. ॥ १ ॥ साण आश्रित माटे सर्प कंठे
 भूपण कियो रे लो, साण कालकूट विष डुष्ट ग्रही ज्ञहण कियो रे लो ॥ साण लह्मनीने
 जुबे कृष्ण न्हंगे जालवे रे लो, साण सोरली मधुरे नाद सुसादे आलवे रे लो ॥ साण
 ॥६॥ साण कहो पियुजी नुमे डुष्ट थया ठो शा नशी रे लो, साण असवा मनने होंश
 हती वध्नन्न घणी रे लो ॥ साण कोईक दाखो दोष सुधोष करी मुखे रे लो, साण के को
 इ देइ आधार पठे जाज्यो सुखे रे लो ॥ साण ॥७॥ साण दैवप्रयोगे एष जो मति तुमची
 फरी रे लो, साण नवि दीधी वली तेमज केहने दीकरी रे लो ॥ साण पुत्रतणी तो होंश
 पूरी किहांथी पडे रे लो, साण दैव संगंथे जोर किसीपरे नीवडे रे लो ॥ साण ॥८॥ साण
 ते नशी बाल वे चार हुबे अमचे यदा रे लो, साण ते आधार उदार होशे अमने तदा
 रे लो ॥ साण पठे सुखे लेजो दीख कडुं तुं आजथी रे लो, साण यदा तदा बोल न
 बोलूं लाजथी रे लो ॥ साण ॥९॥ साण वय असची लघु देखि दया नथी आवती रे लो,

सा० जे जिनधरममें सार कही ठे ते वती रे लो ॥सा० वलि तजवो अन्निमान सिखं
ते ए वकी रे लो, सा० ते तुमे राख्यो वित्त के नृप आव्या थकी रे लो ॥सा० ॥१० ॥
सा० विनयमूल जिनधरम अमे पियु सांज्जड्यो रे लो, सा० माताने दिलगीर करंतां ते
गड्यो रे लो ॥सा० जोवो हृदय विमास ए साची वातडी रे लो, सा० रमशिने कुण
करे हेत कंता विण इम जडी रे लो ॥सा० ॥१॥ सा० पंचनी साखे हाथ ग्रह्यो ते नि
रवहो रे लो, सा० जाशुं जाशुं एम के मुखथी शू कहो रे लो ॥सा० शुं तुम लाग्युं जू
त के व्यंतर आश्रम्यो रे लो, सा० के शू जडकी सात के कथन न को गम्यो रे लो ॥
सा० ॥१२॥ सा० इम बत्रीशो नारि विविध वचने करी रे लो, सा० समजावे निज नाह
के सुपरे सुंदरी रे लो ॥ सा० नवि जेदाणो नाह के नेह न राखीयो रे लो, सा० पाबो
पिण तस उत्तर एक न ज्ञाखीयो रे लो ॥सा० ॥३॥ सा० तव थाकी ते नार गई साखू
कने रे लो, सा० पाय नमीने वात कहे सवि शुच मने रे लो ॥सा० नित्य एकेकी त्या
ग करंतो कामिनी रे लो, सा० आज तो सधली तेम तजे कां ज्ञामिनी रे लो ॥ सा०
॥१४॥सा० जे बली कोथ उपाय होवे ते दाखवो रे लो, सा० उल्ले गडे गणेश हवे
शो ज्ञाखवो रे लो ॥सा० ए एकवीशमी ढाल चोथा उड्हासनी रे लो, सा० कही जिनवि

जये एह के वचन विलासनी रे लो ॥माणा॥१५॥

॥ दोहा. ॥ माताये सुत स्नेहथी, विविध कख्या विलाप ॥ तिम स्त्री पिण सघली
मंली, दाख्या कला कलाप ॥१॥ शालिचन् नवि जेदियो, मन वचथी महिराण ॥ शील.
सन्नाहनें शूं करे, मनमथ नृपनां बाण ॥३॥ तव माता कहे ताहरे, शोठे मन आलोच ॥
शालि कहे संयम जणी, हुं कहं सयल संकोच ॥ ३ ॥ माता चिते सुज थकी, अनुमति
किम देवाय ॥ ए पिण घरमां नवि रहे, अही ठुंढरी न्याय ॥४॥ एहेव गौजन् देव तव,
कहे ज्ञाने आम ॥ अनुमति द्यो दीक्षा तणी, शालिजणी सुखकाम ॥५॥ तव जज्ञ म
नं टुठ करी, कहे वज्र तुम सुख जेम ॥ तिम करो अति अविखंबथी, सदा रहो तुज खेम
॥ ६ ॥ जज्ञ लेई जेठणो, पढोती श्रेणिक पास ॥ करजोडी कोमल स्वरे, एम करे अर
दास ॥७॥ शालिकुमर संयम ग्रहे, ठंढी सयल संसार ॥ ते जणी वत्रादिक सेवे, आपो
जी इखिवार ॥८॥ सुणि श्रेणिक विस्मित थयो, कहे ज्ञाने वाण ॥ उठव दीक्षानो अ
धिक, अमे करशुं इणे गाण ॥९॥ रजोहरण पडयो तिहां, देई लक्ष दीनार ॥ कुतियाव
एथी आपणीया, जज्ञाये तिखिवार ॥१०॥

॥ हाल २३ मी. ॥ (देशी कुंबखडानी.)

श्रेणिक सधि परिवारशुं रे, आवै शालि आगार ॥ सनेही साजना ॥ उहंगे आणो
 दशुं रे, बेसारे तेषिवार ॥ सनेही साजना ॥१॥ ए आंकणी ॥ शा माटे संयम ग्रहो रे,
 आ यौवन वय मांह ॥सण॥ जोगविये लक्ष्मी जली रे, रहो मुज बांहनी बांह ॥सण॥३॥
 शालि कहे तव रायने रे, तुमे कह्यो ते सवि साच ॥सण॥ जन्म मरण जयथी सदा रे,
 राखी सको कहो वाच ॥सण॥ ३॥ श्रेणिक कहे एहथी सेवे रे, जय पामे सवि जीव ॥
 सण॥ अरिहंत विण नवि एहनो रे, जय वारण ते सदैव ॥सण॥४॥ शालि कहे ते जयज
 णी रे, टालवा लिडं चारित्र ॥सण॥ तव श्रेणिक शालिभइने रे, नमण करावे पवित्र ॥
 सण॥५॥ पूजा श्री जिनराजनी रे, विरचे संतर प्रकार ॥सण॥ अष्टायिक उहव करे रे,
 खरचे दाम अपार ॥सण॥ ६॥ अनुकंपादिक अतिघया रे, देवसेवे तेषिवार ॥सण॥ का
 श्यपने तेडे तदा रे, छे तस लक्ष्मीनीार ॥सण॥ ७॥ चार अंगूल वरजी सेवे रे, समरावे
 शिर केश ॥सण॥ तव जज्ञ रोती अकी रे, पालवे ग्रहे सुविशेष ॥सण॥८॥ घोड सुवासित
 नीरथी रे, धूपे धूपे तास ॥सण॥ तिथि परेवे ए देखशुं रे, पुत्रना केश प्रकास ॥सण॥ ९॥
 रत्नकरं दे थापिने रे, राख्या यतने तेह ॥सण॥ उहव दीक्षानो तिहां रे, श्रेणिक करे सस
 नेह ॥सण॥१०॥ पुनरपि स्वान कराविने रे, वस्त्राभरण विशेष ॥सण॥ पहिरावे प्रेमे करी

रे, पुष्पदास मुविशेष ॥सण॥१॥ शालिकुमरने सिंहासने रे, शिविकामांहि बेसार ॥सण॥
 वत्रीशे नारी तिहां रे, बेठी करी शिणगार ॥सण॥१॥ सहस पुरुष वहे शिविका रे, शो
 नित शुचि करि गात्र ॥सण॥ आगल हय गय रथ भला रे, तिम वली नाचे पात्र ॥सण॥
 ॥१३॥ वंदीजन जय जय करे रे, बोले विरुद सुचित ॥सण॥ वाजिंत्र वाजे अति घणां रे,
 सोद्व गवे गीत ॥सण॥१४॥ दान देवे याचक प्रते रे, जे मागे ते तास ॥सण॥ एहवे गौ
 भद्र देवता रे, लुब्ध करे लुब्धास ॥सण॥१५॥ राजगृही रत्नियामणी रे, शिणगारी सवि
 तेह ॥सण॥ आकाशे देवकुंडली रे, बाजे बुनीथी अवेह ॥सण॥ १६॥ ठत्र घरे शिर ऊ
 परे रे, मेघानंवर देव ॥स०॥ चांभर अति सोहामणां रे, वीजे विधिथी हेव ॥सण॥१७॥
 श्रेयिक सेचन गज चढी रे, चाले परिकरजुत्त ॥सण॥ अवर दिशे गौभद्रजी रे, देव स्व
 रूप प्रयुक्त ॥स०॥१८॥ मणिमय शिविकामें तिहां रे, पाठल भद्रा मात ॥सण॥ मेघतणी
 परे वरसती रे, वसुथकी अधिक विख्यात ॥सण॥ १९॥ इत्यादिक आनंभरे रे, चाड्या
 शालिकुमार ॥सण॥ धनोशाह पिण कुद्धिरी रे, आची मिड्या तिणिवार ॥सण॥ २० ॥
 दूधमें जिम मिसरी मिड्ये रे, होवे अधिक सतेज ॥सण॥ तिम शालिचड्ने तिले समे
 रे, धनाथी वध्या हेज ॥स० ॥ २१ ॥ समवरण आव्या वही रे, महोटो करीय मंभ्राण

॥ स० ॥ तत्रादिक देखी करी रे, ऊतरिया तिले ठाण ॥ स० ॥ २२ ॥ पंचाङ्गिम ते
साचवी रे, वंदे सवि नर नार ॥ स० ॥ रोमांचित हरषित तदा रे, धनो शालिकुमार ॥ स०
॥ २३ ॥ वेढा प्रभुने वांदिने रे, लेवा संयम जार ॥ स० ॥ ढाल बावीशमी जिन कहे रे,
चोथे उडहासे उदार ॥ स० ॥ २४ ॥

॥ दोहा. ॥ तव श्री वीर जिनेसरू, देशना ये सुप्रकार ॥ श्रेणिक प्रमुख सकल
तिहां, सुखे विनयथी सार ॥ १ ॥ शालिभद्रधनो तदा, मागे संयम शीख ॥ अहासुहं इम
नच्चरे, वीर वचन रस ईख ॥ २ ॥ कुण ईशाने आविने, ऊतारे आत्रर्ण ॥ ते सधयां ज्ञज्ञ
ग्रहे, उचितपणाथी तूर्ण ॥ ३ ॥ पंचमुष्टि करे लोच जव, शालिकुमार अइ धीर ॥ सजल
नयनथी तवं कहे, भद्रं वयणं गंभीर ॥ ४ ॥ यतना करजे जात तुं, आलस तजजे दूर ॥
पूर्णे पराक्रमथी धरे, संयम मार्ग सनूर ॥ ५ ॥ चारित्र चिंतामणितणां, करजे कोडियत
न ॥ फिरि फिरिने नथी पामवो, एह अमुड्य रतन्न ॥ ६ ॥ जो बंध्या ब जोगने, विषसम
जाणी अत्र ॥ तो रखे लालच राखतो, सुंदर लही अन्यत्र ॥ ७ ॥ तिम धन्नाने पिण
कहे, शीख वचन सुविलास ॥ पुत्री सुभ्रश प्रमुखने, जज्ञ ये सावाश ॥ ८ ॥ पतिवृता
तुमे पदमिणी, धन धन तुम अवतार ॥ पति संयोग संयम ग्रहो, पालजो निरतीचार ॥

॥९॥ वेष धरी विधिगुं सवे, आवे वीर नजीक ॥ वांढी कहे दीक्षा दियो, अहो समता
रस नीक ॥ १० ॥ वीरे वास ठवीसरे, दीक्षा शिक्षा रूप ॥ आपीने हवे उपदिसे, देशना
अतिहे अनूप ॥११॥

॥ ढाल ५३ मी. ॥ (तुंगीया गिरि शिखर सोहे. ए देशी.)

वीर मधुरी वाणी जंपे, सुखे परषद बार रे ॥ हृदय विकसित करी निसुखे, धन
शालि अणगार रे ॥ वीर ० ॥१॥ ए आंकली ॥ चारित्र उपर सुखो उपनय, राजगृहिमें इं
ग रे ॥ धनोसार्थप सुगुण निवसे, भद्रा स्त्री तस चंग रे ॥ वी ० ॥२॥ पुत्र चार सुरूप रूढा,
धनपालने धनदेव रे ॥ धनगोपने वली धनरक्षित, करे तातनी सेव रे ॥ वी ० ॥३॥ परणा
विया ते पुत्रने तव, शेठे धरी मन राग रे ॥ एक दिवसे रात्रि समये, चिंतवे महाजाग रे
॥ वी ० ॥४॥ सकल नगरमें मुजनै पूढे, कार्य कामे लोकरे ॥ नातिमें पिण सह माने, वच
न न करे फोकरे ॥ वी ० ॥५॥ हवे मुजने कालधरमे, अथवा कोशक काज रे ॥ ऊपने मुज
घरतणो सवि, राखशे कुण राज्य रे ॥ वी ० ॥६॥ योग्य जाणी झार धरनो, सोंपवो निर
धार रे ॥ विचाख्या विण झार सोंपे, करी नांखे खवार रे ॥ वी ० ॥७॥ यतः ॥ मालिनी
वृत्तम् ॥ थदि शुभमशुभवा कूर्वतां कार्यजातं, परिणतिरवधार्या यत्नतः पंम्हितेन ॥ अति

रत्नसकृतानां कर्मणामाविपत्तेः भवति हृदयदाही शब्दयतुल्यो विपाकः ॥ १ ॥ जावार्थः—
 काम करनारा माणसने काम करतां, जो कदि सारुं अथवा नरखुं जे थाय, तो तेनी प
 रिणती पंफित पुरुषे यत्नथी अवधारवी जोइए. कारण के उतावलयी करेला कामोनो
 विपाक, ज्यां सूधी ते संबंधी विपत्ति रहे ठे, त्यां सूधी हृदयने बाले ठे अने एक शब्दय
 सरखो साले ठे. ॥१॥ प्रजाते सवि सयण पोपी, तेडि बहुअर चार रे ॥ पांच पांच कण
 शालि केरा, दिये करी मनोहार रे ॥ वी० ॥७॥ मागीए जव अमे तुमथी, देजो ए कण
 पंच रे ॥ चार बहुने शीख सुपरे, दिये जोई संच रे ॥ वी० ॥८॥ चार बहु कण लेइ चा
 ली, पहेती निज निज ठाम रे ॥ बडी बित्ते एह कणथी, सीऊशे शो काम रे ॥ वी०
 ॥ १० ॥ मागशे तव अन्य देगुं, नांखी ये इम जाणि रे ॥ बीजीये कण प्रह कधी,
 स्वसुर हस्त प्रमाण रे ॥ वी० ॥११॥ बीजी चिते तातजीए, दीघा कारण कोय रे ॥ यत
 न करीने गुप्त स्थानक, राख्या युगते सोय रे ॥ वी० ॥१२॥ लघु वधु मनमें विमाले, व
 धारुं एह बीज रे ॥ पीयेरे जइ कल्पकरने, दीये करी घणी रीऊ रे ॥ वी० ॥१३॥ ए
 पांचे कण सुपरे करीने, वावज्यो शुभ ठाम रे ॥ कण हुवे तव सर्व लेइ, राखज्यो कोइ

* खेतो करनारने.

धाम रे ॥ वी० ॥१४॥ जिम कह्यो तिम तिए कीधो, बीजनी अइ वृद्धि रे ॥ वली बीजे
 वरस आवे, खेत्र खेडी समृद्धि रे ॥ वी० ॥१५॥ बीज सघलो तिहां वाव्यो, अइ बहुनी शा
 लि रे ॥ वरस पांचवगे एम करतां, कण ग्रथा असराव रे ॥ वी० ॥१६॥ जरी कोठा करी
 मुझा, लघु बहु मन रंग रे ॥ पांच वरषे फिरी तेज्यो, कुटुंब सवि डबरंग रे ॥ वी० ॥१७॥
 वडी बहु बोलावि वेगे, मागे कण ते पंच रे ॥ तव तुरतमें आणि दीधा, करी नहीं
 खलखंच रे ॥ वी० ॥१८॥ सुसरो कहे ए कस न माहरा, करो सपथ सुसंग रे ॥ तव कहे
 में नांखि दीधा, एह अवर अंजंग रे ॥ वी० ॥१९॥ वयण निसुखी स्वसुर कोप्यो, कहे
 राखी रीश रे ॥ ठाण लीपयतणो कारज, करे तुं निश दीश रे ॥ वी० ॥२०॥ डझिता
 तस नाम देई, राखी गृहने द्वार रे ॥ हेबे बीजी बहु बोलावी, मागे कण तिखिवार रे
 ॥ वी० ॥२१॥ ते कहे में अक कीधा, सुणी कोप प्रकास रे ॥ अदिका तस नाम थापी,
 करी रांधण तास रे ॥ वी० ॥२२॥ त्रीजी प्रते तेडी तिवारे, आवी प्रशमे पाय रे ॥ तेह
 कण यतने करीने, दीए अति उन्हाह रे ॥ वी० ॥२३॥ स्वसुर पूठे कहो बहुजी, कण अ
 वर के तेह रे ॥ ताम कहे बहु तेह निश्चय, इहां नहीं संदेह रे ॥ वी० ॥२४॥ रक्षिका तस
 नाम थापी, सोंप्या सयल जंमार रे ॥ लघु बहुपे लाडथी तव, मागे कण सुप्रकार रे ॥

वीण ॥१५॥ इसी कहे तव तेह बाला, शकट द्यो दश वीशरे ॥ जिम तुमारा कण अ
 हीने, लावीए सुजगीश रे ॥वीण॥१६॥ सुणी ससरो चित्त हरख्यो, देखी बुद्धि विलास
 रे ॥ रोहिणाचल परं रूडी, नाम रोहिणी खास रे ॥वीण ॥१७॥ घर नार सघलो द्वियो
 तेहने, योग्य जाणी ताम रे ॥ पंचमें पिण वधी शोभा, धयो इच्छित काम रे ॥वीण॥१८॥
 इम जेह दीक्षा लेइ उच्छित, करे ते मति मूढ रे ॥ हीलणा इहलोक पावे, नरके जावे
 गूढ रे ॥वीण॥१९॥ लेइ संयम उदरवृत्ते, व्रततणो करे नरकरे ॥ नरिकापरं पेट भरतां,
 कछ्यो नही ते दूकरे ॥वीण ॥२०॥ व्रतं धरीने जंग न करे, पावे निरतिचार रे ॥ रक्षिका
 परे मान पामें, परभवे शिव सांरे ॥वीण॥२१॥ रोहिणी परे जे वधारे, व्रततणा गुण रंग
 रे ॥ उपदेशाथी पिण बूजवै बली, तरे तेह सुचंग रे ॥वीण ॥२२॥ शैठ जिनवर शिष्य ते वधु,
 पंच कण व्रत पंच रे ॥ ते वधारे तेह पांमे, विपुल शिव सुख संच रे ॥वीण॥२३॥ ते नयी
 व्रत लेइ पालो, रोहिणी सम धीर रे ॥ एह उपनय कछ्यो तुमने, इम कहे श्री वीर रे ॥
 ॥वीण॥२४॥ सुणी परषद सवे हरखी, शालि धनो तेम रे ॥ त्रैवीशमी ढाल जिन कहे
 ए, चोथे उच्छासे एम रे ॥वीण ॥२५॥
 ॥ दोहा. ॥ नज्ञ कहे करजोडिने, सुणो एक अरदास ॥ ए सुत थापयती परे,

सौंपु छुं तुम पास ॥१॥ दुःख दीगो नथी सुपनमें, सुखोपवित ठे एह ॥ तप जप करतो
 एहने, जालवज्यो धरि नेह ॥२॥ तुमने ए बालकतणी, घणी जलामण आज ॥ शी दीजे
 सुपरें करी, देतां लागे लाज ॥३॥ पुत्र जमाई पुत्रिका, अति वद्वज जग मांह ॥ ते त्रिणये
 तुमने अमे, बहोराव्या सोढाह ॥४॥ इम कही वांदी वीरने, पुत्रादिकने तेम ॥ वांदी बहु
 तेडी घरे, नश आवी एम ॥५॥ सुत विरहे जूरे घशुं, तिम पति विरहे नारि ॥ वीर घी
 र पण तिहां थकी, करे अन्यत्र विहार ॥६॥ शालिजड धनो हवे, नशे ते अंग इग्यार ॥
 तप इस्तप करे तिम वली, चारित्र निरती चार ॥७॥ वारे वरषे विचरतां, तारण नवज
 ल तीरं ॥ राजगृहीमें रंगशुं, ससवसस्था श्री वीर ॥८॥ शालिजड धनातली, आव्यानी
 सुणी वात ॥ देवे लाख वधामणी, ताम ते नशं मात ॥९॥

॥ ढाल २४ मी. ॥ (मुखने मरकले. ए देशी.)

तव नश नशे जावे जी, मुखथी इम जांखे ॥ बहु सघलीने समजावे जी, सुप
 रें करी दाखे ॥ फड्यां नाग्य अनूप तुमारां जी, मुण ॥ आव्या पुत्र जमाई अमारा जी ॥
 सुण ॥ १ ॥ वली आव्यां सुनज वाईजी, मुण ॥ एहनी पूरण पुण्य कमाई जी ॥ सुण ॥
 आज आंगणे अमीरस वूथ्या जी, मुण ॥ इष्टेव आवीने तूथ्या जी ॥ सुण ॥ २ ॥ जेहनी

जोतां घणी वाटः जी, मुण॥ अह निशि करता ऊचाट जी ॥ सुण॥ तेह आव्या पुण्य पसा
 ये जी, मुण॥ नाम लेतां आणंद आये जी ॥ सुण॥ ३॥ वंदन सामग्री कीजे जी, मुण॥ धनके
 रो बाहो लीजे जी ॥ सुण॥ तुमे सोल सजो शिणगार जी, मुण॥ पहिरो वजो वेरा सफार
 जी ॥ सुण॥ ४॥ घणे दिवसे ऋषण काढो जी, मुण॥ आज हृदय अयो मुज ताढो जी ॥
 सुण॥ सामग्री वंदणकेरी जी, मुण॥ करे सुतने स्नेहे जलेरी जी ॥ सुण॥ ५॥ एहवे धनो
 शालि सुसाध जी, मुण॥ वंदे बीरने निरबाध जी ॥ सुण॥ मागे शीख गौचरीने काज जी,
 मुण॥ मासखमणनो पारणो आज जी ॥ सुण॥ ६॥ कहे वीर सुणो वड वात जी, मुण॥
 मात हाथे आहार सुख्यात जी ॥ सुण॥ सुणि शालि मुनीश्वर हरखी जी, मुण॥ ७॥ धना
 साथे इजा निरखी जी ॥ सुण॥ ८॥ तेह गौचरिये तिहां जावे जी, मु० ॥ निज माताने घ
 रे आवे जी ॥ सुण॥ स्त्री बेठी तनु शिणगारे जी, मुण॥ पिण पति नवि डलखयो त्यारे जी
 ॥ सुण॥ ९॥ आंदर तव किणही न दीधो जी, मुण॥ वलिं आहारं न मिड्यो तिहां सीधो जी ॥
 सुण॥ धनो शालिभद्र विचारे जी मुण॥ वीर वचन हृदय संभारे जी ॥ सुण॥ १०॥ तव ति
 हांथी पाढा वलिया जी, मुण॥ पिण किणही तेह न कलिया जी ॥ सुण॥ मारगमें मिला
 महियारी जी, मुण॥ विनयानत थइ सुपियारी जी ॥ सुण॥ १०॥ देखि शाविने जड्डसित

थाये जी, सु० ॥ तस तदर्थमें हरख न माये जी ॥ सु० ॥ विकसीत वदने इम बोले जी, सु०
 ॥ बोहरो दहीं एम अतोले जी ॥ सु० ॥ १ ॥ वे साधुना पड्या पूखा जी, सु० ॥ नवि रा
 ख्या कांड अधूरा जी ॥ सु० ॥ वहेरीने स्थानक आवे जी, सु० ॥ वीर वांड़ी अधिके जावे
 जी ॥ सु० ॥ १२ ॥ तिहां गमनागमन आलोवे जी, सु० ॥ करजोर्डी वीरने पूढे जी ॥ सु० ॥
 तुमे मात कही हंली स्वाभी जी, सु० ॥ दधि दाता ए अन्य पामी जी ॥ सु० ॥ १३ ॥ तव
 वीर कहे तुम माता जी, मुंणां पूरव प्रवही सुविख्याता जी ॥ सु० ॥ सवि पूरव प्रव पर
 काशी जी, सु० ॥ शालि मुनिवरे जेह अन्ध्यागो जी ॥ सु० ॥ १४ ॥ सुखि शालि तहति वि
 चारे जी, सु० ॥ निज पूरव प्रव चिचंधारे जी ॥ सु० ॥ जुन पूरव प्रवे हुं गोवालजी, सु० ॥
 इणे भव न गण्यो भूपाल जी ॥ सु० ॥ १५ ॥ बख खंम न मिलतो साजो जी, सु० ॥ (गत
 प्रये) मुज अन्न न मिलतो ताजो जी ॥ सु० ॥ आ प्रव रत्नकवल दीधां जी, सु० ॥ खीये पग
 लूही नांखी दीधां जी ॥ सु० ॥ १६ ॥ पायसान्न ते डल्लहो पायो जी, सु० ॥ पूरव प्रवे परि
 श्रमे आयो जी ॥ सु० ॥ इह प्रवे दिव्य भोजन कीधां जी, सु० ॥ मनवंडित दिन सवि
 सीधां जी ॥ सु० ॥ १७ ॥ गत प्रवे एक कवडी न पाई जी, सु० ॥ इह प्रवे वलि लक्ष्मी
 आई जी ॥ सु० ॥ एक साधुना दान प्रनाये जी, सु० ॥ ॥ ए पाम्यो सुख वडदोये जी

सुण॥१७॥ धन धन जिनधर्म आधार जी, सुण॥ जेहथी सुख लहीए सार जी ॥ सुण ॥
 चोवीशमी चोथे उलहासे जी, सुण॥ ढाल सुंदर जिन इम ज्ञासे जी ॥ सुण ॥१७॥
 ॥ दोहा. ॥ वीर नमीने विनयथी, ते बिहुं मुनि शिर ताज ॥ मासखसएनो पार
 णो, करे तनु नाटक काज ॥ १ ॥ शालिन्त्रघ्नो भिली, करे वैराग्य विचार ॥ काया
 बल काचां अयां, करिये अणसण सार ॥१॥ जाहुं देता जे जणी, तेह तो काज न आ
 य ॥ ते माटे वोशिरावीए, साथीये शिवसुख गाय ॥३॥ प्रत्युषे श्री वीरने, प्रणामी मागे
 शीख ॥ अणसण तुम आणा अकी, आदरिये जिम ईष ॥४॥ वीर कहे जिम सुखहोवे,
 तिम आराधो हेव ॥ विलंब न करवो एहमें, हे सुरप्रिय स्वयंमेव ॥५॥

॥ ढाल १५ मी. ॥ (निंदान कीजे कोइनी पारकी रे. ए देशी.)

आज्ञा लही श्री वीर निणंदनी रे, हरखथा मनमें साधुजी ताम रे ॥ त्रिण्य प्रद
 क्षिया देयने रे, वांदि विधिथी जिन अन्निराम रे ॥ आज्ञाण ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ पुनरपि
 पंच महाव्रत ऊचरे रे, आलोइ सयल अतिचार रे ॥ गौतमादिक अणगारने रे, विधिगुं
 खमावे वारंवार रे ॥ आण ॥१॥ चंदनबाला प्रमुख महासती रे, तेहगुं पिण खामे टाली

१. जाहुं अर्थात् शरीरने जाहुं आपवा माटे आहार करे. २. देवानुपिय.

शब्द रे ॥ गौतमस्वामीने साधे लेयने रे, चढ्या वैजारे ग्रह निर्मळ्य रे ॥ आण ॥ ३ ॥ शा
 म शिवाने पडिलेही तिहां रे, कीघा संथारा अणसण काज रे ॥ चार आहारने पचळ्या
 प्रेमशुं रे, चारे शरणां करे कृपिराज रे ॥ आण ॥ ४ ॥ लाख चोराशी जीवायोनिने रे, खेमेने
 खमावे शुन जाव रे ॥ शत्रु मित्र सवे सरिखा गणे रे, त्रिकरण राखीने इक जाव रे ॥
 आण ॥ ५ ॥ प्रदोषगमन अणसण आवरे ॥ जावळी वळगें करि जोर रे ॥ काया बोझारावी
 काची जाणिने रे, इंद्रिने वश कीघां देखा चोर रे ॥ आण ॥ ६ ॥ मदने मद्रिा सम जाणी बो
 डिया रे, राग छेयने राख्या ते करी दूर रे ॥ जयनो जय टालीने निर्जय थया रे, खेले ते
 समता गंगेने पूरे ॥ आण ॥ ७ ॥ सुमति गुपतिने चित्तमांहे धरी रे, जावे जावे जावना वार रे
 ॥ आत्म स्वरूप प्रते अवगाहता रे, मन धरे ध्यान तिहां अविकार रे ॥ आण ॥ ८ ॥ एहवे
 प्रशये सामग्री सजी रे, बहु बत्रीशेने लेइ साध रे ॥ श्रेणिक नृपने साथे तेडीया रे, जे
 टवा जावे श्री जगनाथ रे ॥ आण ॥ ९ ॥ वाजिंत्र वाजे विविध प्रकारनां रे, गाजते धन सम
 अंबर नाद रे ॥ अधिक उडवशी आवी वांदवा रे, मनमांही धरती अति आडहाद रे ॥
 आण ॥ १० ॥ आवीने वांदे जिनवर वीरने रे, विधिशुं चित्तथी धरिय उडहास रे ॥ साधु स
 नेने निरखे खांतिशुं रे, शाखिन्नइ तिहां नवि देखे पास रे ॥ आण ॥ ११ ॥ धन्न मुनिवरने

पिण दीगा नही रे, उपन्यो मनसं न्नेने विचलेप रे ॥ गुं किहां ध्यानादिकने लेयने रे,
 बेगा हुशे ते शुच स्थल देख रे ॥ आण ॥ ११ ॥ पूबे करजोडी जिनपति वीरने रे, शालिज्जइ
 धनो ठे किय ठाम रे ॥ वीरे वृत्तांत सवि विवरी कद्यो रे, जिहां लगे पद्दोत्या अणसण
 काम रे ॥ आण ॥ १३ ॥ ततक्षण न्ना सुणि विलखी थई रे, रुदन करे तिहां असराज रे ॥
 छःखथी दाजी धरणीए पडी रे, तिम वली तिहां बत्रीशे बाल रे ॥ आण ॥ १४ ॥ दवमांही
 दाऊया पंखी फडफडे रे, तिम तरफडे विरहे नार रे ॥ चौथे उडहासे ढाल पचवीशमी
 रे, कहे जिन स्नेह बंधन ते असार रे ॥ आण ॥ १५ ॥

॥ दोहा. ॥ न्ना बहुअर तेडिने, चाली चतुरंग वेग ॥ रुदन करंती रानमें, पुत्र वि
 रह उद्वेग ॥ १ ॥ पगमें खूचे कांकरा, कांठा घेस अपार ॥ कष्ट घणो खमती थकी, पहा
 ती ते वैमार ॥ ११ ॥ गिरि उपर चढी लडथडी, देखी पोढ्या दोय ॥ असक देइ धरणी ठ
 ली, मूर्खगत थइ सोय ॥ ३ ॥ पवने पामी चेतना, देखे पुत्रनुं रूप ॥ मांस रुधिर शोषी
 तपणे, अति कुश्य अस्थि सरूप ॥ ४ ॥ हाहाकार करे तिहां, पुत्र विरहथी तेह ॥ आ शो
 कष्टें आदखो, अहो पुत्र गुणगेह ॥ ५ ॥

॥ ढाल २६ मी. ॥ (घर आवो रे मन मोहन घोटा. ए देशी.)

जीव जीवनतुं वद्वन्न वेदा, तु आधार अतीव वेदा ॥ तुं कुलमंमश माहरे वेदा,
 तुं हितकरण सदैव वेदा ॥ हसि बोलोने मन मोहन वेदा ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ तुं मुज
 आपद वारक वेदा, वारक चित्त सु ठाम वे० ॥ तुज सम अवर न माहरे वे०, आशानो
 विसराम वे० ॥ १ ॥ तुं कुल अंवर दिनमणी वे०, तुं सुकुलीन सुजात वे० ॥ तुं कोम
 लचित्त कारक वे०, सुण सुण मातनी वरि वे० ॥ ३ ॥ हुं मनमांही जाणती वे०, मल
 शे वार वे चार वे० ॥ होश धरी पडिलान्तु वे०, करशुं संफल अवतार वे० ॥ ४ ॥ तुं
 तो आंगणे आवीयो वे०, करवा मातनी सार वे० ॥ पिण में तुजने न जाणीयो वे०, हुं
 झूली तिखिवार वे० ॥ ५ ॥ ए दुःख मुजने घणो थयो वे०, दाऊया ऊपर दूण वे० ॥
 तुं इशि रीते इहां रह्यो वे०, ते दुःख टालशे कूण वे० ॥ ६ ॥ ते तप करी काया दही
 वे०, फिरी गयो तुज आकार वे० ॥ आंगणे आव्यो न नलख्यो वे०, नवि पडिलान्त्यो ल
 गार वे० ॥ ७ ॥ हुं पुण्यहीन अन्यागणी वे०, मुजने पडो धिक्कार वे० ॥ कळपडुम परे
 आंगणे वे०, आव्यो न जाण्यो तिवार वे० ॥ ८ ॥ धन धन ते तुज मावडी वे०, महि
 यारी गुणगेह वे० ॥ पुत्र नवांतरे नलख्यो वे०, साचो तेह सनेह वे० ॥ ९ ॥ पूर्वे पिण
 पायसान्नाथी वे०, संतोष्यो हतो संत वे० ॥ आ न्ने पिण तुम वांढित वे०, हित धरी द

धि दियो संत बेणाहण॥ १०॥ जो हुं जाणुं तेहने बेण, तो आपू धरमांहि बेण ॥ बहिन क
रीने लेखवुं बेण, सेवुं तस उळांहि बेणाहण॥ १॥ तुज विरहानल दाहथी बेण, दुःखणी लुं
इण काल बेण॥ वचनामृत जलथी करी बेण, ठारो करिय संनाल बेणाहण॥ ११॥ एकण
वार बोलाविने बेण, पूरो अम मन कोड बेण॥ गोड बिबाइने वीनहुं बेण, पाय नमुं कर
जोड बेण॥ हण॥ १३॥ प्राण हुशे हवे प्राहुया बेण, तुं अणबोले इणिवार बेण॥ वचन बे
चार जे बोलशो बेण, ते अम थारो आधार बेणाहण॥ १४॥ इणिपरे विविध विलापथी बेण,
रुदन कखो असराव बेण॥ चोथे उट्हासे बधीशामी बेण, कही जिनविजये ढाल बेण॥ १५॥

॥ दोहा॥ इणिपरे नइथे घणा, कखा विशेष विलाप ॥ निरखी निरखी शालि
ने, अति पासे संताप ॥ १॥ तेह काया तेह चातुरी, ते तनु तेज सुवास ॥ तपथी दाऊया
देखिने, नइ अर उडास ॥ २॥ अइ बिलविले थके, तव बत्रीशे नारि ॥ प्रीतमने दे
खी करी, करे विलाप अमार ॥ ३॥ शिर कूट कर मुष्टिथी, हृदय पठाडे हेव ॥ हाहारव
मुखथी कहे, ए शुं कीधुं देव ॥ ४॥

॥ ढाल २७ मी. ॥ (चांदलियोने ऊयो रे हरिणी आथमी रे. ए देशी.)
नाहजिया निहेजा रे केम बोलो नही रे, अमथी तुमे इणिवार ॥ बार वरसथी आ

ज तुमे मिट्या रे, किम न करो पियु सार ॥ नाण १ ॥ ए आंकणी ॥ अमे तो निगुणी ठुं
सुण कंतजी रे, तुमे ठो सुगुण निधान ॥ अमे तो तुमचो पालव जे ग्रह्यो रे, तेहनो न
राख्यो रे मान ॥ नाण ११ ॥ तुमे अम मस्तक सुगट शिरोमणी रे, अमे तुम चरणनी खे
ह ॥ तुमे तो मेघ सघन, क्लुतुना सही रे, अमे तो पश्चिम निशि त्रेह ॥ नाण १३ ॥ तुमे तो
मानसरोवर हंस ठो रे, अमे तो मंरुक् नद थो रे, तुमे तो वैमूर्ध चिंतामणी सारिखा रे,
अमे ठुं कवडाने मूर्ख्य ॥ नाण १४ ॥ तुमे गज सारखा गुणथी गाजतारे, स्वानोपम अमे
एह ॥ सिंह परे डुर्धर तुमे साहिबा रे, अमे शृगाल सरहे ॥ नाण १५ ॥ ते जणी अमने म
हेर करी हेवे रे, निरखी नयण निहाळ ॥ अमे दुःखीयांने देखी दया करो रे, जीवदया
प्रतिपाल ॥ नाण १६ ॥ अमे मूर्ख्यां ते वेवा अति घणुं रे, नवि जाण्या तुम कंत ॥ तेह गु
नह अम पळ्यो ठे प्रीतमा रे, खमज्यो तुमे मतिमंत ॥ नाण १७ ॥ माताजीने अमने अत्र
गुणी रे, नवि बोळो इशि वार ॥ ते विरहानल दाऊया ऊपरे रे, कंतजी कां दियो खार
॥ नाण १८ ॥ हवे अमने तुम दरिशाण दोहिलो रे, देखवो आजथी कंत ॥ बेहलो मेलो कर
वा आवियां रे, अवधारो गुणवंत ॥ नाण १९ ॥ पडिलाभ्यानी हौश हती घणी रे, करवा
हाथ पवीत्र ॥ ते तो अमची पूरी नवि पडी रे, ए ए कर्म विचीत्र ॥ नाण २० ॥ लाढो

अमने वीसरशो नही रे, जीवतां लगे जोर ॥ अंगण आव्या पिण नवि उलख्या रे, ते
अम कर्म कगोर ॥नाण॥१॥ तुमे तो बालपयाशी प्रीतडी रे, पावी पूरण प्रेम ॥ वचन
विरोध न कीघो कोयशी रे, सहुशू चितव्यो खेम ॥नाण॥१२॥ हवे इण वेला बोलावो
मुखे रे, एटले लाख पसाय ॥ अमचो जीवित सफल हुवे सही रे, कहुतुं गोद बिवाय
॥नाण॥१३॥ इणि वेलाये अणबोड्या रहो रे, ते अम जीवित शक्य ॥ अंत समय अव
गुणवो जे करे रे, ते तो मरणने तुड्य ॥नाण॥१४॥ कर दोय जोडी खोला पाथरे रे, का
मिनी तेह बत्रीश ॥ पिण नवि जेहे सांधु शिरोमणी रे, शालिन्न मुनि सुजगीश ॥नाण॥
॥१५॥ नयन उघाडी पिण जोई नही रे, माता प्रामिती कोय ॥ चौथे उडहासे ढाल स
चावीशमी रे, जिन कहे धन धन साथ ॥नाण॥१६॥

॥ दोहा ॥ एहवे अन्नयकुमार सिम, श्री अणिक नूपाल ॥ रुदन करंतां देखिने,
समजावे तिण ताल ॥१॥ शो डःख करवो एहनो, एणे अजुवाड्यो वंश ॥ जिनशासन
शोनावियो, ए उत्तम अवतंस ॥२॥ धन धन ताहरी कूलने, प्रसव्यो पुत्र रत्न ॥ जो
गी योगी जागतो, सकल कला संपन्न ॥३॥ वीरतणी तूं जारजा, वीर प्रसव साहात ॥
धीरज घर चिचमें चतुर, तूं थइ जगत विख्यात ॥४॥ पुत्र जमाई बिहुं जणे, साखां

आतम काज ॥ तेहनशी दुःख गोडि दे, धरी अनंद समाज ॥५॥ तव भद्रा धना प्रते,
 वांटे विविध प्रकार ॥ धन धन तुम अयतारने, इम कहे वारंवार ॥६॥ रडती पडती रो
 वती, पाठी बली प्रवीण ॥ बहु बत्रीशे लेयते, आवी दुःखनरी दीन ॥७॥ वीर पासे व्रत
 आदल्यां, आवर्कनां सुविवेक ॥ वधु सहित जे विधे, आतमश्री अतिरेक ॥८॥ पोखे
 पात्र प्रसन्न मन, सेवे श्रीजिनधर्म ॥ जप शक्ति सम करे, आराधे शिवशर्म ॥९॥
 अंते अणसण आदरी, पहेती ते सुरायोग ॥ महाविदेहे सीऊशे, पामी केवल योग ॥१०॥

॥ ढाल १७ मी. ॥ (वर्तमान शासननो स्वांमी. ए देशी.)

हवेते धनो धर्म धुरंधर, शालिन्नइ मुनिराया जी ॥ करी संक्षेपण काया गाली, ध
 र्मध्यान मन ध्याया जी ॥ हवेण ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ एक मासनो अणसण पाली, दोष
 सवे परजाली जी, व्रत पचखाण सुपरे संजाली, उत्तम सदगति जाली जी ॥ हण ॥१॥
 काम क्रोध मद मडर बंरुयो, सयणशुं स्नेह न मंरुयो जी ॥ मन मंत्रीने पकडी दंरुयो,
 श्री जिनवचन न खंरुयो जी ॥ हण ॥३॥ पुन्योदय अधिके करी पहेल्या, सर्वारथसिद्ध वि
 माने जी ॥ शालिन्नइ धनो दोइ मुनिवर, देव श्या शुभ्र थाने जी ॥ हण ॥ ४ ॥ तेत्रीश
 सागर आयु अनोपम, जोगवशे जली रति जी ॥ अन्योन्ये अहर्मिंपणेशे ते, रहे ठे पूरण

प्रीते जी ॥हण॥॥ तिहांथी चवी नरन्नव ते लहेशे, क्षेत्र विदेह मजार जी ॥ इन्द्रयकुले
 धनवंत थईने, भोगवशे सुख सार जी ॥हण॥ ६ ॥ गुरु देशन सुणी संयम लेई, पालशे
 निरतीचार जी ॥ अंतं केवलज्ञान लहने, पहाचशे मुगति मजार जी ॥हण॥७॥ सतीय
 सुनझडिक आवे जे, चारित्र सु मने पाली जी ॥ अणसण करि सुरलोकें पहेत्यां, निज
 आत्म अजुआली जी ॥हण॥८॥ एकावतारी ते सुविचारी, जही मानव अवतार जी ॥
 संयम संगे निर्मल रंगे, लहेशे शिव श्रीकार जी ॥हण॥९॥ देखो दानतणां फल प्राणी,
 घनाशाहे पास्या जी ॥ संपद लह्यो सवि ठामे ठामे, कीधां सघलां कामा जी ॥ह० ॥
 १० ॥ बांधवमै अधिके बुद्धिमै अधिको, व्यापारे बहु दाम जी ॥ कलाकुशल अति
 शूरपणो तिम, परदेशे धन धाम जी ॥हण॥ ११ ॥ नृप पुत्री परणयो निज नयथी, बू
 ज्यो अबला हास्ये जी ॥ ए आवे अचिज धनाने, कवियण सयल प्रकासे जी ॥ह०
 ॥ १२ ॥ यडुक्तं चरित्रे ॥ वंशस्थवृत्तम् ॥ सौत्रातृमग्रं विविधाश्च बुद्ध्यः, क्रयेमृदादेरपि
 हेमसिद्धयः ॥ कला सुकौशल्यमतीव शूरता, श्रियोविदेशेपि सुखैकसंगता ॥ १ ॥ अपि
 प्रियानर्मगिरावृत्ताव्रति, वणिगजनत्वेपि नृपत्वसंपदः ॥ इमानि धन्ये नितरामनुचरा, न्य
 ष्ठावपिस्यष्टतराणिविष्टपे ॥१॥ जावार्थः--? सर्वोत्तम बांधवोनुं हित चिंतवन, २ विविध

प्रकारनी बुद्धियो, ३ माटी खरिदवामां पण (तेजमतूरी नीकलवाथी) सुवर्णसिद्धियो,
 ४ कलानेने सिद्धि कुशलपणुं, ५ घणुंज शूरतन, ६ परदेशने विषे पण सुखे सुखे लक्ष्मी
 यो मलवी, ७ स्त्रीनी मश्करी रूप वाणीथी व्रत लेवां अने ८ वणिक जन ठतां पण,
 राजानी दोलत; ए आठे हस्मेशां धन कुमसे विषे सर्वोत्तम हतां ॥ १ ॥ १ ॥ 'देवभोग
 नरभवे भोगविधा, कनकनिर्माल्य' धी जी ॥ 'राजा श्रेणिकने किरियाणो, लेवा
 अदिश' धी जी ॥ 'हण' ॥ ३ ॥ 'राजमान अपमान ते जाणयो, ए आश्वर्य अतोले जी ॥
 चारे अन्नत शालिकुभरने, सहकार्यदित बोले जी ॥ हण ॥ १ ४ ॥ यडुक्तं चरित्रः ॥
 स्वर्गोपभोगी नृपतिकयाणकं, सुवर्णनिर्माल्यमभूत्स्रगादिवत् ॥ नरेइमानेप्यपमानचित
 नं, शालिर्महाश्वर्यमिदंचतुष्टयं ॥ ३ ॥ जावार्थः—? स्वर्गनो उपभोग करवो, १ राजाने क
 रियाणुं गणवुं, ३ फूलनी मालादिकनी पेठे सुवर्णने निर्माळ्य गणवुं अने ४ राजाना मा
 नने अपमान गणवुं; ए चार वानां शालिन्नइने विषे महोटां आश्वर्यकारक हतां. ॥ ३ ॥
 अनुत्तरं दानमनुत्तरं तपो, ह्यनुत्तरं मानमनुत्तरो यशः ॥ धन्यस्यशालिश्रुगुशाअनुतराः,
 अनुत्तरंधैर्यमनुत्तरंपदं ॥ ४ ॥ जावार्थः—सर्वोत्कृष्ट दान, सर्वोत्कृष्ट तप, सर्वोत्कृष्ट मान, स
 र्वोत्कृष्ट यश, सर्वोत्कृष्ट धैर्य अने सर्वोत्कृष्ट पद एटले सर्वार्थसिद्ध विमान; ए सर्वे धन

कुमरना अने शालिग्रहकुमरना सर्वोत्कृष्ट गुणो हता. ॥४॥ एह धना शालिग्रहत्तणा गु
 ण, स्वल्प बुद्धिशी गाया जी ॥ रसना पावन निर्मल गुणथी, जाच अनंता पाया जी ॥
 हण ॥ ५ ॥ श्री जिनकी तिसूरीश्वर विरचित, संस्कृत चरित्र निहाली जी ॥ ए अधिकार
 रच्यो में सुवर, निज गुरु वयण संनाली जी ॥ हण ॥ ६ ॥ अधिको उठो रत्नस पयाथी,
 कुटिलबुद्धि संकेते जी ॥ ते मुज मिढाडकड होज्यो, कहुं निज आतम हेते जी ॥ हण ॥ ७ ॥
 श्री तपगणपति तेज दिवाकर, श्री विजयकमासूरि राया जी ॥ तस पट्टांबर दिनमणि
 सांप्रति, श्री विजयद्वयासूरि पाया जी ॥ हण ॥ ८ ॥ तेह तणो आदेश लहीने, रास रच्यो
 ए रूडो जी ॥ चोराशी ढाढे संपूरण, चार उढहासणुं जोड्यो जी ॥ हण ॥ ९ ॥ संवत स
 नरशे नवाणुं, वरषे आधण मासे जी ॥ शित इशमी गुरुवार अनोपम, सिद्धियोग सु
 विवासे जी ॥ हण ॥ १० ॥ हानतयां फल उत्तम जाशी, देजो दान विवासे जी ॥ ढाल
 आठवीशमी जिनविजये कही चोत्रे उढहासे जी ॥ हण ॥ ११ ॥

॥ दोहा. ॥ दान पंच जिन दाखियां, अनय सुपात्र उचंग ॥ अनुकंपा उचितादि
 तिम, कीर्तिदान मन रंग ॥ १ ॥ अनय सुपात्रे मोक्षफल, शेष त्रिणय सुख नोग ॥ लहि
 ये दानतणे गुण, इप्सित सयल संयोग ॥ ३ ॥ यतः ॥ आर्यादृत्तम् ॥ अनय सुपतंदाणं,

अशुकंपात्रं चिंय किञ्चिदाणां ॥ छत्रि वि मोरको नृणो, लिखि वि सुखाइयं विंति ॥१॥
 जावार्थः—अशुकंपात्रं, सुपात्रदानं, अनुकंपादानं, उचितदानं अने कीर्त्तितदानं; ए पांच प्र
 कारना दानसां प्रथमनां दे दान पात्राणि अत्रापि ठे अने बाकीनां अण दान पंश सुख
 जोगादिके अत्रापि ठे ॥१॥ अत्रयत्नेनां अयत्न सुखं, पात्र्या शांतिजिणंद ॥ पात्रदान
 थी परमं पदं, श्री श्रेयासं कुमरं दे शी अनुकंपाथी पिय अधिक, जहा पात्र्या जगसां
 ह ॥ सुजं राजं विक्रमं करणं, प्रमुखं नृपतिं नोभाह ॥ ४ ॥ ते मटे नृवि जन तुमे, दे
 ज्योदानं सुपात्रं ॥ नरचवनो ए लोचने, शुचि करणं निजं गात्रं ॥४॥

॥ ढालं शुभं मी ॥ (दीवो दीवो रे वामाको मदन दीवो. ए देशी.)

श्री गुरुदेव प्रसादे पूरणं, वंभित इच्छित पाया ॥ दान कल्पद्रुम रास रचंते, आणो
 द अधिक उपाया रे ॥ मं दानतला गुण गाया ॥१॥ ए आंकणी ॥ जिम कल्पद्रुम वंभित
 पूरे, तिम ए शुभफल दाता ॥ दानादिक अधिकार अनोपम, बायाथी सुखशाता रे ॥ मं०
 ॥१॥ मंगलाचरण ते मूल मनोहर, सुनय ते पीठ प्रकास ॥ वचन युक्ति ते स्कंध विरा
 जे, चार शाखा उच्छ्वास रे ॥ मं० ॥३॥ नव नव रूपे ढालनी रचना, प्रतिशाखा प्रतिज्ञा
 से ॥ दोकध पत्र सदा नवपद्मव, सुकृत् पुष्प सुवासि रे ॥ मं० ॥ ४ ॥ शुभ्र फल ते तस अ

श्रुतौ कहेवो, रीऊववो ते स्वाद ॥ श्रोता पंखी विविध जातिना, स्वाद ग्रहे अथ मादरे
॥मै०॥ ५ ॥ रकक ते गुरु वक्ता समजुं, कळपडुमनो स्वामी ॥ ते पासेथी फल मागीजे,
आतमने हित कामी रे ॥मै०॥ ६ ॥ ए फल स्वादनथी दुःख जावे, लहिये मंगल मावो ॥
देशी विविध प्रकारे विधिंशुं, स्व स्वरथी करी गावो रे ॥मै०॥ ७ ॥ श्री तपगढ सुरेश अ
नोपम, श्री विजयदेवसूरिंदा ॥ गौतम जंबू वयर समोवड, गुणथी तेह मुखिंदा रे ॥मै०
॥ ७ ॥ तस पढे श्री विजयसिंह गुरु, मुनिजन कैरव चंदा ॥ गुणमणी रोहण भूधर ऊपम,
संघ सकल सुखकंदा रे ॥मै०॥ ८ ॥ मेढपाट पति राणा जगतसिंह, प्रतिबोधी जश ली
घो ॥ पल आखेटक नियम करावी, श्रावक सम ते कीधो रे ॥मै०॥ ९ ॥ तास शिष्य
सुविहित मुनि पुंगव, बुध गजविजय स्वाया ॥ शांति सुधारस परम महोदधि, उत्तम
सुयस उपाया रे ॥मै०॥ १० ॥ तस सेवक कोविद शिर शेखर, हितविजय गुरु राया ॥ षट
दर्शन आगम जलनिधिमें, बुद्धि जिवाज सराया रे ॥मै०॥ ११ ॥ तास शिष्य पंक्ति जि
न सिधूर, ज्ञाणविजय मन ज्ञाया ॥ तास सतीर्थ विबुध जिनविजये, गिरुआना गुण
गाया रे ॥मै०॥ १२ ॥ श्री महावीरने वार मनोहर, पंच पुरुष सु कहाया ॥ लब्धिपात्र श्री
गौतम गणधर, बुद्धे अचय सुहाया रे ॥मै०॥ १३ ॥ माने दशारणभद्र महाबलि, कथवन्नो

वृद्धिशी शालिन्नइ तिम, नाम दीये जय ज्ञागे रे ॥मैण॥१५॥ शालिन्न
 जेहना सुजय प्रसिया ॥ नाम लियंतां पातिक नासे, निर्मल श्रिये
 तपगच्छमें धरि वराणी, दीपविजय बुद्ध राया ॥ तेहना शिष्य संवे
 विजय संवाय रे ॥मैण॥१७॥ तस पद संवक कृष्णविजय वर, धर्म
 स आग्रहथी रासनी रचना, कीधी गुरु सुपसाया रे ॥मैण॥१८॥ उ
 णी, नाव धनोपम लाया ॥ सुविहितना गुण ज्ञायते सुशते, श्रो
 ॥मैण॥१९॥ वृद्धोपरि ए ढाल पताका, रूप कही मनरंगे ॥ सूरतिमं
 तमें सुख संगे रे ॥मैण॥२०॥ चार उड्हासे अधिक विलासे, दान
 जिनविजय कहे विस्तरज्यो, शत शाखाये सुखायो रे ॥मैण॥२१॥
 रित्रप्राकृतप्रबंधेदानकल्पदुमाख्येचतुर्थशाखारूपधनशासिसंयम
 धोचतुर्थोड्हासः समाप्तम् ॥ अस्मिन्नोड्हासे ढाल ॥१९॥
 द्वीतियोड्हासे ढाल १७, तृतीयोड्हासे ढाल ११, चतुर्थोड्हासे
 ढाल १९ ॥ सर्व ढालो ८९ ॥